


मुक्त व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम
कोड संख्या 826-827

योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम

प्रायोगिक विषय

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण-826

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास
(माइक्रो-मैक्रो शिक्षण-प्रशिक्षण)-827



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ एक स्वायत्त संस्थान)

ए-24-25, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर - 62, नोएडा - 201309 (उ.प्र.)

मुक्त व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम
पाठ्यक्रम कोड 826-827

योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम

प्रायोगिक विषय

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण-826

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास (माइक्रो-मैक्रो शिक्षण-प्रशिक्षण)-827



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ एक स्वायत्त संस्थान)

ए-24-25, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर - 62, नोएडा -201309 (उ.प्र.)

वेबसाइट: www.nios.ac.in, टॉल फ़िर नंबर 18001809393

योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम : 826-827

आधार

सलाहकार एवं मार्ग-दर्शन समिति

प्रोफेसर सरोज शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नोएडा (उत्तर प्रदेश)	श्री एस के प्रसाद निदेशक, व्या. शिक्षा विभाग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नोएडा (उत्तर प्रदेश)	डॉ. टी एन गिरि संयुक्त निदेशक, व्या. शिक्षा विभाग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नोएडा (उत्तर प्रदेश)	श्रीमती अनीता नायर उपनिदेशक, व्या. शिक्षा विभाग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नोएडा (उत्तर प्रदेश)
--	---	--	--

पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्चा

डॉ. भानु प्रकाश जोशी कार्यक्रम संयोजक, योग विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	डॉ. सुरेश बरनवाल विभागाध्यक्ष, योग विभाग देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, हरिद्वार	डॉ. रामअवतार शर्मा योग स्पेशलिस्ट, सामान्य गवर्नर्मेंट हॉस्पिटल, जिला नूह, हरियाणा	आचार्य कौशल कुमार निदेशक राष्ट्र निर्माण योग संस्थान, दिल्ली
डॉ. गोपाल जी गेस्ट प्रोफेसर (योग) दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली	श्रीमती सरिता शर्मा निदेशक योग सरिता फाउंडेशन, दिल्ली	योगाचार्या सीमा सिंह निदेशक, इंटीग्रेल योग केंद्र वैशाली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	डॉ. निधीश यादव सहा. प्रोफेसर, पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
डॉ. निधि गर्ग सहा. प्रोफेसर, संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा (उ.प्र.)	डॉ. स्वेहलता एस. प्रोफेसर, वी.वाई.डी.एस. आयु. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खुर्जा (उ.प्र.)	श्री आदित्य भारद्वाज संयुक्त सचिव अन्तर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संघ दिल्ली	डॉ. पवन कुमार चौहान व.का. अधिकारी (योग एवं प्रा.चि.) व्या.शि.वि., रा.म.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)

लेखन टीम

डॉ. ऊर्धम सिंह सहा. प्रोफेसर, योग विभाग, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तराखण्ड	डॉ. निधीश यादव सहा. प्रोफेसर पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	डॉ. रामअवतार शर्मा योग स्पेशलिस्ट, सामान्य गवर्नर्मेंट हॉस्पिटल, जिला नूह, हरियाणा	डॉ. पवन कुमार चौहान व.का. अधिकारी (योग एवं प्रा.चि.) व्या.शि.वि., रा.म.वि.शि.सं., नोएडा (उ.प्र.)
--	---	--	--

संपादन

प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज (पाठ्यक्रम समिति अध्यक्ष), पूर्व विभागाध्यक्ष योग विभाग, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तराखण्ड	आचार्य कौशल कुमार निदेशक राष्ट्र निर्माण योग संस्थान, दिल्ली	डॉ. भानु प्रकाश जोशी कार्यक्रम संयोजक, योग विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
डॉ. सुरेश बरनवाल विभागाध्यक्ष, योग विभाग देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, हरिद्वार	डॉ. मोनिका हीरा सी. एम. आ०. विवेकानंद प्राकृतिक चिकित्सालय, दिल्ली	

पाठ्यक्रम डिजाइन, परिवर्धन एवं संयोजन

डॉ. पवन कुमार चौहान
वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)
व्यावसायिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

ग्राफिक्स/पिक्चर्स तथा पाठ्यक्रम विकास में सहयोग

डॉ. एस के त्यागी विभागाध्यक्ष, योग विज्ञान विभाग गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखण्ड	डॉ. विक्रमादित्य निदेशक विवेकानंद हॉस्पिटल, दिल्ली	श्री पवन कुमार एवं श्री गणेश प्रसाद रिसर्च स्कॉलर गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखण्ड	केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली
---	--	--	--

अध्यक्ष की कलम से ...

प्रिय शिक्षार्थियों,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है!

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ एक शैक्षिक बोर्ड है, जो शिक्षा से वंचित प्रत्येक वर्ग को शैक्षिक व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है। आज समाज को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो शिक्षित बनाने के साथ-साथ रोजगार भी उपलब्ध करा सके और देश के युवाओं को कौशल प्रदान कर, उनके कार्यक्षेत्र में सक्षम बना सके। वर्तमान समय की इस मांग को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) का यही प्रयास है कि, प्रमुख रूप से देश के युवा, अपना काम-काज जारी रखते हुए मुक्त शिक्षा के माध्यम से अपनी रुचि अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और व्यवसाय व रोजगार की दिशा में उन्नति कर सकें।

योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो प्राचीनकाल से ही हमारी जीवनशैली के साथ जुड़ा है। योग अनुशासन का वह विज्ञान है, जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है। इसी आधार पर मनुष्य जीवन जीने की कला सीखता है। स्वस्थ एवं चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए, आज समाज को योग की आवश्यकता है। पिछले एक दशक में विश्व भर के लोगों का ध्यान योग पर गया है और वे चिकित्सा सहित योग के विभिन्न पहलुओं पर अन्वेषण में अनवरत प्रयत्नशील हैं। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उनमें योग चिकित्सा प्रमुख है और अधिकांशतः लोग योग चिकित्सा पर विश्वास कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। यह बिना औषधि की ऐसी प्रभावी चिकित्सा है, जो स्वास्थ्य प्रदान करने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करती है।

मुझे प्रसन्नता है कि, आपने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र के अन्तर्गत, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का चुनाव किया है। यह दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जो यौगिक चिकित्सा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें प्रथम वर्ष में योग-शिक्षण-प्रशिक्षण तथा द्वितीय वर्ष में योग चिकित्सा को शामिल किया गया है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों में योग शिक्षण-प्रशिक्षण और योग चिकित्सा हेतु कौशल विकसित करना एवं सक्षम बनाना है। ताकि उन्हें सरकारी-गैरसरकारी स्वास्थ्य व योग संस्थानों में रोजगार मिल सके।

यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर देश के विभिन्न विषय विशेषज्ञों और चिकित्सकों द्वारा विकसित किया गया है। इसका श्रेय पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज, पूर्व विभागाध्यक्ष, योग विभाग, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड और डॉ. पी. के. चौहान, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को जाता है, जिन्होंने डॉ. भानु जोशी, विभागाध्यक्ष, योग एवं प्रा. चि. विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, डॉ. सुरेश बरनवाल, विभागाध्यक्ष, योग विभाग, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार, आचार्य कौशल कुमार, निदेशक, राष्ट्र निर्माण योग संस्थान, दिल्ली, डॉ. रामअवतार शर्मा, योग स्पेशलिस्ट, सामान्य अस्पताल (हरियाणा सरकार), जिला नूह, हरियाणा, डॉ. निधीश यादव, सहा. प्रोफेसर पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार आदि प्रतिष्ठित विद्वानों के साथ मिलकर इस पाठ्यक्रम को विकसित किया।

मैं इस पावन एवं मंगलकार्य में विशेष सहयोग व मार्गदर्शन के लिए प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के साथ आप इसी प्रकार अपना सहयोग बनाएं रखेंगे और अपने बहूमूल्य सुझावों से हमें अनुग्रहीत करते रहेंगे।

पाठ्यक्रम में नामांकन कराने के लिए मैं, शिक्षार्थियों आप सब को बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि, यह पाठ्यक्रम आपके लिए अत्यंत हितकर सिद्ध होगा।

सफल व उज्ज्वल भविष्य की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

प्रोफेसर सरोज शर्मा

अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा

शिक्षार्थियों के लिए दो शब्द ...

प्रिय शिक्षार्थियों,

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के व्यावसायिक पाठ्यक्रम - 'योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम' में आपका स्वागत है।

'योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम' योग विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। योग के क्षेत्र में रुचि रखने वाले वे सभी लोग, इस पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं, जो योग शिक्षण-प्रशिक्षण तथा योग चिकित्सा में कार्य करने के इच्छुक हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को विकसित किया गया है। यह कार्यक्रम, जहां योग दर्शन, यौगिक संस्कृति तथा मानवीय मूल्य, मानव शरीर, शुद्धि, यौगिक आहार, यौगिक अभ्यास, योग और जीवन, व्यवहारिक मनोविज्ञान एवं योग आदि पर गहन ज्ञान का प्रकाश डालता है, वहीं यौगिक-प्रशिक्षण और जीवन शैली संबंधित विकारों के यौगिक प्रबंधन पर कौशल एवं दक्षता प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिक भी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं।

भारतीय ज्ञान परम्परा में योग का बहुत महत्व है। प्राचीनकाल से ही योग हमारी जीवन शैली के अंग के रूप में समाहित रहा है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है जो मन व शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग अनुशासन का विज्ञान है, जो शरीर, मन तथा आत्मशक्ति का सर्वांगीण विकास कर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आज योग सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। स्वस्थ एवं चुस्त-दुरुस्त रहने की दृष्टि से भी योग शिक्षा की समाज में विशेष रूप से मांग है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षार्थियों को योग में प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के सफल शिक्षार्थी, यौगिक संस्थानों, योग प्रशिक्षण केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालयों, आयुष के योग केंद्रों, विभिन्न विद्यालयों-महाविद्यालयों, कॉर्पोरेट सेक्टर आदि में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और योग से चिकित्सा कर सकते हैं।

उक्त पाठ्यक्रम में कुल दस पेपर हैं। प्रथम वर्ष सिद्धांत (थ्योरी) के तीन (1. योग दर्शनशास्त्र एवं क्रियाविज्ञान, 2. मानव शरीर, यौगिक आहार, और शारीरिक शुद्धि, 3. व्यावहारिक योग विज्ञान) और व्यावहारिक प्रशिक्षण के दो (1. प्रायोगिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण, 2. योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास) पेपर शामिल हैं। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में भी सिद्धांत (थ्योरी) के तीन (1. योग और जीवन, 2. व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग, 3. स्वास्थ्य प्रबंधन एवं योग चिकित्सा) और व्यावहारिक प्रशिक्षण के दो (1. मानव शरीर पर यौगिक प्रभाव और 2. योग चिकित्सा) पेपर शामिल हैं।

सम्पूर्ण स्व-अनुदेशात्मक अध्ययन सामग्री में शिक्षार्थी सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्रत्येक पाठ सरल व सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया है। शिक्षार्थी की पाठ-संबंधी समझ का विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक पाठ में पाठगत प्रश्नों को शामिल किया गया है साथ ही कक्षा के बाहर का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी गतिविधियां शामिल की गई हैं।

उक्त पाठ्यक्रम के संबंध में, आपके महत्वपूर्ण सुझावों का हम स्वागत करेंगे। यदि कोई संदेह अथवा समस्या है तो आप निःसंकोच हम से संपर्क कर सकते हैं अथवा हमें लिख सकते हैं।

हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आपके कैरियर को सही दिशा प्रदान करेगा। हम आपके सफल और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं!

शुभकामनाओं सहित,

कार्यक्रम समन्वयक एवं पाठ्यक्रम समिति
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (व्यावसायिक शिक्षा विभाग)

योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा

- पाठ्यक्रम शीर्षक : योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीवाईएस)
- जॉब रोल : योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालयों, अस्पतालों, योग वेलनेस केन्द्रों तथा संबन्धित स्वास्थ्य विभागों में योग अनुदेशक/शिक्षक, सहायक चिकित्सक के रूप में
- स्तर : डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- पाठ्यक्रम अवधि : 2 वर्ष

परिचय

भारतीय संस्कृति में योग का बहुत महत्व है। प्राचीनकाल से ही योग, मनुष्य की जीवन शैली का एक अंग रहा है। योग, मन एवं शरीर के बीच सासामंजस्य स्थापित करता है। यह अनुशासन का वह विज्ञान है, जो शरीर, मन व आत्मशक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। आज स्वस्थ एवं चुस्त-दुरुस्त रहने की दृष्टि से, योग विश्व भर में लोकप्रिय हो रहा है। अतः समाज में योग शिक्षा की विषेशरूप से मांग है।

‘योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम’ योग विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। योग के क्षेत्र में रुचि रखने वाले वे सभी लोग, इस पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं, जो योग शिक्षण-प्रशिक्षण तथा योग चिकित्सा में कार्य करने के इच्छुक हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को विकसित किया गया है। यह कार्यक्रम, जहां योग दर्शन, यौगिक संस्कृति तथा मानवीय मूल्य, मानव शरीर, शुद्धि, यौगिक आहार, यौगिक अभ्यास, योग जीवन, आदि पर गहन ज्ञान का प्रकाश डालता है, वहीं यौगिक-प्रशिक्षण और जीवन शैली संबन्धित विकारों के यौगिक प्रबंधन पर कोशल एवं दक्षता प्रदान करता है।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात, प्रशिक्षु सक्षम होंगे –

- मानव शरीर विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की मूलभूत जानकारी रखने में;
- योग सिद्धांतों तथा योग क्रिया विज्ञान को समझा पाने में;
- स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं यौगिक आहार पर प्रकाश डालने में;
- यौगिक संस्कृति की अवधारणाओं को जानने और मानवीय मूल्यों की विवेचना करने में;

- योग के एकीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोगों को लागू करने में;
- योग कक्षाएं संचालित करने तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में;
- शिक्षार्थियों को योग शिक्षा देने में;
- मानव शरीर पर यौगिक प्रभाव की व्याख्या करने में;
- विशेष रूप से जीवन शैली संबंधित विकारों के यौगिक प्रबंधन पर कौशल प्राप्त करने एवं दक्षता हासिल करने में।

रोजगार के अवसर

सफल अभ्यर्थी प्रशिक्षण के पश्चात, निम्नांकित संस्थानों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे;

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ● आयुष वेलनेस केंद्र | ● प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | ● योग संस्थान |
| ● योग प्रशिक्षण केंद्र, | ● योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र | ● संबंधित चिकित्सालय |
| ● विभिन्न विद्यालय-महाविद्यालय, | ● स्वास्थ्य क्लब | ● कॉर्पोरेट जगत आदि में रोजगार |

प्रवेश योग्यता

- **शैक्षिक योग्यता :** किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12 वीं कक्षा पास या समकक्ष
- वे सभी अभ्यर्थी, जो एनआईओएस का योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, वे अभ्यर्थी भी इस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (सैद्धांतिक पेपर - 6, 7 व 8 और प्रैक्टिकल पेपर - 9 व 10) में सीधे एडमीशन ले सकते हैं और पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात, दोनों मिलाकर डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं।
- न्यूनतम उम्रः प्रवेश के समय उम्र 18 वर्ष या अधिक

लक्ष्य समूह

सभी भारतीय तथा विदेशी नागरिक, जो उपर्युक्त पात्रता की शर्तें पूरी करते हों।

पाठ्यक्रम अवधि: दो वर्ष

पीसीपी/प्रशिक्षण : कुल आवश्यक संपर्क घंटे – 1280 घंटे

- प्रथम वर्षः $10 \text{ माह} \times 8 \text{ दिन} (\text{एक माह में}) \times 5 \text{ घंटे} = 400 \text{ घंटे}$
- द्वितीय वर्षः $10 \text{ माह} \times 8 \text{ दिन} (\text{एक माह में}) \times 5 \text{ घंटे} = 400 \text{ घंटे}$
- अवधि के दौरान 10-10 दिनों की 06 कार्यशालाएं (अनिवार्य) अर्थात् प्रत्येक कार्यशाला 10 दिन $\times 08 \text{ घंटे} = 80 \text{ घंटे}$ $\times 06 = 480 \text{ घंटे}$

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या

अध्ययन योजना

- सिद्धांत – 30%
- प्रशिक्षण – 50%
- शिक्षार्थी पोर्टफोलियो – 20%

अनुदेश योजना

- स्व-निर्देशित मुद्रित सामग्री
- एवीआई/अध्ययन केन्द्रों पर सम्पर्क कक्षाओं एवं व्यावहारिक-प्रशिक्षण की सुविधा;
- श्रव्य-दृश्य सामग्री

पाठ्यक्रम में कुल दस विषय/पेपर हैं, जिसमें सिद्धांत (थोरी) के छः और व्यावहारिक प्रशिक्षण के चार विषय/पेपर शामिल हैं;

क्र. सं.	विषय/पेपर संख्या	विषय/पेपर का नाम	कोड संख्या
प्रथम वर्ष के सिद्धांतिक विषय/पेपर			
1.	प्रथम विषय/पेपर	योग दर्शनशास्त्र एवं क्रिया विज्ञान (Yoga Philosophy and Physiology)	823
2	द्वितीय विषय/पेपर	मानव शरीर रचना, शारीरिक शुद्धि और यौगिक आहार (Human Body, Cleansing and Yogic Diet)	824
3	तृतीय विषय/पेपर	व्यावहारिक योग विज्ञान (Applied Yogic Science)	825
प्रथम वर्ष के प्रायोगिक विषय/पेपर			
4	चतुर्थ विषय/पेपर	प्रायोगिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण (Yogic Practices and Training)	826
5	पंचम विषय/पेपर	योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास (माइक्रो/मैक्रो-टीचिंग) (Yoga Teaching Skill Development)	827
द्वितीय वर्ष के सिद्धांतिक विषय/पेपर			
1	प्रथम विषय/पेपर	योग और जीवन (Yoga and life)	828
2	द्वितीय विषय/पेपर	व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग (Applied Psychology and Yoga)	829

3	तृतीय विषय/पेपर	स्वास्थ्य प्रबंधन एवं योग चिकित्सा (Health Management and Yoga Therapy)	830
द्वितीय वर्ष के प्रायोगिक विषय/पेपर			
4	चतुर्थ विषय/पेपर	मानव शरीर पर यौगिक प्रभाव (Yogic Effect On Human Body)	831
5	पंचम विषय/पेपर	योग चिकित्सा (Yoga Therapy)	832

प्रथम वर्ष के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्चा (सिद्धांतिक व प्रायोगिक विषय/पेपर)

सैद्धान्तिक विषय -1: योग दर्शनशास्त्र एवं क्रिया विज्ञान

1. योग और योगिक ग्रंथ

- योग-एक परिचय
- अर्थ और परिभाषा
- योग का उद्भव, इतिहास एवं विकास
- योग दर्शन (योग के दर्शनशास्त्र का परिचय)
- मुख्य यौगिक ग्रंथों का सामान्य परिचय
- योग की प्रमुख परम्पराएँ; ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग और हठ योग
- योग की उपयोगिता एवं महत्व

2. अष्टांग योग

- अष्टांग योग का परिचय
- यम
- नियम
- आसन
- प्राणायाम
- प्रत्याहार

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा

- धारणा
- ध्यान
- समाधि
- अष्टांग योग की उपयोगिता एवं महत्व

3. यौगिक संस्कृति और मूल्य शिक्षा

- यौगिक संस्कृति
- पुरुषार्थः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
- चार आश्रमः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास
- साधन चतुष्टयः विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और मुमुक्षुत्व
- भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्य
- आधुनिक काल में मूल्यों का क्षय
- आधुनिक जीवन के संदर्भ में प्राचीन भारतीय मूल्यों की प्रासंगिकता

सैद्धान्तिक विषय - 2: मानव शरीर, यौगिक आहार और शारीरिक शुद्धि

4. मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान

- मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान; परिचय
- मानव शरीर, कोशिका, ऊतक एवं अंग
- मानव शरीर का संगठन; अंग तथा संस्थान
- मानव शरीर में संस्थानों (प्रणालियों) का संक्षिप्त परिचय

5. यौगिक आहार

- भोजन, आवश्यकता और महत्व
- आहार, पोषण और स्वास्थ्य में संबंध
- यौगिक आहार की अवधारणा
 - सात्त्विक,
 - राजसिक,
 - तामसिक
- अम्लीय और क्षारीय आहार (20:80 अनुपात)

- आहार संबंधी अच्छी आदतें
- मिताहार; कब और कितना आहार लें
- आयु, रोग, मौसम और समय के अनुसार यौगिक आहार
- चिकित्सा के रूप में खाद्य पदार्थ और विभिन्न बीमारियों के उपचार में भोजन का महत्व।

6. षट्कर्म (शारीरिक शुद्धि)

- षट्कर्म की अवधारणा
- हठ योग में शुद्धि क्रियाएँ
- धौति - अन्तर्धोति, दन्तधोति, हृदधोति एवं मूलशोधन
- बस्ती
- नेति
- त्राटक
- नौली
- कपालभाती
- षट्कर्म की उपयोगिता एवं महत्व

सैद्धान्तिक विषय -3 : व्यावहारिक योग विज्ञान

7. योगाभ्यास करने से पूर्व-निर्देश, तैयारी और सावधानियाँ

- योगाभ्यास करने से पूर्व की जाने वाली तैयारियाँ
- योगाभ्यास के पूर्व आवश्यक निर्देश
- साफ, सफाई, स्वच्छता और आवश्यक सावधानियाँ
- आपातकालीन स्थिति में प्रबंधन और प्राथमिक उपचार

8. यौगिक सूक्ष्म क्रियाएँ (व्यायाम)

- यौगिक सूक्ष्म क्रियाएँ (व्यायाम) और इनका महत्व
- यौगिक क्रियाओं से पूर्व की जाने वाली तैयारी और सावधानियाँ
- प्रार्थना और यौगिक क्रियाओं के अभ्यास

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा

- पवनमुक्त आसन सीरीज -1
 - हस्त संधि संचालन के अभ्यास
 - पाद संधि संचालन के अभ्यास
 - ग्रीवा संचालन के अभ्यास
- पवनमुक्त आसन सीरीज -2
 - उदर संचालन के अभ्यास; उत्तानपादासन, पाद संचालन, पवन मुक्तासन आदि
- पवनमुक्त आसन सीरीज -3
 - शक्ति बंध के अभ्यास; चक्की चालन, नौका चलासन, रुजूकर्षण आदि
- विशेष अभ्यास
- विश्रामात्मक आसन और ध्यानात्मक आसन

9. योग आसन

- योग आसन, महत्व एवं उपयोगिता
- अभ्यास से पूर्व तैयारी और सावधानियाँ
- सूर्यनमस्कार
- विभिन्न योग आसन, क्रिया-विधि, लाभ एवं सावधानियाँ

10. प्राणायाम, मुद्रा- बंध और ध्यान साधना

- प्राणायाम, प्राण का स्वरूप, प्राणवाही नाड़ियाँ, क्रिया-विधि एवं महत्वपूर्ण निर्देश
- हठयोग में वर्णित प्राणायाम
- प्राणायामों के अभ्यास से पूर्व तैयारी और सावधानियाँ
- मुद्रा एवं बंध; परिचय, क्रिया विधि, लाभ एवं सावधानियाँ
- ध्यान साधना; मंत्र, आजपा साधना, अंतरमौन एवं स्वदर्शन
- चक्र
- योग निद्रा

11. योग द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन (सभी के लिए योग)

- समग्र स्वास्थ्य के आयाम
- बच्चों के किशोरों के लिए योग अभ्यास
- युवाओं के लिए योग अभ्यास
- महिलाओं के लिए योग अभ्यास
- बुजुर्गों के लिए योग अभ्यास

व्यावहारिक विषय - 4: प्रायोगिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण

- भक्ति योग, कर्म योग आदि पर अभ्यास
- यौगिक आहार
- षटकर्म
- यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं (व्यायाम)
- सूर्य-नमस्कार
- विभिन्न योग आसन
- प्राणायाम
- मुद्रा एवं बंध
- ध्यान साधना
- योग निद्रा
- मंत्र एवं चेंटिंग
- स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग
- योग केंद्रों की विजिट

व्यावहारिक विषय - 5: योग शिक्षण-प्रशिक्षण (माइक्रो/मैक्रो-टीचिंग कौशल विकास) और अभ्यास

- पाठ्यक्रम परिचय एवं संचालन
- प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- 10-10 दिन की तीन योग कार्यशालाओं का आयोजन
 - प्रथम योग कार्यशाला में योग अभ्यास तथा सैद्धान्तिक कक्षाएँ
 - (i) प्रशिक्षार्थियों से प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका तैयार कराई जाएं।
 - द्वितीय योग कार्यशाला में योग अभ्यास तथा सैद्धान्तिक कक्षाओं के लिए सूक्ष्म शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास प्रशिक्षार्थियों में मुख्यतः निर्मांकित कौशल विकसित किए जाएं और सूक्ष्म शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए पाठ्-योजना (Lesson Plan) तैयार कराया जाए -
 - (i) स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण
 - (ii) प्रदर्शन के सिद्धांत एवं गुणात्मक शिक्षण
 - (iii) अवलोकन, सहायता और सुधार
 - (iv) अनुशासन, समय-पालन तथा शिक्षार्थियों से व्यवहार

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा

- (v) शिक्षण-प्रशिक्षण शैली
 - (vi) शिक्षकों के गुण
 - (vii) आवाज प्रक्षेपण,
 - (viii) शिक्षार्थियों की प्रगति पर प्रोत्साहन, देखभाल और मार्गदर्शन
 - (ix) कक्षा योजना और संरचना
 - (x) कक्षा का आयोजन
 - (xi) सीखने की छात्र की प्रक्रिया
 - (xii) सरेखण और हाथों से समायोजन
 - (xiii) सुरक्षा, संरक्षा और सावधानी
 - (xiv) कक्षा तथा योगाभ्यास के दौरान आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन
 - (xv) प्राथमिक उपचार
 - (xvi) योग की जीवन शैली और योग शिक्षक की नैतिकता
 - (xvii) योग शिक्षण (अध्यापन)
 - (xviii) प्रशिक्षण के अनुदेश
- तृतीय योग कार्यशाला में योग अभ्यास तथा सैद्धान्तिक कक्षाओं के लिए बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास प्रशिक्षार्थियों के बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण की पाठ्य-योजना (Lesson Plan) को चेक किया जाए, साथ ही निम्नांकित कौशल विकास का अवलोकन शिक्षक द्वारा कक्षा के दौरान किया जाएं-
- (i) स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण
 - (ii) प्रदर्शन के सिद्धांत एवं गुणात्मक शिक्षण
 - (iii) अवलोकन, सहायता और सुधार
 - (iv) अनुशासन, समय-पालन तथा शिक्षार्थियों से व्यवहार
 - (v) शिक्षण-प्रशिक्षण शैली
 - (vi) शिक्षकों के गुण
 - (vii) आवाज प्रक्षेपण,
 - (viii) शिक्षार्थियों की प्रगति पर प्रोत्साहन, देखभाल और मार्गदर्शन
 - (ix) कक्षा योजना और संरचना
 - (x) कक्षा का आयोजन
 - (xi) सीखने की छात्र की प्रक्रिया

- (xii) सरेखण और हाथों से समायोजन
- (xiii) सुरक्षा, संरक्षा और सावधानी
- (xiv) कक्षा तथा योगाभ्यास के दौरान आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन
- (xv) प्राथमिक उपचार
- (xvi) योग की जीवन शैली और योग शिक्षक की नैतिकता
- (xvii) योग शिक्षण (अध्यापन)
- (xviii) प्रशिक्षण के अनुदेश

द्वितीय वर्ष के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्चा (सिद्धांतिक व प्रायोगिक विषय/पेपर)

सैद्धान्तिक विषय - 6: योग और जीवन

1. योग का अस्तित्व

- वैदिक काल में योग का स्वरूप एवं अस्तित्व
- उपनिषद् काल में योग का स्वरूप एवं अस्तित्व
- दर्शन काल में योग का स्वरूप एवं अस्तित्व
- आधुनिक काल में योग का स्वरूप एवं अस्तित्व
- योग में वर्णित ईश्वर का स्वरूप

2. मुख्य उपनिषद् श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार यौगिक जीवन

- श्रीमद्भगवद्गीता में योग
- ज्ञान योग
- भक्ति योग
- कर्म योग

3. पातांजल योग दर्शन

- भारतीय परम्परा में योग का स्वरूप
- योग सूत्र के प्रणेता का परिचय

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या

- योग सूत्र एक उत्तम योग ग्रंथ
- योग सूत्र के अनुसार, योग परिभाषा की विवेचना

4. हठ योग एवं प्रमुख ग्रंथ

- हठयोग का अर्थ, परिभाषा तथा सामान्य परिचय
- चक्र, कुंडलिनी एवं नाड़ी
- हठयोग के अंग - षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि ।
- हठयोग अभ्यास के लाभ
- अन्य प्रमुख परम्पराएँ एवं ग्रंथ

5. योग एवं स्वास्थ्य

- स्वास्थ्य
- स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण
- स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक
- साफ, सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ परस्पर सम्बंध
- स्वास्थ्य रक्षा के छः नियम
- स्वस्थ-वृत
- दिनचर्या एवं रात्रिचर्या
- ऋतुचर्या
- योग द्वारा समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति

सैद्धान्तिक विषय - 7: व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग

6. व्यावहारिक मनोविज्ञान

- परिचय, अर्थ एवं परिभाषा
- व्यावहारिक मनोविज्ञान का इतिहास एवं विकास
- व्यावहारिक मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र

7. व्यक्तित्व

- व्यक्तित्व
- व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएँ
- व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले कारक

8. मनोवैज्ञानिक समस्याएँ एवं यौगिक प्रबंधन

- स्वास्थ्य संबंधी मनोवैज्ञानिक समस्याएँ
 - तनाव; लक्षण, कारण एवं यौगिक प्रबंधन
 - चिंता; लक्षण, कारण एवं यौगिक प्रबंधन
 - अवसाद; लक्षण, कारण एवं यौगिक प्रबंधन

9. व्यसन

- व्यसन
- प्रकृति, लक्षण, कारक एवं मादक पदार्थों का व्यसन
- समाज में व्यसन की स्थिति
- मादक पदार्थों का दुष्प्रभाव
- व्यसन मुक्ति के लिए यौगिक प्रबंधन

सैन्धानिक विषय - 8: स्वास्थ्य प्रबंधन एवं योग चिकित्सा

10. यौगिक स्वास्थ्य प्रबंधन

- बाल्यावस्था में यौगिक प्रबंधन (शारीरिक समग्र विकास - शारीरिक और मानसिक)
- किशोरावस्था में यौगिक प्रबंधन
- युवावस्था में यौगिक प्रबंधन
- प्रोढावस्था में यौगिक प्रबंधन
- महिलाओं के लिए यौगिक प्रबंधन
- वृद्धावस्था में यौगिक प्रबंधन
- खिलाड़ियों के लिए यौगिक प्रबंधन
- सुरक्षाबल के लिए यौगिक प्रबंधन
- फिटनेस के लिए योगाभ्यास क्रम
- पर्यटकों के लिए यौगिक प्रबंधन

11. तनाव (स्ट्रेस) में यौगिक प्रबंधन

- छात्रों के लिए तनाव (स्ट्रेस) में यौगिक प्रबंधन
- सामान्यजन एवं परिवार जनों के लिए तनाव (स्ट्रेस) में यौगिक प्रबंधन
- कॉर्पोरेट एवं सेवा सेक्टर में यौगिक प्रबंधन

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या

12. श्वसन एवं हृदय (कोर्डियोवेस्कुलर) संबंधी बीमारियाँ एवं यौगिक चिकित्सा

- श्वसन विकार – साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाईटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि में यौगिक चिकित्सा।
- हृदय (कोर्डियोवेस्कुलर) संबंधी बीमारियाँ – कोरोनरी आर्टिरी डीजीज (सीएडी), अंजाइना, रक्तचाप, इस्केमिक हृदय रोग (आईएचडी), वैरिकाज शिरा, आदि में यौगिक चिकित्सा।

13. पाचन एवं मूत्र-जनन संबंधी बीमारियाँ एवं यौगिक चिकित्सा

- पाचन तंत्र विकार – अपच, कब्ज, एसीडिटी, आईबीएस, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, गुदा रोग आदि में यौगिक चिकित्सा।
- मूत्र तंत्र विकार – नेफ्राइटिस, मूत्रदाह (यूटीआई), किडनी स्टोन, मूत्र रोग आदि में यौगिक चिकित्सा।
- प्रजनन संबंधी बीमारियों में यौगिक चिकित्सा।

14. मस्कुलो-स्केलेटल सिस्टम संबंधी बीमारियाँ एवं यौगिक चिकित्सा

- मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न आदि में यौगिक चिकित्सा।
- अर्थराइटिस, सर्वाईकल स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द, कटिस्नायुशूल और स्लिप डिस्क आदि में यौगिक चिकित्सा।

15. तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियाँ एवं यौगिक चिकित्सा

- माइग्रेन, वर्टिगो, अनिद्रा, आत्मकेंद्रित, पक्षाधात, पार्किंसन्स, अल्जाइमर आदि में यौगिक चिकित्सा।

16. जीवन शैली संबंधी बीमारियाँ एवं यौगिक चिकित्सा

- तनाव (स्ट्रेस), मोटापा, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड संबंधी समस्या, नेत्र, त्वचा संबंधी विकार आदि में यौगिक चिकित्सा।

व्यावहारिक विषय-9: मानव शरीर पर यौगिक प्रभाव

- प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- 10 दिन की एक योग कार्यशाला का आयोजन
 - योग कार्यशाला में विभिन्न योग अभ्यासों (सूची संलग्न) के माध्यम से शरीर पर पड़ने वाले यौगिक प्रभाव का अनुभव कराया जाए तथा सैद्धान्तिक कक्षाएँ ली जाएँ –
 - षट्कर्म क्रियाओं (नेति, कुंजल, शंख प्रक्षालन, त्राटक, कपाल भाति आदि) का यौगिक प्रभाव
 - सूक्ष्म व्यायाम का यौगिक प्रभाव
 - सूर्यनमस्कार का यौगिक प्रभाव
 - योग आसनों का यौगिक प्रभाव
 - प्राणायामों का यौगिक प्रभाव

6. मुद्राओं का यौगिक प्रभाव
 7. बंधों का यौगिक प्रभाव
 8. ध्यान साधना का यौगिक प्रभाव
 9. योग निद्रा का यौगिक प्रभाव
 10. मंत्र उच्चारण का यौगिक प्रभाव
- प्रशिक्षार्थीयों से प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका तैयार कराई जाएं।

व्यावहारिक विषय-10: योग चिकित्सा

- प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- 10-10 दिन की दो योग कार्यशालाओं का आयोजन
 - एक योग कार्यशाला में विभिन्न योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संबन्धित केन्द्रों पर विभिन्न विकारों तथा रोगों (सूची संलग्न) की यौगिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाए-
 1. संधि संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 2. अस्थि संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 3. पेशीय संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 4. पाचन संबंधित विकारों (अपच, कब्ज व ऐसिडिटी आदि) के लिए यौगिक चिकित्सा
 5. श्वनसन संबंधित विकारों (अस्माकि एवं ब्रोकाइटिस आदि) में यौगिक चिकित्सा
 6. हृदय संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 7. अंतःस्नाकी (हॉर्मोनल) व चपापचय विकारों में यौगिक चिकित्सा
 8. तंत्रिका तंत्र संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 9. मूत्र-जननांग तंत्र संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 10. प्रजनन तंत्र के लिए यौगिक चिकित्सा
 11. जीवन शैली संबंधी बीमारियों में यौगिक चिकित्सा
 12. महिलाओं से संबंधित रोग के लिए यौगिक चिकित्सा
 13. चिंता एवं अवसाद की स्थिति में यौगिक चिकित्सा
 14. अवसाद की स्थिति में यौगिक चिकित्सा
 15. व्यसन मुक्ति के लिए यौगिक चिकित्सा

द्वितीय योग कार्यशाला में विभिन्न योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित केन्द्रों पर विभिन्न विकारों तथा रोगों की यौगिक चिकित्सा कराई जाए। प्रशिक्षणार्थी द्वारा इस इन्टर्नशिप का प्रमाणपत्र, संबंधित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से प्राप्त किया जाए।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा

निर्देश का माध्यम

पाठ्यसामग्री हिंदी में उपलब्ध है, जिसे शीघ्र ही अंग्रेजी में उलब्ध कराया जाएगा।

प्रवेश प्रक्रिया

- अध्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश के माध्यम से सीधे भी प्रवेश ले सकता है और मन पसंद प्रशिक्षण केंद्र का चयन कर सकता है।
- प्रवेश वर्ष भर खुला है परंतु प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून व 31 दिसम्बर निर्धारित है।

पाठ्यक्रम शुल्क

पाठ्यक्रम का शुल्क 15,000 रुपये है जिसमें प्रवेश, पाठ्यसामग्री, और प्रथम बार का परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है। विदेशी नागरिकों के लिए यह शुल्क 700 डॉलर है। जो अध्यर्थी पहले से एनआईओएस का योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (495-499) कर चुके हैं, वे शेष शुल्क 5000 रुपए मात्र जमा करेंगे।

व्यावसायिक अध्ययन केंद्र आवासीय व्यवस्था, भोजन और अन्य विविध सुविधाओं के लिए, यदि चाहे तो सीमित शुल्क, सुविधा अनुसार अलग से ले सकते हैं।

मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए योजना

- परीक्षा में बैठने के लिए, परीक्षार्थी परीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। पाठ्यक्रम के दोनों घटकों (सिद्धांत और व्यावहारिक) का मूल्यांकन किया जाएगा।
- उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को एनआईओएस द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

क्र. सं.	योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम के विषय/पेपर	कोड संख्या	अधिकतम अंक व समय		कुल अंक
			अधिकतम अंक	समय (घंटे में)	
प्रथम वर्ष (सैद्धांतिक)					
1.	योग दर्शनशास्त्र एवं क्रिया विज्ञान (Yoga Philosophy and Physiology)	823	50	3	50
2.	मानव शरीर रचना, शारीरिक शुद्धि और यौगिक आहार (Human Body, Cleansing and Yogic Diet)	824	50	3	50
3.	व्यावहारिक योग विज्ञान (Applied Yogic Science)	825	50	3	50

प्रथम वर्ष (प्रायोगिक)					
4.	प्रायोगिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण (Yogic practices)	826	200	3	200
5.	योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास (माइक्रो/मैक्रो-टीचिंग) (Yoga Teaching Skill Development)	827	150	3	150
कुल योग					500
द्वितीय वर्ष (सैद्धांतिक)					
1.	योग और जीवन (Yoga and life)	828	50	3	50
2.	व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग (Applied Psychology and Yoga)	829	50	3	50
3.	स्वास्थ्य प्रबंधन एवं योग चिकित्सा (Health Management and Yoga Therapy)	830	50	3	50
द्वितीय वर्ष (प्रायोगिक)					
4.	मानव शरीर पर यौगिक प्रभाव (Yogic Effect On Human Body)	831	150	3	150
5.	योग चिकित्सा (Yoga Therapy)	832	200	3	200
कुल योग					500

उत्तीर्णता मापदंड

- सिद्धान्त और व्यावहारिक दोनों ही घटकों में परीक्षार्थी को 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

विषय सूची

1.	कर्मयोग	1
2.	भक्ति योग	4
3.	यौगिक आहारः नीबू पानी के साथ उपवास	7
4.	यौगिक आहारः आहार सूची बनाना	10
5.	ऋतु अनुसार यौगिक आहार	15
6.	औषधीय आहार	19
7.	षट्कर्म का अभ्यास कुंजल क्रिया (वमन धौति)	22
8.	षट्कर्म अभ्यास लघु शंख प्रक्षालन	26
9.	षट्कर्म अभ्यास : जलनेति क्रिया	31
10.	षट्कर्म अभ्यास : नौली क्रिया	34
11.	षट्कर्म अभ्यास : कपालभाति	37
12.	षट्कर्म का अभ्यास : त्राटक क्रिया	40
13.	सूक्ष्म व्यायाम पैर के लिए संधि संचालन (जोड़ें) का अभ्यास	43
14.	सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए संधि संचालन का अभ्यास	52
15.	सूक्ष्म व्यायाम (पवनमुक्तासन-II) उदरसमूह के आसनों का अभ्यास	59
16.	सूक्ष्म व्यायाम (पवनमुक्तासन-II) शक्तिबंध समूह के आसनों का अभ्यास	66
17.	सूक्ष्म व्यायाम आंखों के लिए अभ्यास	71
18.	विश्रामात्मक आसन	75
19.	ध्यानात्मक आसन	79
20.	वज्रासन समूह के आसन	82

21.	गोमुखासन	88
22.	खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का समूह	91
23.	सूर्यनमस्कार	97
24.	पीछे की ओर झुकने वाले आसन	101
25.	आगे की ओर झुकने वाले आसन	106
26.	सिर के बल किए जाने वाले आसन	109
27.	मेरुदंड मोड़कर किए जाने वाले आसन	112
28.	संतुलन के आसन	116
29.	उच्च आसन समूह	119
30.	प्राणायाम के पूर्व किए जाने वाले अभ्यास	122
31.	नाड़ी-शोधन प्राणायाम	124
32.	शीतली प्राणायाम	127
33.	भ्रामरी प्राणायाम	130
34.	भस्त्रिका प्राणायाम	133
35.	मुद्रा (हस्तमुद्रा)	136
36.	मुद्रा : विपरीत करणी मुद्रा	140
37.	उड्डयन बंध	143
38.	मंत्रोच्चारण	146
39.	योगनिद्रा	149
40.	धारणा अभ्यास	153
41.	ध्यान साधना	156

1

टिप्पणियाँ



कर्मयोग

उद्देश्य

कर्म योग पर प्रयोग को करने के पश्चात आप कर्मयोग का भाव समझाने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

दरी, कॉपी, पेंसिल, पेन आदि।

प्रक्रिया

योग परिसर एवं कार्यस्थल पर कर्मयोग पर चर्चा करते हैं, जहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण हो।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।

कर्मयोग की विधि

- अपने साथियों के साथ दरी बिछाकर प्रसन्न भाव से बैठिए;
- कर्मयोग पर विचारविमर्श कीजिए;
- आपके क्या-क्या कर्तव्य हैं उनपर भी चर्चा कीजिए;
- आपके द्वारा किए जाने वाले प्रतिदिन के मुख्य कर्तव्यों जैसे- सुबह उठकर माता पिता सहित सभी बड़ों का चरण स्पर्श व सम्मान, अतिथि का सत्कार, साफ-सफाई



चित्र 1.1: स्वामी विवेकानन्द

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

व स्वच्छता रखना, दूसरों के उपकार में तत्पर रहना, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए।

ध्यान रखने योग्य बातें

- आपस में कार्य की तुलना न हो।
- फल के विषय में ना सोचें, निष्काम भाव से करें।
- क्षमता के अनुसार करें।
- कार्य की गुणवत्ता और उत्पादकता को न मापें।

लाभ

- मानसिक और भावनात्मक शुद्धि।
- सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास।
- दल भावना का विकास।
- अहम का संतुलन।

अवलोकन

- इस क्रिया को तीन दिन कीजिए और उनके प्रभावों का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	दिन 1	दिन 2	दिन 3
मन पर प्रभाव			
आंतरिक सजगता			
भावनाओं में संतुलन			

परिणाम



टिप्पणी

टिप्पणी

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

2

भक्तियोग

उद्देश्य

भक्ति योग के अभ्यास को करने के पश्चात् आप, भक्ति के विभिन्न स्वरूपों को पहचानने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

विभिन्न संगीत उपकरण, दरी, पेन, पेंसिल, कॉपी आदि।

प्रक्रिया

भक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं जैसे— मन, वचन एवं कर्म। आइये, भजन, कीर्तन, कथा तथा प्रसंगों के माध्यम से भक्ति के स्वरूप को पहचानते हैं।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- मन एवं चित को शान्त, प्रसन्न, व्याधि रहित रखिए।



भक्ति योग की विधि

- भजन, कीर्तन, कथा प्रसंगों में भाग लीजिए।
- शृद्धा के साथ बैठिए और ध्यान से सुनिए।
- संगीत यंत्रों को बजाने व गाने का प्रयास कीजिए।

चित्र 2.1: मीराबाई



टिप्पणियाँ

ध्यान रखने योग्य बातें

- भजन कीर्तन के दौरान शार्तिपूर्वक बैठें तथा अपने मोबाइल बंद कर लें।
- भजन की क्रिया में पूर्ण रूप से सम्मिलित हों।
- मानसिक रूप से उपस्थित रहें।

लाभ

- मानसिक और भावनात्मक शुद्धि।
- सर्वांगीण व्यक्तितत्व का विकास।
- दल भावना का विकास।
- अहम का संतुलन।
- मनोवैज्ञानिक गांठों का खुलना।
- आनन्द का अनुभव।

अवलोकन

- इस क्रिया को तीन सप्ताह कीजिए और उनके प्रभावों का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह	सप्ताह 2	सप्ताह 3
मन पर प्रभाव			
आंतरिक सजगता			
भावनाओं में संतुलन			

परिणाम

.....

.....

.....

.....

.....

.....

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणीयाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

टिप्पणी

.....

.....

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)



यौगिक आहारः नीबू पानी के साथ उपवास

उद्देश्य

नीबू पानी के साथ उपवास पर प्रयोग को करने के पश्चात आप, उपवास करने तथा प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

गिलास, ताजा नीबू, चम्मच, शुद्ध शहद, स्वच्छ पीने का पानी, चाकू, रूमाल, टिशु पेपर आदि।

प्रक्रिया

उपवास खाली पेट, शौचादि से निवृत होकर आरंभ किया जाता है।

अभ्यासियों की तैयारी

- उपवास के एक दिन पहले हल्का खाना खायें।
- विशेष रूप से रात्रि का भोजन गरिष्ठ, तला व मसाले वाला नहीं होना चाहिए।
- रात में खिचड़ी, दलिया या फलाहार का सेवन उत्तम है।

उपवास की विधि

- प्रातः: कालीन जल्दी उठकर शौचादि से निवृत हो जाएं।
- पहले सादा जल पीएं।
- एक ग्लास पानी में आधा नीबू और एक चम्मच शहद डाल कर मिला लें।
- फिर हर दो घंटे के अंतराल में नीबू एवं शहद पानी का सेवन करते रहें।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

सावधानियाँ

- उपवास खाली पेट शौचादि से निवृत होकर प्रारम्भ करना चाहिए।
- उपवास वाले दिन ज्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए।
- यदि किसी रोग से ग्रस्त हैं (जैसे उच्च/निम्न रक्तचाप, हृदय रोग आदि) तो विशेष ध्यान रखें।
- अधिक दुर्बल व्यक्ति विशेष ध्यान रखें। यदि क्षमता हो तभी उपवास करें।

लाभ

- पाचन तंत्र को आराम मिल जाता है।
- शारीरिक शुद्धि हो जाती है।
- पेट के विकार दूर होते हैं।
- मल निष्कासन आसान हो जाता है।

अवलोकन

- सप्ताह में एक दिन नीबू पानी उपवास के पश्चात अपने शरीर पर उसके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभाव के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	दिन 1
पाचन क्रिया पर प्रभाव भावनाओं में संतुलन ऊर्जा स्तर पर प्रभाव	

परिणाम



टिप्पणी

टिप्पणी

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

4

यौगिक आहारः आहार सूची बनाना

उद्देश्य

आहार सूची बनाने के अभ्यास को करने के पश्चात आप, सात्विक, राजसिक, तामसिक और मिताहार (अमृताहार) पर आहार सूची बनाने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

सात्विक, राजसिक, तामसिक खाद्य पदार्थों पर आधारित चित्र/चार्ट, कॉपी, पेन/पेन्सिल आदि।

प्रक्रिया/सिद्धांत

- सात्विक आहार को उत्तम कोटि का आहार माना जाता है। सात्विक भोजन सदैव ताजा रसीला, शीघ्र पचने वाला एवं स्वादिष्ट होता है।
- राजसिक आहार ताजा परन्तु भारी होता है। यह भोजन इंद्रियों में उत्तेजना प्रदान करता है। यह अधिक कटु, अम्लीय, ऊष्ण, तीक्ष्ण और उग्र होता है। ऐसा आहार सैनिक, खिलाड़ी, व्यापारी, राजनेता आदि लोगों के लिए लाभदायक होता है।
- तामसिक आहार बासी, रसहीन, दुर्गन्धयुक्त, झूठा और अपवित्र आहार होता है।
- यौगिक आहार के अनुसार एक मुख्य भोजन और एक या दो छोटे भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त होते हैं। मिताहार के अनुसार 50 प्रतिशत भोजन, 25 प्रतिशत पानी और 25 प्रतिशत खाली यानि आकाश तत्व के रूप में होना चाहिए।

अभ्यासियों की तैयारी

- उचित स्थान पर बैठें।

प्रायोगिक पुस्तिका

- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल कॉपी आदि सामान निकालकर रख दीजिए।
- आपस में बातचीत न करें।
- शांति एवं अनुशासन बनाए रखें।

विधि

- अपने साथियों के लिए आप आहार सूची डाइट चार्ट बनाइए।
- पहले साथी के लिए सात्विक आहार का चार्ट बनाइए और उसे उस डाइट चार्ट के आधार पर भोजन लेने की सलाह दीजिए।

1. सात्विक आहार सूची (डाइट चार्ट)

सुबह उठने पर (5-6 बजे) : ताँबे के बर्तन में रातभर रखा पानी (1-2 ग्लास या आवश्यकता अनुसार)

नाश्ता (7-8 बजे) : अंकुरित आहार - (मँग, मोठ, चना, मैथी, अल्फा-अल्फा), भीगे बादाम, किशमिश, खजूर, ऋतु अनुसार ताजे फल।

11-12 बजे : ताजा फल - (तरबूज, अन्नास, सेब, अनार आदि), सब्जियों का जूस (खीरा, सफेद पेठा, लौकी आदि)

दोपहर का खाना : ताजा सलाद (खीरा, गाजर, चुकन्दर, पत्तागोभी, सलाद पत्ता) चोकर समेत रोटी, हरी सब्जी, साग, चटनी ताजा दही, मट्ठा (छांछ)।

शाम को : ताजा नींबू पानी/नारियल पानी

रात का भोजन (साँय 7-8 बजे तक) : सब्जी वाला दलिया।

अब दूसरे साथी के लिए राजसिक आहार की सूची बनाइए और उसे उस डाइट चार्ट का अनुसरण करने की सलाह दीजिए।

2. राजसिक आहार

आहार सूची

सुबह उठने पर (प्रातः कालीन) : गरम पानी, नींबू + शहद पानी (गुनगुना)

नाश्ता : चाय/कॉफी/गरम दूध, पराठा/पूरी, सब्जी, अचार।

दोपहर का खाना : तेज मसालेदार सब्जी, अचार, पापड़, पूरी/पराठा/घी वाली रोटी, दाल (लहसुन का तड़का लगाकर) कच्ची प्याज, चावल/पुलाव।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

शाम को : चाय, समोसा/पकौड़ा।

रात का खाना : पुलाव/बिरयानी, रोटी/पराठा, मसालेदार सब्जी।

3. तामसिक आहार

अब आप अपने किसी साथी, जो तामसी भोजन में रुचि रखता हो, के लिए तामसिक भोजन के आधार पर डाइट चार्ट बनाइए।

आहार सूची

सुबह (प्रातः कालीन) : चाय, कॉफी, बिस्कुट

नाश्ता : ब्रैड, नूडल्स, बर्गर, पैटीज, बासी खाना, पैकट वाले नमकीन, चिप्स, पेस्ट्री, केक, डब्बा बंद ठंडे पेय पदार्थ (कोल्डड्रिंक्स)।

दोपहर का खाना : तेज मसालेदार सब्जी, माँस, बिरयानी/पुलाव, रोटी/पराठा, अचार

शाम को : चॉकलेट, शीतल पेय, समोसा, पकौड़े, गोल गप्पे, चाय, कॉफी, मदिरा।

रात का खाना : माँस, तीखी मसालेदार सब्जी, पूरी-पराठे, पुलाव, बिरयानी, मिठाई।

4. मिताहार

यौगिक आहार के अनुसार एक मुख्यभोजन और एक या दो छोटे भोजन अच्छे स्वास्थ के लिए पर्याप्त होते हैं। मितके अनुसार 50: भोजन, 25: पानी और 25: खाली अर्थात् आकाश तत्व के रूप में होना चाहिए।

आहार सूची

प्रातः कालीन : शुद्ध जल (1-2 ग्लास आवश्यकतानुसार)

कुछ समय पश्चात् (8-9 बजे) : शहद + नींबू पानी, ऋतु अनुसार ताजे फल

दोपहर : ताजा सलाद, मट्ठा/छांछ

शाम (7 बजे) : कोई एक फल तथा सब्जी का सूप।

रात्री : सोने से पहले : दूध

अवलोकन

- सात्विक, राजसिक, तामसिक एवं मिताहार के प्रभाव का अवलोकन कीजिए-

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

सात्विक आहार	दिन 1	दिन 2	दिन 3
प्रभाव			
पाचन क्रिया पर प्रभाव			
मन पर प्रभाव			
ऊर्जा स्तर पर प्रभाव			

राजसिक आहार	दिन 1	दिन 2	दिन 3
प्रभाव			
पाचन क्रिया पर प्रभाव			
मन पर प्रभाव			
ऊर्जा स्तर पर प्रभाव			

तामसिक आहार	दिन 1	दिन 2	दिन 3
प्रभाव			
पाचन क्रिया पर प्रभाव			
मन पर प्रभाव			
ऊर्जा स्तर पर प्रभाव			

मिताहार	दिन 1	दिन 2	दिन 3
प्रभाव			
पाचन क्रिया पर प्रभाव			
मन पर प्रभाव			
ऊर्जा स्तर पर प्रभाव			

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

परिणाम

.....

.....

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)



टिप्पणियाँ

ऋतु अनुसार यौगिक आहार

उद्देश्य

ऋतु अनुसार आहार पर प्रयोग करने के पश्चात् आप ऋतु के अनुसार आहार सूची बनाने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

कॉपी, पेन, पेंसिल आदि।

अभ्यासियों की तैयारी

- उचित स्थान पर बैठें।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल कॉपी आदि सामान निकालकर रख दीजिए।
- आपस में बातचीत न करें।
- शांति एवं अनुशासन बनाए रखें।

विधि

- अपने साथियों के लिए ऋतु के अनुसार डाइट चार्ट बनाइए।
- पहले साथी के लिए ग्रीष्म ऋतु पर आधारित चार्ट बनाइए।

1. आहार सूची (ग्रीष्म ऋतु)

प्रातःकालीन: शुद्ध जल

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

नाश्ता : ताजे फल (खरबूजा, तरबूज, केला), अंकुरित आहार (मूँग, मोठ, चना, अल्फा-अल्फा) दलिया, भींगे बादाम, किशमिश।

11-12 बजे : ताजे फलों/सब्जियों का जूस, बेल का शरबत/जौ का सत्तू नारियल पानी।

दोपहर का खाना : सलाद-खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, चोकर वाली रोटी, सब्जी (लौकी, टिण्डा, परवल, तोरी, कद्दू, घिंडी आदि) ताजा दही, हरी चटनी (धनिया, पोदीना, हरी मिर्च, कच्चा आम) ताजा मट्ठा (छांछ)।

शाम को : ताजा नींबू पानी/नारियल पानी।

रात का खाना : सब्जी वाला दलिया, अथवा रोटी, सब्जी, सलाद।

नोट : निषेध

- ग्रीष्म ऋतु में तेज गरम उत्तेजक खाद्य पदार्थों जैसे चाय, कॉफी, मसालेदार तीखे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।

2. आहार सूची (शीत ऋतु)

प्रातःकालीन : गुनगुना पानी।

नाश्ता : हर्बल चाय, दलिया।

दोपहर का खाना : सलाद, गाजर, चुकन्दर, पत्तागोभी, चोकर वाली रोटी, सब्जी (गोभी, गांजर, चुकन्दर, शलगम, साग (सरसों, बथुआ, मेथी))

शाम को : ड्राई-पूट्स (सूखे मेवे) भुना चना, भुनी मूँगफली, गुड़, हर्बल चाय अथवा सब्जियों या टमाटर का सूप।

रात का खाना : रोटी + सब्जी या सब्जी वाला दलिया।

रात को साते समय : गरम दूध।

नोट: शीत ऋतु में ठंडे खाद्य पदार्थों जैसे कोलिंड्रंक्स, आइसक्रीम, ठंडे पेय पदार्थ, तरबूज, खरबूजा, चावल आदि का सेवन न करें।

3. आहार सूची (वर्षा ऋतु)

प्रातःकालीन : ताँबे के बर्तन का पानी (रात भर रखा हुआ) लें।

कुछ समय पश्चात् : नींबू (1/2 नींबू) + शहद पानी (1 चम्मच) गुनगुना।

प्रायोगिक पुस्तिका

नाश्ता 8 बजे तक: अंकुरित आहार (मूँग, मोठ, चना, भीगा बादाम, किशमिश, नारियल, खजूर दलिया, पोहा, उपमा)।

11 बजे : ताजे फल (जामुन, अमरुद, पपीता, अनानाश)

दोपहर का खाना : सलाद-खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज।

1-2 बजे : चोकर समेत रोटी, सब्जी (तोरी, परवल, लौकी, कद्दू, शिमलामिर्च आदि)।

शाम को (4-5 बजे): हर्बल चाय / नारियल पानी।

खाने से पहले : सब्जियों/टमाटर का सूप (सहजन की फली, कमलककड़ी आदि)

रात का खाना (7-8 बजे): सब्जी वाला दलिया अथवा रोटी और सब्जी।

नोट: वर्षा ऋतु में दही तथा अन्य वायु जनक खाद्यों का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे मटर, आलू, मिंडी, गोभी, अरबी, उड़द दाल आदि।

अवलोकन

- ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा ऋतु में खाए जाने वाले आहार के प्रभाव का अवलोकन कीजिए साथ ही जिस ऋतु में जिन खाद्य पदार्थों का सेवन निषेध है उसका भी ध्यान रखें।

ग्रीष्म ऋतु के आहार	दिन 1	दिन 2	दिन 3
प्रभाव			
पाचन क्रिया पर प्रभाव			
मन पर प्रभाव			
ऊर्जा स्तर पर प्रभाव			

शीत ऋतु के आहार	दिन 1	दिन 2	दिन 3
प्रभाव			
पाचन क्रिया पर प्रभाव			
मन पर प्रभाव			
ऊर्जा स्तर पर प्रभाव			

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

वर्षा ऋतु के आहार	दिन 1	दिन 2	दिन 3
प्रभाव			
पाचन क्रिया पर प्रभाव			
मन पर प्रभाव			
ऊर्जा स्तर पर प्रभाव			

परिणाम

.....

.....

.....

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

6

टिप्पणियाँ



औषधीय आहार

उद्देश्य

आहार ही औषधि है – इसके आधार पर आहार सूची बनाने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

विभिन्न आहार तत्वों के चित्र अथवा चार्ट, कॉपी, पेन, पेंसिल आदि।

अभ्यासियों की तैयारी

- उचित स्थान पर बैठें।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल कॉपी आदि सामान निकालकर रख दीजिए।
- आपस में बातचीत न करें।
- शांति एवं अनुशासन बनाए रखें।

विधि

- अपने किसी साथी के लिए औषधीय आहार पर आधारित चार्ट बनाते हैं-

आहार सूची

प्रातःकालीन (5-6 बजे): तांबे के बर्तन का पानी (रात भर रखा हुआ) एक कली लहसुन।

कुछ समय पश्चात् : आँवला पानी (तीन-चार सूखे आँवले के छोटे टुकड़े रात को काँच के गिलास में लगभग 100 एम.एल. पानी में भिगो दें)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

15 मिनट बाद (6.30 बजे) : किशमिश पानी, मैथी पानी (एक चम्पच मैथी रात को आधा कप पानी में भिगो कर रखें)।

नाश्ता (7-8 बजे) : अंकुरित आहार (मूँग, मोठ, चना, मेथी, तिल, अल्फा-अल्फा) भीगा हुआ बादाम, किशमिश, अंजीर, खजूर, नारियल, दलिया (गेहूँ अथवा जई या पोहा, उपमा, इडली आदि)

11 बजे : मौसम के अनुसार ताजे फल अथवा ताजे फलों/सब्जियों का जूस।

दोपहर का खाना (1-2 बजे) : सलाद, खीरा, ककडी, गाजर, टमाटर, प्याज, चोकर समेत मोटे आटे की रोटी (गेहूँ, चना, सोयाबीन) मौसम के अनुसार हरी सब्जियाँ, साग, दाल, पनीर, ताजादही, हरी चटनी, धनिया, पोदीना, हरी मिर्च, आंवला, कच्ची हल्दी, लहसुन, करी पत्ता।

भोजन के बाद : ताजा मट्ठा।

शाम को : हर्बल चाय/ताजा नींबू पानी, ड्राईफूट्स या भुना चना, मूँगफली।

खाने से पहले : सब्जियों/टमाटर का सूप।

रात का खाना : केवल रोटी और सब्जी (दाल और चावल का सेवन रात में न करें) अथवा सब्जी वाला दलिया।

अवलोकन

- आहार का अवलोकन औषधि के रूप में करते हैं।

क्र.सं.	खाद्य पदार्थ	औषधिय गुण	स्वास्थ्य के लिए उपयोगता	प्रभाव		
				(समय : एक सप्ताह)		
				शरीर पर	मन पर	ऊजा स्तर पर

परिणाम

टिप्पणी

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

7

षट्कर्म का अभ्यास कुंजल क्रिया (वमन धौति)

उद्देश्य

कुंजल क्रिया अभ्यास को करने के पश्चात आप इसका अभ्यास करने और उसे प्रदर्शित करने की निरूपणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

गुनगुना पानी (2 से 3 लीटर), 2 छोटे चम्मच नमक, जग, ग्लास, तौलिया, टिशु पेपर, आदि।

सिद्धांत

कुंजल क्रिया मुङ्ह, अन्न नली एवं अमाशय तक की सफाई करती है। इसका अभ्यास खाली पेट किया जाता है। इस क्रिया के अभ्यास का सही समय प्रातःकाल है। इसमें नमकीन गुनगुना पानी पेटभरकर पीने के तुरंत बाद वमन कर दिया जाता है।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख लीजिए।
- नाखून कटे व साफ होने चाहिए।

कुंजल क्रिया करने की विधि

पूर्व तैयारी एवं अनुशासन

- हाथ स्वच्छ हों, कुंजल से पूर्व हाथों की अच्छी तरह सफाई कर लें। नाखून कटें हों।

प्रायोगिक पुस्तिका

- जग एवं गिलास अपने पास रखें।
- गुनगुने पानी में नमक मिलाकर रखें।
- कुंजल क्रिया खाली पेट आरम्भ की जाती है।
- इस क्रिया को प्रातःकाल शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर करना चाहिए।
- कुंजल करने के बाद घृत युक्त खिचड़ी सेवन करने का विधान है।
- कुंजल क्रिया सम्पन्न करने के दिन किसी प्रकार का मिर्च-मसालों का सेवन नहीं करना है।

विधि

उकड़ू बैठकर शीघ्रता के साथ एक-एक गिलास करके पानी पीते जाएं। इतना पानी पी लें कि पूरा पेट पानी से भर जाए। पेट भरने के पश्चात् वमन का मन होने लगता है। खड़े होकर कमर से आगे की ओर झुकें। फिर मुंह खोलकर सीधे हाथ की तीन अंगुलियों से जीभ के मूल में घर्षण करने से पानी मुंह से बाहर निकलने लगता है। शुरुआत में पानी कम-कम मात्रा में निकलता है, अतः बार-बार जिह्वामूल से अंगुलियों के स्पर्श अथवा घर्षण से वमन होने लगता है। अभ्यास होने पर जिह्वामूल में अंगुलियों को लगाए बिना वमन होने लगता है।



चित्र 7.1: कुन्जल क्रिया (वमन धौति)

सावधानियाँ

- उपर्युक्त क्रिया को खाली पेट कीजिए।
- अल्सर, हाइपर ऐसिडिटी, उच्च रक्तचाप, आंखों की कमज़ोर नसों की समस्या वाले लोग इस क्रिया का प्रयोग न करें।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- इस क्रिया को विशेषज्ञ के निर्देशानुसार ही करें या पूर्ण रूप से इस क्रिया में निपुण होने पर ही इसे स्वयं करें।
- पानी को बिना रुके एक श्वास में पिएं।
- कम से कम एक दिन भोजन में सावधानी बरतें और अभ्यास के तुरंत पश्चात चाय या कॉफी या अम्लीय भोजन व मसालेदार भोजन न लें।

लाभ

- हमारे श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है और साइंस व अस्थमा रोग में अत्यंत प्रभावपूर्ण है।
- अम्लता (Acidity) में बहुत लाभकारी है।
- तनाव व डिप्रेशन को दूर करता है।
- हमारे चेहरे पर ताजगी लाता है।

अवलोकन

कुंजल क्रिया के प्रभाव का अवलोकन

- इस क्रिया को 2 से 3 दिन कीजिए और उसके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	दिन 1	दिन 2	दिन 3
श्वसन क्रिया पर प्रभाव			
मन पर प्रभाव			
भावनाओं में संतुलन			
ऊर्जा स्तर में वृद्धि			

परिणाम



टिप्पणी

टिप्पणी

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

8

षट्कर्म अभ्यास लघु शंख प्रक्षालन

उद्देश्य

इस क्रिया को करने के पश्चात आप लघु शंखप्रक्षालन क्रिया का अभ्यास करने और उसे प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

आवश्यक उपकरण/सामग्री

योग मैट, गुनगुना पानी (2 से 3 लीटर), 2 छोटे चम्मच नमक, जग, गिलास, तौलिया, टिशु पेपर, मूँग दाल की खिचड़ी, शुद्ध घी आदि।

प्रक्रिया व सिद्धांत

लघु शंखप्रक्षालन के लिए योग कक्षा और शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था करते हैं।

शंख की आकृति हमारे पेट की आंतरिक बनावट की तरह होती है और प्रक्षालन का अर्थ है साफ करना, इसलिए पेट की सफाई की क्रिया को शंख प्रक्षालन कहा जाता है। हमारी आंत की बनावट, शंखाकार होती है, उस शंखाकार आन्त का प्रक्षालन होना (शुद्ध होना) ही शंखप्रक्षालन या वारिसार क्रिया कहलाता है। आंत की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। आंत की सतह पर मल जमने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। मल की परत बनने के कारण निष्कासन की क्रिया सही नहीं होती है। जिससे रोग को बढ़ावा मिलता है। मल सड़ने के बाद पेट में दुर्गन्ध पैदा होती है जिसके परिणामस्वरूप अपच एवं खट्टी डकारें आती हैं। यह वायु विकारों को भी बढ़ावा देता है। शंख प्रक्षालन से पाचन संबंधित रोगों में लाभ मिलता है जैसे -सभी उदर रोग, मोटापा, बवासीर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा, पाचन संबंधित आदि।

अभ्यासियों की तैयारी

- इस क्रिया को खाली पेट कीजिए।

प्रायोगिक पुस्तिका

- क्रिया करने से एक दिन पूर्व, रात्रि के समय हल्का भोजन कीजिए।
- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

अनुशासन

- शंख प्रक्षालन क्रिया करने से पांच-सात दिन पहले इसके आसनों का अभ्यास शुरू कर दें।
- शंख प्रक्षालन जिस दिन करना हो उसके पूर्व शाम को सुपाच्य एवं हल्का भोजन लें।
- शंख प्रक्षालन की क्रिया के बाद खिचड़ी एवं धी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए।
- शंख प्रक्षालन की क्रिया प्रातःकाल शौच इत्यादि क्रियाओं से निवृत होने के बाद करें, यदि शौच नहीं हो तो कोई बात नहीं।
- शंख प्रक्षालन करते समय कपड़े ढीले-ढाले होने चाहिए।
- गुनगुने पानी की समुचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए जिसे सरलता से पिया जा सके। उसमें आवश्यकतानुसार नमक मिला लें। पानी ज्यादा गर्म हो तो उसमें ठंडा पानी मिला लें।
- उच्च रक्तचाप एवं चर्म रोगियों को गर्म पानी में नमक के स्थान पर नींबू का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए।

विधि

तैयार किया हुआ पानी दो या इससे अधिक गिलास उकड़ू बैठकर पी जाएं। फिर शंख प्रक्षालन के निर्धारित पांच आसन क्रम से करें। आसन का क्रम समाप्त हो जाने पर पुनः दो ग्लास पानी पीएं और फिर पांच आसनों का क्रम शुरू कर दें। इन पांच आसनों का क्रम इस प्रकार है –

- ताड़ासन
- तिर्यक ताड़ासन
- कटि चक्रासन
- तिर्यक भुजंगासन
- उदराकर्षण आसन

निर्धारित पांच आसनों को दो या तीन बार पूरा करने के बाद प्रायः शौच आना शुरू हो जाता है। पांच आसन का क्रम समाप्त होने पर फिर दो या तीन गिलास पानी पी कर आसन का क्रम शुरू

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

करें। आसन के क्रम में विश्राम नहीं करें। शौचालय में ज्यादा देर तक न बैठें और न शौच के लिए दबाव डालें। यदि आरंभ में शौच नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। पानी पी-पीकर निरंतर आसनों का अभ्यास करते रहें। यदि आसन करते-करते शौच की आवश्यकता महसूस हो तो शौच जाएं। पुनः पानी पीकर आसनों का क्रम फिर एक से शुरू कर दें, न कि जिस आसन को छोड़कर गए थे वहां से शुरू करें।

इस तरह लगभग 15–20 गिलास पानी पीकर आसन करने के बाद पांच-छह बार शौचालय जाएं। शुरू में शौच के साथ मल निकलेगा उसके बाद जल मिश्रित मल निकलेगा। फिर शौच में पानी निकलेगा। जब शौच में साफ पानी निकलने लगे तो अभ्यास छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कुंजल की क्रिया करें। इस अभ्यास के बाद शवासन में जाकर पूर्ण विश्राम करें। लगभग 30 से 45 मिनट तक विश्राम करें। इस अवस्था में पूर्ण मौन का पालन करें तो अच्छी बात होगी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शवासन में विश्राम करने के बाद घी के साथ खिचड़ी भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। खिचड़ी में मूँग की दाल ही डाले एवं किसी प्रकार के मसाले का प्रयोग न करें, हल्दी का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए।



ताडासन



तिर्यक ताडासन



कटि चक्रासन



तिर्यक भुजंगासन



टिप्पणियाँ



उदराकर्षण आसन

चित्र 6.2: शंख प्रक्षालन की क्रियाएँ

सावधानियाँ

- उपर्युक्त क्रिया को खाली पेट कीजिए।
- अल्सर, हाईपर ऐसिडिटी, उच्च रक्तचाप, हर्निया की समस्या वाले लोग इस क्रिया का न करें या इस क्रिया को विशेषज्ञ की सलाह से करें।
- इस क्रिया को विशेषज्ञ के साथ ही करें या पूर्ण रूप से इस क्रिया में निपुण होने पर ही इसे स्वयं करें।
- पानी को बिना रूके एक श्वास में पिएं।
- इस क्रिया के पश्चात शरीर को 5 से 6 घंटे का विश्राम प्रदान करें।
- कम से कम एक दिन भोजन में सावधानी बरतें। अभ्यास के तुरंत पश्चात चाय या कॉफी या अम्लीय भोजन व मसालेदार भोजन न लें।

लाभ

- हमारे पाचन तंत्र व आंतरिक अंगों की क्रिया को नियंत्रित करता है और साइनस व अस्थमा रोग में अत्यंत प्रभावपूर्ण है।
- कब्ज, बवासीर, किसी भी प्रकार की पेट की समस्यां के लिए लाभकारी है।
- तनाव व डिप्रेशन को दूर करता है।
- हमारे शरीर में ताजगी लाता है व शरीर के दर्द को दूर करता है।
- हमारे शरीर के विषाक्त तत्वों को दूर करता है।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

अवलोकन

लघु शंखप्रक्षालन के प्रभाव का अवलोकन :

- इस क्रिया को 2 से 3 दिन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	दिन 1	दिन 2	दिन 3
पाचन क्रिया पर प्रभाव			
प्राण का संचार पर प्रभाव			
भावनाओं में संतुलन पर अनुभव			
ऊर्जा के स्तर पर प्रभाव			

परिणाम

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)



षट्कर्म अभ्यास : जलनेति क्रिया

उद्देश्य

जल नेति को करने के पश्चात आप जलनेति का अभ्यास करने और उसे प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट, नेति लोटा, गुनगुना पानी (1 से 2 लीटर), 2 छोटे चम्मच नमक, तौलिया, टिशु पेपर, आदि।

प्रक्रिया एवं सिद्धांत

नेति क्रिया के लिए उपयुक्त स्थान तथा वॉश रूम (हौड़ी, सिंक) होनी चाहिए।

नेति का अर्थ नाक और उसके आस-पास के क्षेत्र की सफाई और उपचार है। नेति से कपाल-शुद्धि, दृष्टि-शुद्धि और कंधों से ऊपर के हिस्सों का उपचार किया जाता है।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख लीजिए।

नेति क्रिया करने की विधि

जल नेति के लोटे में हल्का गरम पानी लेकर उसमें आवश्यकतानुसार नमक मिला लें। लोटे की नली को बायीं नासिका छिद्र में लगाकर दायीं नासिका को थोड़ा नीचे रखें। मुख को खोलकर

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

रखें और श्वास लेने व छोड़ने की क्रिया मुख से ही करते रहें। दायीं नासिका से जल अपने आप बाहर निकलने लगता है और साथ ही कफ विकार भी नासिका से जल धारा के साथ बाहर निकलता जाता है। इसी प्रकार दूसरे नासिका से भी करते हैं। जल नेति करने का समय प्रातःकाल ही है। नेति क्रिया से सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। जल नेति करने के तत्काल बाद कपाल भाति क्रिया करनी चाहिए ताकि नासिका के अंदर रुका हुआ जल भी बाहर निकल जाये और नासिका पूरी तरह खुल जाये। इसके बाद थोड़ी देर शाशांकासन में आराम करना चाहिए।



चित्र 9.1: जल नेति

सावधानियाँ

- कान व गले के इंफैक्शन की स्थिति में इस क्रिया का न करें।
- इस क्रिया को विशेषज्ञ के साथ ही करें या पूर्ण रूप से इस क्रिया में निपुण होने पर ही इसे स्वयं करें।
- नासिका को सुखाना अति आवश्यक है। अगर पानी की कुछ बूंदें रह जाती हैं तो उन्हें विभिन्न विधियों द्वारा सुखाया जाए।

लाभ

- हमारे श्वसन तंत्र को नियंत्रित करती है और साइनस व अस्थमा रोग में अत्यन्त प्रभावपूर्ण है।
- तनाव व डिप्रेशन को दूर करती है।
- सिर दर्द को कम करती है और चेहरे में ताजगी लाती है।



टिप्पणियाँ

अवलोकन

नेति क्रिया के प्रभाव का अवलोकन

- इस क्रिया को 2 से 3 दिन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	दिन 1	दिन 2	दिन 3
श्वसन क्रिया पर प्रभाव			
मानस पठल पर प्रभाव			
भावनाओं में संतुलन			
सिर दर्द में प्रभाव			

परिणाम

.....

.....

.....

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

10

षट्कर्म अभ्यास : नौली क्रिया

उद्देश्य

नौली क्रिया को करने के पश्चात आप नौली क्रिया का अभ्यास करने व कराने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट आदि सामान निकालकर रख दीजिए।
- इस क्रिया को खाली पेट कीजिए।

नौली क्रिया करने की विधि

दोनों पैरों को दो फुट के फासले पर रखकर खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को दोनों जांघों पर रखकर थोड़ा-सा आगे झुक जाइए। अपनी दृष्टि पेट पर रखिए। (उड़ियान बंध) श्वास बाहर निकालकर पेट को अंदर की ओर खींचकर पेट के बीचों-बीच एक ‘नाल’ (तना) जैसा आकार दीजिए। पेट के मध्य में मांसपेशियों की एक मोटी नली निकल आएगी। इस मोटी नली को बायीं ओर ले जाइए। फिर दाहिनी ओर लाइए। इस तरह जल्दी-जल्दी बायीं ओर दाहिनी ओर घूमाइये। जब नाल बायीं ओर रहती है ‘बाम-नौलि’ कहते हैं। दाहिनी ओर रहने पर ‘दक्षिण नौलि’ तथा बीच में रहने पर मध्य नौलि कहते हैं।

प्रायोगिक पुस्तिका

यह क्रिया सभी योगाभ्यासियों को सीखनी चाहिए। अभ्यास का समय प्रातःकाल और भोजन से पूर्व, खाली पेट है।

सावधानियाँ

- उपर्युक्त क्रिया को खाली पेट कीजिए।
- चूंकि यह क्रिया अत्यंत कठिन है अतः इसे कुशल मार्गदर्शन में कीजिए।
- अभ्यास के दौरान यदि उदर पीड़ा हो तो इस क्रिया को तुरन्त बंद कर दें।
- हृदय रोग, उच्च रक्त चाप, हर्निया, पथरी, अल्सर, कमर दर्द से पीड़ित लोग इस क्रिया को न करें।

लाभ

- यह हमारे पेट के आंतरिक अंगों की मालिश और पोषण करती है।
- यह क्रिया कब्ज, अपच, अम्लता, उदर वायु, अवसाद, मधुमेय, शक्तिहीनता एवं भावात्मक असंतुलन को दूर करती है।
- शरीर में ऊर्जा प्रवाह में वृद्धि करती है।

अवलोकन

नौली क्रिया के प्रभाव का अवलोकन :

- इस क्रिया को निरंतर एक सप्ताह तक कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	दिन 1	दिन 2	दिन 3	दिन 4	दिन 5	दिन 6	दिन 7
श्वसन क्रिया पर प्रभाव							
पाचन तंत्र पर प्रभाव							
मानस पटल पर प्रभाव							
भावनाओं में संतुलन पर प्रभाव							
ऊर्जा के स्तर पर अनुभव							

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

परिणाम

.....

.....

.....

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

11



टिप्पणियाँ

षट्कर्म अभ्यास : कपालभाति

उद्देश्य

कपालभाति क्रिया को करने के पश्चात आप इस क्रिया का अभ्यास करने और उसे प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट।

प्रक्रिया व सिद्धांत

कपालभाति क्रिया के लिए साफ व हवादार योग कक्ष की व्यावस्था करते हैं।

कपाल का अर्थ है- मस्तिष्क और भाति का अर्थ है चमकाना, अर्थात् मस्तिष्क को शुद्ध करने वाली क्रिया को कपाल भाति कहते हैं।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

कपालभाति क्रिया करने की विधि

पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। श्वास अंदर भरिये फिर श्वास को झटके के साथ बाहर निकालिए। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में, झटके के साथ, श्वास को लगातार

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

बाहर निकालते जाना कपाल भाति कहलाता है। बीस-पच्चीस बार थोड़ी-थोड़ी वायु बाहर निकालने के बाद अंतिम श्वास जोर से फेफड़ों के बाहर पूरी तरह निकाल दीजिए और बाह्य कुम्भक लगाइए। जितनी देर आराम से श्वास रोक सकें, शरीर के बाहर ही रोके रखें। फिर धीरे-धीरे स्वाभाविक श्वास में आ जाएँ। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराइए।



चित्र 11.1: कपाल भाति

सावधानियाँ

- इस क्रिया को खाली पेट कीजिए।
- अल्सर, हाइपर ऐसिडिटी, उच्च रक्तचाप, हर्निया, कब्ज, पथरी की समस्या वाले लोग इस आसन का न करें या विशेषज्ञ की सलाह से करें।
- इस क्रिया को विशेषज्ञ के साथ ही करें या पूर्ण रूप से इस क्रिया में निपुण होने पर ही इसे स्वयं करें।
- चूंकि यह क्रिया जठारग्नि को उद्दीपित करती है, अतः इस क्रिया को ग्रीष्म ऋतु में न करें।

लाभ

- यह क्रिया हमारे श्वसन तंत्र को नियंत्रित करती है और साइनस व अस्थमा रोग में अत्यंत प्रभावपूर्ण है।
- तनाव व डिप्रेशन को दूर करती है।
- हमारे चेहरे में ताजगी लाती है और शारीरिक थकान को दूर करती है।
- यह क्रिया पेट की चर्बी को कम करती है।



टिप्पणियाँ

अवलोकन

कपालभाति क्रिया के प्रभाव का अवलोकन :

- इस क्रिया को 3 से 4 सप्ताह के लिए कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3
श्वसन क्रिया पर प्रभाव			
मानस पटल पर प्रभाव			
बजन में कमी पर प्रभाव			
ऊर्जा के स्तर पर प्रभाव			

परिणाम

.....

.....

.....

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

12

षट्कर्म का अभ्यास : त्राटक क्रिया

उद्देश्य

त्राटक क्रिया को करने के पश्चात आप इस क्रिया का अभ्यास करने और उसे प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट और कुशन।

- त्राटक स्टैंड, ज्योति और माचिस।

प्रक्रिया व सिद्धांत

त्राटक क्रिया के लिए साफ योग कक्षा होनी चाहिए।

आत्मा के संयोग से मन काम करता है और मन के संयोग से इंद्रियाँ कर्म करती हैं। मन बड़ चंचल और अधम है। आत्मा के बंधन का कारण है मन। मनुष्य के सुख और दुःख का कारण है मन। परन्तु, मनुष्य को ऊपर उठाने वाला भी मन ही है। मुक्ति का साधन भी मन है।

मन तक पहुँचने और उसकी अज्ञात शक्तियों को सक्रिय बनाने के लिए त्राटक साधना की जाती है। त्राटक की साधना एक स्वतंत्र साधना भी है जो उच्च साधकों के लिए होती है। त्राटक अत्यंत शक्तिशाली साधना है।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।



टिप्पणियाँ

त्राटक क्रिया करने की विधि

पद्मासन या सुखासन में पीठ सीधा रखकर सुख पूर्वक बैठ जाइए। घी का दीपक जलाकर उसे 4 फीट की दूरी पर आँखों के सामने रखिये। घी के अभाव में मोमबत्ती भी ले सकते हैं।

अब बिना पलक झपकाये दीपक की लौ को देखें। दीपक को निर्वात स्थान पर रखना चाहिए। अनवरत, देखते-देखते जब आँखों में आंसू आने लगे या आँखों में जलन होने लगे तब कोमलता से आँखें बंद कर लें और बंद आँखों से अपने अंतर में वैसा ही प्रकाश देखने की कोशिश करें। पुनः आँखें खोलकर दीपक की स्थिर लौ को एक-टक देखते जायें। आँखों में आंसू व जलन आये तो आँखें बंद कर लें। धीरे-धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। इसकी अवधि 20 मिनिट से अधिक न बढ़ायें। अपने निर्धारित समय के अनुसार इस क्रिया को नियमित करते रहना चाहिए। ज्योति पर ध्यान करते समय अपने ईष्ट देवता का, परमिता परमेश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। इससे धारणा सिद्ध हो जाती है और इसके फलस्वरूप साधक ध्यान की भूमि में प्रवेश करता है।

इस क्रिया ‘ॐ’ पर भी कर सकते हैं। चन्द्रमा व उगते हुए सूरज का भी त्राटक किया जाता है।



चित्र 12.1: त्राटक क्रिया

सावधानियाँ

- डिप्रेशन, मिर्गी, नेत्र विकारों में इस क्रिया को न करें या विशेषज्ञ की सलाह से करें।
- इस क्रिया को विशेषज्ञ के साथ ही करें या पूर्ण रूप से इस क्रिया में निपुण होने पर ही इसे स्वयं करें।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

लाभ

- इस क्रिया से हमारे नेत्र स्वस्थ होते हैं और नेत्रों की रौशनी बढ़ती है।
- यह हमारी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है।
- अनिद्रा की शिकायत में बहुत ही प्रभावकारी है।

अवलोकन

त्राटक क्रिया के प्रभाव का अवलोकन

- इस क्रिया को 3 से 4 सप्ताह के लिए कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए:
- प्रभावों के अनुसार 'हाँ' अथवा 'नहीं' लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3
निद्रा पर प्रभाव			
मानस पटल पर प्रभाव			
नेत्र पर प्रभाव			
एकाग्रता में वृद्धि का अनुभव			

परिणाम

.....
.....

टिप्पणी

.....
.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

13



टिप्पणियाँ

सूक्ष्म व्यायाम

पैर के लिए संधि संचालन (जोड़ों) का अभ्यास

उद्देश्य

संधि संचालन के अभ्यासों को पूरा करने के पश्चात आप इनको करने तथा इन्हें आप प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट्स (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

प्रक्रिया

योग कक्षा की तैयारी: योग कक्षा साफ और हवादार होनी चाहिए।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

पैर के जोड़ों के अभ्यास की विधि

(i) पादांगुली नमन

विधि

- दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठें, हाथ को पीछे सहारा देने के लिए रखें;
- पैर की अंगुलियों को मोड़ना और खोलना शुरू करें। केवल अंगुलियाँ मोड़ें;

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका



चित्र 13.1: पादांगुली नमन

- श्वास-प्रश्वास के ताल-मेल के साथ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए अपनी तरफ, पांच बार करेंगे;
- पंजा व टखना स्थिर रखें, केवल अंगुलियों में गति रखें। पांच बार अभ्यास करें फिर थोड़ी देर का विश्राम करें। अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करें। हल्का खिंचाव एवं प्रभाव का अनुभव करें।

(ii) गुल्फ नमन



चित्र 13.2: गुल्फ नमन



टिप्पणियाँ

विधि

- दोनों पंजों को आगे-पीछे करें;
- अंगुलियां स्थिर रखें, केवल टखनों में गति बनाएं;
- श्वास लेते हुए पंजा आगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे ले जाएं;
- पूरी चेतना और सजगता टखने के आस-पास रखें। पांच बार इस अभ्यास को करें, फिर थोड़ी देर का विश्राम करें।

(iii) गुल्फ घूर्णन

चित्र 13.3: गुल्फ घूर्णन

विधि

- एक पैर को मोड़ कर जांघ के पास रखिए;
- एक हाथ पैर के ऊपर और एक हाथ टखने पर रखिए;
- हाथ की सहायता से टखने को गोल-गोल घुमाइए;
- एक श्वास में एक बार घुमाएं। पांच बार क्लॉक-वाइज़ एवं पांच बार एन्टी क्लॉक- वाइज़ कीजिए;
- दर्द (पेन) वाले स्थान पर हल्की मसाज कीजिए;
- बेहतर रक्त का प्रवाह, बेहतर प्राण का संचार अनुभव कीजिए। अब दूसरे पैर से इसी तरह इस अभ्यास को कीजिए।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

(iv) जानुनमन



चित्र 13.4: जानुनमन

विधि

- जांघ के नीचे अपनी हथेलियों को फँसाइए;
- घुटने को मोड़ना और खोलना शुरू कीजिए;
- श्वास लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए मोड़िए;
- एड़ी जमीन को छुएगी नहीं, इसे ऊपर ही ऊपर लाना और ले जाना है;
- खोलते वक्त घुटना सीधा रखने का प्रयास करेंगे। पूरी सजगता, पूरी चेतना घुटने के आस-पास रहे। श्वास-प्रश्वास के ताल-तेल के साथ पांच बार बायें से फिर पांच बार दायें से श्वास लेते हुए खोलिए और श्वास छोड़ते हुए मोड़िए;
- फिर थोड़ी देर विश्राम प्रारंभिक स्थिति में विश्राम कीजिए;
- अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास कीजिए।

(v) जानु चक्र

विधि

- जांघ के नीचे हाथों को कुहनियों तक फँसाइये;
- अब घुटने को गोल-गोल घुमाना है। (जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे);



टिप्पणियाँ



चित्र 13.5: जानु चक्र

- एक श्वास में एक बार। क्लॉक वाइज़ 3 बार और एन्टी क्लॉक वाइज़ 3 बार कीजिए।
- अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए;
- जांघ की मांसपेशियों, पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव अनुभव कीजिए, जोड़ों और टखने में हल्का दर्द अनुभव कीजिए, उदर क्षेत्र पर हल्का दबाव अनुभव सहित दिया जा सकता है। इस क्रिया को 5-5 बार दोनों दिशाओं में करें, फिर दूसरे पैर से दोहराएं।

(vi) जानुफलकाकर्षण



चित्र 13.6: जानुफलकाकर्षण

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

विधि

- घुटने की मांसपेशियों को सिकोड़िये और छोड़िए;
- श्वास लेते हुए मांसपेशियों को अपनी तरफ खींचिये, थोड़ी देर रोकिए, श्वास छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला कीजिए;
- इस क्रिया को 5-5 बार अपनी श्वास व समय के अनुसार कीजिए, फिर थोड़ी देर का विश्राम कीजिए, जानुफलक आकर्षण विशेष रूप से घुटने के दर्द के लिए असरकारक है।

गठिया रोग, घुटनों में अत्यधिक दर्दकारक है जिसके लिए जानुफलकाकर्षण रामबाण है।

(vii) अद्वृत्तितली आसन



चित्र 13.7: अद्वृत्तितली आसन

विधि

योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम

प्रायोगिक पुस्तिका

- एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रखिए;
- एक हाथ टखने के ऊपर एक हाथ जांघ के ऊपर रखिए;
- हाथ की सहायता से घुटने को ऊपर और नीचे लाइए, श्वास लेते हुए जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ घुटने को लाइये और ले जाइए;
- इस क्रिया को बहुत ही धीरे-धीरे 5-5 बार दोनों पैरों से कीजिए।

(viii) पूर्णतितली आसन



चित्र 13.8: पूर्णतितली आसन

विधि

- दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाइए, दोनों हाथों को पैर के पंजों में लॉक कीजिए;
- घुटने को ऊपर-नीचे करें;
- सामान्य श्वास-प्रश्वास के साथ, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, वक्ष स्थल खुला हुआ होना चाहिए;
- तत्पश्चात् घुटनों को यथाशक्ति जल्दी-जल्दी पृथ्वी से अलग व पृथ्वी पर तितली के पंखों की भाँति गति दें।

(ix) श्रोणीचक्र

विधि

- अद्वृतितली की अवस्था में बैठिए;

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ



चित्र 13.9: श्रोणीचक्र

- एक हाथ घुटने के ऊपर रखकर, घुटने को गोल-गोल घुमाइए;
- श्वास लेते हुए घुटने जमीन की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ क्लॉक वाइज़ और एन्टी क्लॉक वाइज़;
- फिर दूसरे पैर से इसी तरह कीजिए।

सावधानियाँ

- कमरदर्द व साइटिका के रोगी इस आसन को न करें।
- उपर्युक्त आसनों को करने के दौरान जल्दबाजी न करें।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आसन करें।
- घुटनों की समस्याओं वाले, साइटिका और स्लिप डिस्क वाले अभ्यासी इन आसनों को न करें या प्रशिक्षित योग शिक्षक के दिशा-निर्देश में ही करें।
- इन अभ्यासों को पूर्ण सजगता और ध्यान के साथ करें, मात्र यांत्रिक रूप से न करें।

लाभ

- ये अभ्यास अर्थराइटिस या किसी भी प्रकार के पैर के रोग के लिए अत्यंत लाभकरी हैं।
- यह हमारे शरीर को जटिल आसनों व ध्यान के लिए तैयार करते हैं।
- ये अभ्यास हमारे शरीर की जकड़न को दूर करते हैं और हमारी क्षमता में वृद्धि करते हैं।
- ये अभ्यास मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए बहुत अच्छे हैं।
- रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं।



टिप्पणियाँ

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन :

- 3 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3
अकड़न को दूर करना			
जोड़ों का चटकना			
गर्माहट का अनुभव			
मांसपेशी की अकड़न को दूर करना			
पीड़ा में कमी			

परिणाम

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

14

सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए संधि संचालन का अभ्यास

उद्देश्य

हाथों के लिए संधि संचालन के अभ्यासों को पूरा करने के पश्चात आप इनको करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट्स (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

प्रक्रिया

योग कक्षा की तैयारी: योग कक्षा साफ और हवादार होनी चाहिए।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

हाथ के जोड़ों के अभ्यास की विधि

1. मुष्ठिका बंध

विधि

- हाथ को कंधे के सीधे में ऊँचा उठाइए;
- कोहनी सीधी रखिए;

प्रायोगिक पुस्तिका

- अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बाँधें;
- श्वास लेते हुए खोलिए और श्वास छोड़ते हुए बाँधें।



चित्र 14.1: मुष्ठिका बंध

(ii) मणिबंध नमन



चित्र 14.2: मणिबंध नमन

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण




टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

विधि

- हथेली को सीधी रखते हुए कलाई को ऊपर-नीचे मोड़िए;
- श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ मोड़िए।

(iii) मणिबंध चक्र



चित्र 14.3: मणिबंध चक्र

विधि

- मुट्ठी बांध कर कलाई को गोल-गोल घुमाइए।
- एक श्वास में एक बार, बाहर से अंदर फिर अंदर से बाहर कीजिए।
- 5-5 बार दोनों दिशाओं में कीजिए, फिर थोड़ी देर का विश्राम कीजिए।
- हथेलियों को जांघ के ऊपर रखिए, भुजाओं में हल्की पीड़ा जो उत्पन्न हुई उसको अनुभव कीजिए।

(iv) कोहनीनमन



चित्र 14.4: कोहनीनमन



टिप्पणियाँ

विधि

- कोहनी को मोड़िए और खोलिए, श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ कंधे तक लायें और ले जाइए;
- फिर बगल की तरफ लायें और ले जाइए;
- सारी सजगता- सारी सक्रियता कोहनी के आसपास रखिए;
- फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए।

(v) स्कन्ध चक्र

चित्र 14.5: स्कन्ध चक्र

विधि

- अंगुलियों को कंधे पर रखिए, कोहनियों को स्कन्ध से गोल-गोल घुमाइए;
- श्वास लेते हुए छाती और हाथों को फैलाइये, श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को मिलाइये;
- 5-5 बार पीछे से आगे और आगे से पीछे घुमाइये;
- पूरी चेतना, पूरी सजगता कंधों के आस-पास रखिए और फिर थोड़ी देर का विश्राम कीजिए।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

(vi) ग्रीवा संचालन



चित्र 14.6: ग्रीवा संचालन

विधि

- श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की तरफ धीरे-धीरे घुमाइये;
- गर्दन में मूवमेंट दीजिए, ध्यान रहे गर्दन की नसें नाजुक होती हैं, कहीं पर ज्यादा दबाव न पढ़े, कहीं कोई ज्यादा न खिंच जाए;
- सामान्य गति में गर्दन आगे-पीछे लायें, फिर साइडवेज जैसे बगल झांकने जैसा, श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे, 5-5 बार करें और फिर थोड़ी देर विश्राम करें।



टिप्पणियाँ

सावधानियाँ

- सर्वाइकल स्पांडिलाइटिस के रोगी इन अभ्यासों को विशेषज्ञ के साथ करेंगे।
- उपर्युक्त अभ्यासों को करने के दौरान जल्दबाजी न करें।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करें।
- इन अभ्यासों को पूर्ण सजगता और ध्यान के साथ करें, मात्र यांत्रिक रूप से न करें।
- इन अभ्यासों के दौरान रीढ़ की हड्डी और सिर एक रेखा में होने चाहिए।

लाभ

- ये अभ्यास गठिया, सर्वाइकल, स्पांडिलाइटिस, उच्च-रक्तचाप के रोगी और बुजुर्ग के लिए अति उत्तम हैं।
- यह हमारे शरीर को जटिल आसनों व ध्यान के लिए तैयार करते हैं।
- ये अभ्यास हमारे शरीर की जकड़न को दूर करते हैं और हमारी क्षमता में वृद्धि करते हैं।
- ये अभ्यास मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए बहुत अच्छे हैं।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन:

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त अभ्यास कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
जोड़ों पर प्रभाव				
गर्माहट का अनुभव				
शरीर की मांसपेशीय पर अनुभव				
पीड़ा में कमी व मानसिक संतुलन				

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

15

टिप्पणियाँ



सूक्ष्म व्यायाम (पवनमुक्तासन-II) उदरसमूह के आसनों का अभ्यास

उद्देश्य

उदर समूहों के आसनों को पूरा करने के पश्चात आप इन अभ्यास करने और उन्हें प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट्स (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार)।

प्रक्रिया

साफ और हवादार योग कक्षा तैयार करते हैं।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

अभ्यास की विधि

1. उत्तानपादासन
2. पादसंचालन (साइकिलिंग)
3. उदराकर्षणासन
4. पवन मुक्तासन

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

1. उत्तानपादासन



चित्र 15.1: उत्तानपादासन

विधि

- इस अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैर एक साथ मिलाइए।
- हथेलियां कमर के बगल में रखिए। (यह प्रारंभिक स्थिति हुई)।
- श्वास लेते हुए बाएं पैर को धीरे-धीरे उठाइए।
- जहां तक पैर उठा सकते हैं, क्षमतानुसार उठाते जाइए।
- अब श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे पैर को वापस नीचे लाइए।
- इसी प्रकार दायें पैर को श्वास भरते हुए उठाइए।
- श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे-धीरे नीचे लाइए।
- इस प्रक्रिया को तीन-तीन बार कीजिए।
- दोनों पैरों को एक साथ धीरे-धीरे इसी प्रकार उठाइए, फिर नीचे ले आइए।
- दोनों तरफ से, पूरी सक्रियता, पूरी सजगता के साथ, घुटने के आसपास, जांघ, पिंडली की मांस-पेशियों में खिंचाव का अनुभव कीजिए, फिर थोड़ी देर के विश्राम के लिए शवासन में लेटिये, दोनों हाथ बगल में हथेलियों आसमान की ओर खुली हुई, रीढ़ की हड्डी, सिर और गर्दन एक सीध में, अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए। जांघ, घुटना, कमर, टखना आदि सभी अंगों में बेहतर प्राण का संचार अनुभव कीजिए।



टिप्पणियाँ



चित्र 15.2: पादचक्रासन

विधि

- शवासन से चेतनावस्था में आइए;
- पहले की तरह घुटने को सीधा रखते हुए दायें पैर को जमीन से ऊपर उठाकर गोल-गोल घुमाइए;
- श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ;
- लंबा बड़ा-सा धेरा बनाइये;
- धीरे-धीरे 3-3 बार क्लॉक वाइज़ और एन्टीक्लॉक वाइज़ कीजिए;
- अब दूसरे पैर से भी इसी प्रकार अभ्यास कीजिए;
- जांघ और पिंडली की मांसपेशियों में बेहतर रक्त का प्रवाह और ठखने व कमर में हल्की पीड़ा महसूस कीजिए;
- पूरी चेतना, पूरी सजगता घुटने के आसपास रखिए;
- फिर थोड़ी देर शवासन में विश्राम कीजिए।

नोट: दोनों पैर एक साथ उठाकर भी यह अभ्यास किया जाता है, जो कठिन अभ्यास है हृदय व कमर के रोगियों को यह अभ्यास वर्जित है।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

3. पादसंचलन (साइकिलिंग)



चित्र 15.3: पादसंचलन (साइकिलिंग)

विधि

- पहले की तरह दोनों पैरों को मिला लीजिए;
- हाथ सीधे, हथेलियां जमीन की तरफ रखिए;
- पादसंचलन जैसे साइकिल चलाते हैं;
- पहले एक पैर के घुटने को मोड़िये इन्हें छाती के करीब लाइए, फिर श्वास लेते हुए साइकिल चलाने की तरह पंजे को आगे-पीछे लाइए और ले जाइए;
- दूसरे पैर से भी इसी तरह कीजिए;
- फिर दोनों पैर से एक साथ साइकिल चलाइए;
- इस क्रिया को 5-5 बार लय-बद्ध तरीके से कीजिए;
- इसे बहुत धीरे-धीरे, और जल्दी बाजी किए बिना करें और फिर थोड़ी देर श्वासन की स्थिति में विश्राम कीजिए;
- उदर क्षेत्र, छाती के क्षेत्र में जो दबाव दिया गया है, जो दर्द पैदा किया गया है, सारी सजगता, सारी चेतना अभ्यास के प्रभाव पर ले जाइए। ये अभ्यास उदर विकारों को दूर करने में लाभदायक है।



टिप्पणियाँ

4. पवन मुक्तासन



चित्र 15.4: पवन मुक्तासन

विधि

- दोनों घुटनों को मोड़िये;
- दोनों घुटनों के बाहर हथेलियों को फँसाकर श्वास भरिये और श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए;
- इस क्रिया को 3 से 4 बार, अपनी श्वास और समय के अनुसार कीजिए;
- फिर थोड़ी देर शवासन में विश्राम कीजिए।

5. उदराकर्षण



चित्र 15.5: उदराकर्षण

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

विधि

- दोनों हथेलियों की अंगुलियों को आपस में फंसाइए;
- इन्हें सिर के नीचे रखिए;
- दोनों घुटनों को मोड़कर सीने के पास रखिए;
- अब सिर को बायीं ओर व घुटने दायीं ओर मोड़िए;
- रीढ़ की हड्डियों में ऐंठन (मसाज) दीजिए;
- फिर विपरीत दिशा में सिर दायीं व आरे घुटने बायीं ओर मोड़िए;
- रीढ़ की हड्डी में मसाज दीजिए।

इससे पेंक्रियाज, आदि ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। इंसुलिन का सिक्रेशन बेहतर होता है। कब्ज और गैस दूर होती है।

सावधानियाँ

- पूरे अभ्यास के दौरान अपनी सजगता, श्वसन, मानसिक गणना, आंतरिक उदरीय मालिश को बनाए रखेंगे।
- उपर्युक्त अभ्यासों को करने के दौरान जल्दबाजी न करें।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करें।
- इन अभ्यासों को पूर्ण सजगता और ध्यान के साथ करें मात्र यांत्रिक रूप से न करें।

लाभ

- ये अभ्यास पेट के रोगों (अपच, उच्च अम्लता, कब्ज), कमर दर्द व पेट की चर्बी को दूर करने में लाभदायक हैं।
- ये अभ्यास हमारे शरीर की जकड़न को दूर करते हैं और हमारी क्षमता में वृद्धि करते हैं।
- ये अभ्यास मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए बहुत अच्छे हैं।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन :

- 3 से 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
शरीर के अकड़न पर प्रभाव				
उदरीय पेशियों पर प्रभाव				
शरीर पर प्रभाव				
नाभी पर प्रभाव				
ऊर्जा के स्तर पर प्रभाव				

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

16

सूक्ष्म व्यायाम (पवनमुक्तासन-II) शक्तिबंध समूह के आसनों का अभ्यास

उद्देश्य

शक्तिबंध समूह के आसनों को पूरा करने के पश्चात आप इनका अभ्यास करने और प्रदर्शित करने की निरूपणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट्स (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

अभ्यास की विधि

- चक्कीचालन आसन
- नौकासंचालन आसन
- रज्जुकर्षन आसन
- काष्ठं तक्षणासन



टिप्पणियाँ

1. चक्की चालन विधि

- दोनों पैरों को फैलाकर बैठिए;
- हथेलियों को आपस में गूढ़कर आगे की तरफ रखिए;
- हाथ सीधे रखिए;



चित्र 16.1: चक्की चालन

- अब चक्की की तरह हाथों को चलाइए। यह महसूस करते हुए कि हमारे हाथ में बहुत भारी वजन है और उसे हम धकेल रहे हैं। इसी भावना के साथ कमर से आगे पीछे होइये, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास लेते हुए अपनी (पीछे की) तरफ, गोल-गोल घुमाइये। जांघ और पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कीजिए;
- हल्की पीड़ा बाहों में उत्पन्न हो रही है, उनके प्रति सजग हों, और अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए।

2. नौका चलासन



चित्र 16.2: नौका चलासन

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

विधि

- दोनों पैरों को मिला लीजिए;
- हाथों को कमर की बगल में रखिये और अभ्यास कुछ ऐसे कीजिए जैसे नौका चलाते हैं;
- कमर से ऊपर का भाग श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ भुजाओं सहित ले जाइए और श्वास लेते हुए अपनी तरफ वापस आइए;
- श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास लेते हुए पीछे की तरफ वापस आइए, जैसे नाव का चप्पू अपके हाथ में है और आप स्वयं नाव चला रहे हैं। थोड़ी देर का विश्राम करें।

3. रञ्जुकर्षण आसन (कुएं से पानी खींचने वाली स्थिति में आसन)



चित्र 16.3: रञ्जुकर्षण आसन

विधि

रञ्जुकर्षण अर्थात् (रस्सी से पानी खींचना) जैसे-

- कुएं से पानी निकालते समय जैसे रस्सी को खींचते हैं, उसी प्रकार से ध्यान रखते हुए, श्वास लेते हुए एक हाथ ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते समय बलपूर्वक मुट्ठी बांधकर नीचे की तरफ खींचिए;
- इसे दोनों हाथों से बारी-बारी से कीजिए।

भुजाओं, कंधों तथा रीढ़ की हड्डी में संतुलित प्राण का संचार व रक्त के प्रवाह का अनुभव कीजिए।



टिप्पणियाँ

4. काष्ठतक्षण आसन (कुल्हाड़ी चलाने की स्थिति वाला आसन)



चित्र 16.4: काष्ठतक्षण आसन

विधि

- पैर के पंजों के बल उकड़ू बैठिए;
- दोनों पंजों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए, दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में फँसाकर हथेलियों को ऊपर ले जाइए, यह अनुभव करते हुए की हम कुल्हाड़ी चला रहे हैं;
- हाथ ऊपर ले जाकर 'हा' ध्वनि के साथ नीचे लाइए;
- श्वास छोड़ते हुए, अंदर के सारे आक्रोश बाहर निकल रहे हैं;
- ऐसी भावना के साथ 5 से 10 बार इस अभ्यास को कीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए।

यह अभ्यास तनाव और तनाव जनित रोगों के लिए प्रभावकारी है। साथ ही अवसाद के रोगियों के लिए प्रभावकारी है, जो घबराते हैं या दबाव में रहते हैं, उन्हें यह अभ्यास सक्रियता के साथ करना चाहिए।

सावधानियाँ

- कमरदर्द की समस्या, स्लीपिडिस्क, हर्निया से पाइत व्यक्ति विशेषज्ञ की सलाह पर इन आसनों को करें।
- गर्भावस्था के अंतिम दिनों के दौरान इस आसन समूह को न करें।
- उपर्युक्त अभ्यासों को करने के दौरान जल्दबाजी न करें।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करें।
- इन अभ्यासों को पूर्ण सजगता और ध्यान के साथ करें मात्र यांत्रिक रूप से न करें।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

लाभ

- इन आसनों के अभ्यास से शरीर में ऊर्जा प्रवाह में वृद्धि होती है और ये आसन तांत्रिक पेशीय गांठ की समस्या को दूर करते हैं।
- ये अंतस्नावी ग्रंथी की क्रिया को नियंत्रित करते हैं।
- ये अभ्यास हमारे शरीर की जकड़न को दूर करते हैं और हमारी क्षमता में वृद्धि करते हैं।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन :

- 3 से 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
अकड़न पर दूर प्रभाव				
उदरीय पेशियों पर प्रभाव				
शरीर पर प्रभाव				
कमर दर्द में अनुभव				
ऊर्जा के स्तर पर प्रभाव				

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

17



सूक्ष्म व्यायाम आंखों के लिए अभ्यास

उद्देश्य

आंखों के लिए अभ्यासों को पूरा करने के पश्चात आप इनको करने तथा प्रदर्शित करने की निरूपणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

1. नेत्र-शक्ति विकासक क्रियाएं

स्थिति

दोनों पैर मिलाकर, सीधे खड़े हो जाएं।

विधि - (क)

- गर्दन को सीधा रखकर आंख की पुतलियों को पहले ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर चलायें।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- इस क्रिया को 8 से 10 बार दोहरायें।
- फिर आंखों को सामान्य स्थिति में लाते हुए विश्राम दें।



चित्र 17.1

विधि - (ख)

- गर्दन को सीधा रखकर आंख की पुतलियों को पहले दायीं फिर बायीं घूमाएं।
- इस क्रिया को 8 से 10 बार दोहरायें।
- फिर आंखों को सामान्य स्थिति में लाते हुए विश्राम दें।



चित्र 17.2

विधि - (ग)

- गर्दन को सीधा रखकर आंख की पुतलियों को दायीं से बायीं तथा बायीं से दायीं ओर गोलाई में घूमाएं।
- इस क्रिया को 8 से 10 बार दोहरायें।
- फिर आंखों को सामान्य स्थिति में लाते हुए विश्राम दें।



चित्र 17.3

लाभ

- आंख की सभी विकृतियां दूर होती हैं।
- दृष्टि तीव्र होती है।
- यदि यह क्रिया लगातार की जाए तो, आंखें सदैव स्वस्थ रहती हैं।
- आंखों के अन्य विकार जैसे - आंखों से पानी आना, जलन होना, खुजली एवं आंखों की थकावट दूर होती है।
- लैंस की पावर भी कम होती है।

सावधानियाँ

- उपर्युक्त अभ्यासों को करने के दौरान जल्दबाजी न करें।
- इसे नेत्र की क्षमता के अनुसार करें।
- इन अभ्यासों को पूर्ण सजगता और ध्यान के साथ करें, मात्र यांत्रिक रूप से न करें।
- इन अभ्यासों के दौरान रीढ़ की हड्डी और सिर एक रेखा में होने चाहिए।
- प्रत्येक अभ्यास के पश्चात नेत्रों को विश्राम दें।

लाभ

- सिरदर्द और उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक होता है।
- एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है।
- चेहरे के तनाव को दूर करता है और सुंदरता में वृद्धि करता है।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन :

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
आंख की मांसपेशियों पर प्रभाव				
नेत्र की ज्योति पर प्रभाव				
एकाग्रता में वृद्धि पर प्रभाव				
सिरदर्द में कमी पर प्रभाव				

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

18

टिप्पणियाँ



विश्रामात्मक आसन

उद्देश्य

शिथलीकरण (विश्राम) के अभ्यासों को पूरा करने के पश्चात आप इन आसनों को करने तथा इन्हें प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार)।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

1. शवासन



चित्र 18.1: शवासन

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

विधि

- पीठ के बल सीधा लेट जाएँ।
- पैरों में थोड़ी दूरी रखकर सीधा फैला लें। दोनों हाथ धड़ के पास रखें, हथेली खुली हुई आकाश की ओर अंगुलियाँ थोड़ी मुड़ी हुई हों।
- आँखें बंद कर लें और श्वास सामान्य रखें।
- अपने शरीर की सभी मांस-पेशियाँ, नस-नाड़ियाँ अंग-प्रत्यंगों को ढीला छोड़ दें।
- पैर के अंगूठे से लेकर पिंडली, घुटना, जंघा, छाती, पेट, हाथ, गर्दन, मुँह और सिर, शरीर के प्रत्येक भाग पर क्रम से ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास करें।
- ऐसा करने से शरीर के सभी अंग आराम का अनुभव करेंगे।
- बाद में दोनों हाथ आपस में रगड़िये और आँखों पर हल्का स्पर्श करें और धीरे-धीरे आँखें खोल दें।

लाभ

- इस आसन के अभ्यास से शरीर की सभी मांसपेशियों, रक्त-नलिकाओं, नस-नाड़ियों और प्रत्येक अंग को संपूर्ण विश्राम मिलता है और अधिक काम करने से जो थकावट होती है वह भी दूर हो जाती है।
- मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप दूर होता है।
- हृदय और मस्तिष्क में पुर्णवृद्धि होती है।
- अनिद्रा के रोगियों के लिए यह बहुत लाभकारी आसन है।
- डर, चिन्ता और पीड़ा की स्थिति से मन को शान्ति मिलती है।
- पीठ के बल लेटकर किये जाने वाले आसनों में शवासन में ही विश्राम किया जाता है।

2. मकरासन



चित्र 18.2: मकरासन



टिप्पणियाँ

विधि

- पेट के बल लेटें;
- बाँयां हाथ दायें हाथ के साथ चित्रानुसार मिलाकर अपना मस्तक उसके ऊपर रखें;
- पैर सुविधापूर्वक दूर से दूर खुले हुए रखें। एड़ियां अंदर की ओर हों और पंजे बाहर की ओर;
- छाती को जमीन से थोड़ा उठाकर रखें;
- पेट पर हल्का-सा दबाव रखें;
- शरीर का संतुलन बिल्कुल मध्य में रहे;
- सांस की सामान्य गति रखें;
- इस स्थिति में 5-7 मिनट तक विश्राम कीजिए।

पेट के बल लेटकर किये जाने वाले आसनों के बाद मकरासन में ही विश्राम किया जाता है।

सावधानियाँ

- खाना खाने के तुरन्त पश्चात मकरासन न करें।

लाभ

- ये आसन मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए बहुत अच्छे हैं।
- तनाव और थकान को दूर करते हैं।
- रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन :

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
शारीरिक प्रभाव				
मानसिक प्रभाव				
आंतरिक जागरूकता				
पूर्ण श्वसन पर प्रभाव				

परिणाम

.....
.....

टिप्पणी

.....
.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण

19

टिप्पणियाँ



ध्यानात्मक आसन

उद्देश्य

ध्यान के आसनों का अभ्यास पूरा करने के पश्चात आप ध्यान के आसन लगाने तथा इन्हें प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट्स (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

1. सिद्धासन



चित्र 19.1: सिद्धासन

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

विधि

1. दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठिए।
2. अब बाएं पैर को घुटने से मोड़िए और हाथों से पकड़ते हुए उसका तला दाएँ पैर की जांघ से मिला दीजिए।
3. इसी प्रकार दाएँ पैर को घुटने से मोड़िए और उसे बाएँ पैर की एड़ी के जोड़ पर जननेन्द्रियों के समीप रखिए।
4. अब दोनों हाथों की प्रथम अंगुली को अँगूठों से जोड़ते हुए, अर्थात् ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखिए।
5. बिना किसी दबाव के, प्रसन्नता का अनुभव करते हुए सिर, गर्दन और पीठ को सीधा रखिए।
6. धीरे से कोमलता के साथ आंखें बंद कीजिए और सामान्य रूप से साँस लेते हुए पूरे शरीर को आराम दीजिए।
7. जब तक स्थिति सामान्य और आरामदायक रहे तब तक इस स्थिति को बनाए रखिए।

2. पद्मासन



चित्र 19.2: पद्मासन

विधि

- दाहिने पांव को बायें जांघ पर रखें;
- अब बायें पांव को उठाकर दायीं जांघ पर रखें;
- कमर, गर्दन और सिर सीधा रखें;
- दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें।



टिप्पणियाँ

सावधानियाँ

- उपर्युक्त आसनों को करने के दौरान जल्दबाजी न करें।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।
- घुटनों की समस्याओं वाले, साइटिका और स्लिप डिस्क वाले अभ्यासी इन आसनों को न करें या प्रशिक्षित योग शिक्षक के दिशा-निर्देश में ही करें।

लाभ

- ये आसान मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए बहुत अच्छे हैं।
- तनाव व डिप्रेशन से मुक्त करते हैं।
- रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन:

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
शारीरिक प्रभाव				
मानसिक विश्राम पर प्रभाव				
आंतरिक जागरूकता पर प्रभाव				
पूर्ण श्वसन पर प्रभाव				

परिणाम

.....

.....

.....

.....

.....

.....

टिप्पणी

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

20

वज्रासन समूह के आसन

उद्देश्य

वज्रासन समूह के आसनों को पूरा करने के पश्चात आप उन्हें उनका करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।


उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

1. वज्रासन



चित्र 20.1: वज्रासन



टिप्पणियाँ

विधि

- दोनों पाँव घुटने से मोड़ते हुए बैठ जाएं।
- पैर का अग्र भाग नितम्ब (कुल्हे) के नीचे इस प्रकार रखें कि ऐड़ी ऊपर की ओर रहे और दोनों पंजे आपस में मिले रहें।
- दोनों हाथ जंघा पर रखें।
- कमर और गर्दन, बिल्कुल सीधा रखें।
- आँखें खुली रखें और सामने देखें।
- श्वास सामान्य रखें।

लाभ

- यह सम्पूर्ण पाचन तंत्र को नियंत्रिक करता है और पेट संबंधी रोगों में आराम पहुंचाता है।
- यह जनन तंत्र के अंगों के लिए भी लाभदायक है।
- वज्र नाड़ी को उत्तेजित करता है और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है।
- यह खाना खाने के पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन है।

2. सुप्तवज्ञासन

चित्र 20.2: सुप्तवज्ञासन

विधि

- सबसे पहले वज्ञासन में बैठ जाएं।
- फिर दोनों हाथों की हथेलियों को कमर के पीछे जमीन पर रखें।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- इसके पश्चात बाजू की कोहनियों को मोड़ते हुए धीरे-धीरे पीछे लेट जाएं।
- कंधे व गर्दन जमीन पर लग जायेंगे। तत्पश्चात दोनों हाथों की हथेलियों को मोड़ते हुए दोनों कंधों के नीचे रखें।
- फिर धीरे-धीरे सिर को ऊपर की तरफ इस तरह उठाएं कि चोटी वाला हिस्सा जमीन पर लग जाए।
- वापस आते हुए दोनों हाथों को दोनों जंघाओं पर रखें, इस अवस्था में दोनों घुटने आपस में मिले रहेंगे।

लाभ

- इसके निरंतर अभ्यास से छाती चौड़ी व कमर पतली होती है। श्वास संबंधी बीमारी जैसे दमा, ब्रॉकाइटिस के लिए अच्छा आसन है।
- इसके अभ्यास के समय फेफड़े पूरी तरह फूलते हैं जिससे फेफड़े की सांस लेने की क्षमता दुगुनी हो जाती है।
- इससे गले के अंगों की मसाज हो जाती है।
- जिन व्यक्तियों के पेट पर अत्यधिक चर्बी होती है, कमर मोटी होती है उन्हें इसका निरंतर अभ्यास धीरे-धीरे करना चाहिए।
- रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है, रक्त की शुद्धि होती है।
- शरीर में हल्कापन आता है।
- जिनकी नाभि अपने स्थान से हट जाती है, इसके निरंतर अभ्यास से हटी हुई नाभि अपने स्थान पर आ जाती है।

3. शशांकासन



चित्र 20.3: शशांकासन

विधि

- सर्व प्रथम बज्रासन में बैठना चाहिए।
- दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं।

प्रायोगिक पुस्तिका

- इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक-दूसरे से मिले हों।
- दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें।
- श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं।
- आगे की ओर झुकते हुए ढुड़की को जमीन पर रखें।
- दोनों भुजाओं को समानांतर रखें।
- सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें।
- श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं।
- श्वास को बाहर छोड़ते हुए ब्रजासन में वापस लौट आएं।
- पैरों को पीछे खींचकर विश्रामासन में वापस जा जाएं।

लाभ

- शशांकासन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है।
- यह जनन अंग संबंधी व्याधि एवं कब्ज से मुक्ति दिलाता है एवं पाचन क्रिया संबंधी व्याधि व पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है।

4. सिहांसन



चित्र 20.4: सिहांसन

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

विधि

- सांस भर कर रोकें;
- जिह्वा को अधिक-से-अधिक बाहर की ओर निकालते हुए कमर को आगे की ओर झुकाएं;
- शेर जैसी स्थिति में आने के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठकर दोनों हथेली जमीन पर टिकाएं;
- ध्यान रहे कि आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो;
- जोर से दहाड़े;
- पूर्व स्थिति में बैठ जाएं;
- इस क्रिया को तीन बार दोहराएं;
- तीन बार दोहराने के बाद गले को दोनों हाथों से मलें;
- मुंह में आई लार को अंदर निगल लें।

लाभ

- गले/कंठ के विकार दूर होते हैं;
- स्वर साफ़ व स्पष्ट होता है;
- गले की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं।

सावधानियाँ

- घुटने की समस्या वाले व्यक्ति इन आसनों को न करें या विशेषज्ञ की निगरानी में करें।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन :

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
पाचन तंत्र पर प्रभाव				
मानसिक प्रभाव				
पैर के दर्द में प्रभाव				
मेरुदंड पर प्रभाव				

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणीयाँ

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

21

गोमुखासन

उद्देश्य

गोमुख आसन के अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप इनको लगाने तथा इन्हें प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

प्रक्रिया: योग कक्षा की तैयारी

योग कक्षा साफ और हवादार होनी चाहिए।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

गोमुखासन

विधि

- बायीं टांग घुटने से मोड़कर उसी पाद तल पर बैठें और दाहिनी टांग को मोड़कर बायीं टांग पर रखें;



टिप्पणियाँ



चित्र 21.1: गोमुखासन

- दाहिनी भुजा को ऊपर से पीठ पर ऐसा मोड़ें कि उसका पिछला भाग कान को स्पर्श करे;
- कोहनी शिखा से सटी रहे;
- पीठ पर बायें हाथ से दाहिने हाथ की तर्जनी पकड़ें;
- इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका विपरीत करें।

लाभ

- फेफड़े संबंधी बीमारियों में उपयोगी है;
- दमा तथा क्षय रोगियों को अवश्य करना चाहिए;
- इसके अलावा कंधों में मजबूती आती है;
- कोहनी, जंघा एवं घुटने, टखनों के लिए अच्छा है;
- जिनके घुटनों में दर्द रहता हो, उनको इसका अभ्यास निरंतर करना चाहिए।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन:

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
मानसपटल पर प्रभाव				
मानसिक विश्राम				
मेरुदंड पर प्रभाव				
अपने पैरों और नितंब पर प्रभाव				

परिणाम

.....
.....

टिप्पणी

.....
.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

22

टिप्पणियाँ



खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का समूह

उद्देश्य

खड़े होकर किये जाने वाले आसनों के अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप इनको करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट्स (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

1. ताङ्गासन



चित्र 22.1: ताङ्गासन

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

विधि

- खड़े होकर दोनों पैर एक साथ, हाथ की अंगुलियों को आपस में फँसाकर, पलटकर सर के ऊपर रखिए;
- सामने दीवार में एक बिंदु निश्चित कीजिए, जिसमें अपनी चेतना को केन्द्रित रखते हुए, श्वास लेते हुए, हाथों को ऊपर उठाइये; और सीधा कीजिए। ऐड़ी उठाते हुए पंजों के बल खड़े होने का प्रयास कीजिए;
- श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे नीचे आइए। इस क्रिया को 5 बार कीजिए। खिंचाव का अनुभव कीजिए, विश्राम कीजिए;
- अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास कीजिए।

लाभ

- यह आसन हमारे शरीर की अकड़क को दूर करता है और हमें ताजगी प्रदान करता है।
- इस पूरे शरीर की मासपेशियों में खिंचाव होता है और मजबूती आती है।
- यह हमारे मेरुदंड के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है।
- यह शारीरिक संतुलन प्रदान करता है और इससे व्यक्तित्व में संतुलन बना रहता है।

2. तिर्यक्ताङ्गासन



चित्र 22.2: तिर्यक्ताङ्गासन



टिप्पणियाँ

विधि

- ताड़ासन की स्थिति में श्वास छोड़ते हुए बायीं तरफ झुकिये।
- खिंचाव अनुभव कीजिए।
- श्वास लेते हुए बीच में आइये।
- अब श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकिये। ध्यान रहे हाथ-भुजाएं तने हुए सीधे रहने चाहिए।
- कटिप्रदेश में, कंधास्थि में, हल्की पीड़ा महसूस कीजिए, दोनों ओर समान रूप से झुकिये।
- बांहों, जांघों, उदर और छाती की मांसपेशियों में सक्रियता अनुभव कीजिए।

3. कटिचक्र आसन

चित्र 22.3: कटिचक्र आसन

विधि

- दोनों पैरों को एक फुट तक खोलकर सीधे खड़े हो जाएं।
- दोनों हाथों को कंधे की ऊँचाई तक लाते हुए सामने ले आयें।
- इस अवस्था में दोनों हाथों की हथेलियां आमने-सामने रहेंगी।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- इसके पश्चात कमर को मोड़ते हुए बाईं ओर घूमें।
- इस अवस्था में बायां हाथ मोड़कर कमर पर लगाएं और दायां हाथ आधा मोड़कर अपने वक्षस्थल पर लगाएं।
- इसी प्रकार दूसरी तरफ से इसका अभ्यास करें।

लाभ

- यह आसन भी शांख प्रक्षालन की क्रिया का महत्वपूर्ण आसन है।
- इसके अभ्यास से कमर रबड़ की तरह लचीली हो जाती है।
- कंधे, बाजू व कमर पतली हो जाती है।
- महिलाओं व मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा आसन है।

4. गरुड़ासन



चित्र 22.4: गरुड़ासन

विधि

- सीधे खड़े होकर बाएं पैर की जंघा को दाएं पैर की जंघा पर रखते हुए घुटनों और पिंडलियों से एक पैर को दूसरे पैर पर लपेट लें;
- तत्पश्चात सीने के सामने दोनों बाजुओं को लाते हुए बाईं भुजा को दायीं भुजा पर रखते हुए आपस में लपेट लें;

प्रायोगिक पुस्तिका

- इस अवस्था में दोनों हाथ गरुड़ की चोंच के समान बन जायेंगे;
- फिर धीरे-धीरे नीचे झुकते हुए पैर के पंजों को जमीन पर रखने का प्रयत्न करें।

लाभ

- इस आसन के अभ्यास से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है;
- गठिया के रोगियों को इसका अभ्यास नियमित करना चाहिए;
- जिनके शरीर में कंपन होती हो, उन्हें एवं पतले व्यक्तियों को इसके अभ्यास से लाभ मिलता है;
- इसके अभ्यास से बढ़ा हुआ अण्डकोष ठीक हो जाता है।

सावधानियाँ

- घुटने की समस्या वाले व्यक्ति त्रिकोणासन आसन और तिर्यक ताड़ासन को विशेषज्ञ की निगरानी में करें।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।
- इस आसन के दौरान अपनी दृष्टि को सामने की ओर एक बिंदु पर बनाए रखने से अधिक लाभ प्राप्त होगा।

अवलोकन

आसन के प्रभाव का अवलोकन?

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उसके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
मासपेशियों में खिंचाव				
मेरुदंड पर प्रभाव				
शरीर में मजबूती का अहसास				
कमर दर्द या पीठ की मांसपेशियों में आराम का अनुभव				
वजन पर प्रभाव				

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

परिणाम

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

23

टिप्पणियाँ



सूर्यनमस्कार

उद्देश्य

सूर्यनमस्कार के अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप सूर्यनमस्कार को करने तथा इन्हें प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

आसनों को करने की विधि

प्रथम स्थिति : सूर्य के सम्मुख खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा में हाथों को वक्ष स्थल के सामने रखें।

द्वितीय स्थिति : श्वास अंदर भरकर सामने से हाथ खोलते हुए पीछे की ओर ले जाएं। आसमान की ओर देखें। कमर को यथा शक्ति पीछे की ओर झुकाएं।

तृतीय स्थिति : श्वास बाहर निकालकर हाथों को पीछे से सामने की ओर झुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिका दें। प्रयास करें कि हथेलियों को भी भूमि से स्पर्श कराया जा सके और सिर को घुटनों से लगाया जा सके।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

चतुर्थ स्थिति : नीचे की ओर झुकते हुए हाथों की हथेलियों को छाती के दोनों ओर टिकायें। बायां पैर उठाकर पीछे की ओर भुजंग आसन की स्थिति में ले जायें और दायां पैर दोनों हाथों के बीच रहे। घुटना छाती के सामने व पैर की एड़ी जमीन पर टिकी रहे। श्वास अंदर भरकर आकाश की ओर देखें।

पंचम स्थिति : श्वास बाहर निकालकर दाहिने पैर को अब पीछे ले जायें, गर्दन व सिर दोनों हाथों के बीच में रहे। नितम्ब व कमर को उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखें।

षष्ठम स्थिति : हाथों व पैरों के पंजों को स्थिर रखते हुए छाती व घुटनों को भूमि पर स्पर्श करें। दोनों हाथ दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती व सिर ये आठ अंग भूमि पर स्पर्श करते हैं तो यह साष्टांगासन कहलाता है। श्वास-प्रश्वास सामान्य रखें।



चित्र 23.1: सूर्यनमस्कार

सप्तम स्थिति : श्वास अंदर भरकर छाती को ऊपर उठाते हुए आसमान की ओर देखे यह भुजंगासन की स्थिति है।

अष्टम स्थिति : विधि संख्या पंचम की तरह।



टिप्पणियाँ

नवम स्थिति : विधि संख्या चतुर्थ की तरह। लेकिन इसमें बायें पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें।

दशम स्थिति : विधि संख्या तृतीय की तरह।

एकादश स्थिति : विधि संख्या द्वितीय की तरह।

द्वादश स्थिति : विधि संख्या प्रथम की तरह।

सावधानियाँ

- हृदय रोग, साइटिका, स्लीपडिस्क, सर्वाइकल, स्पार्डिलाइटिस व शरीर में अधिक सूजन से पीड़ित लोग तथा मासिक धर्म के दौरान इन आसनों को विशेषज्ञ के परामर्श में करेंगे।
- इन्हें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।

लाभ

- ये आसन हमारी प्राण शक्ति को जगाते हैं।
- इनका प्रत्येक आसन हमारी प्रत्येक अन्तःस्नावी ग्रंथी को प्रभावित करता है।
- सूर्यनमस्कार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है और शरीर को शुद्ध करता है।
- यह किशोरों के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है।
- ये आसन हमारे शरीर की अकड़क को दूर करते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं।
- इनसे पूरे शरीर की मासपेशियों में खिंचाव होता है और मजबूती आती है।
- यह हमारे मेरुदंड के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है।
- यह शारीरिक संतुलन प्रदान करते हैं और इससे व्यक्तित्व में संतुलन बना रहता है।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन:

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
मासपेशियों में खिंचाव मेरुदंड पर प्रभाव शरीर में मजबूती का अहसास कमर दर्द या पीठ की मांसमशियों में आराम का अनुभव श्वसन पर प्रभाव वजन पर प्रभाव मानसपटल पर प्रभाव आंतरिक स्थिरता				

परिणाम

.....
.....

टिप्पणी

.....
.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

24

टिप्पणियाँ



पीछे की ओर झुकने वाले आसन

उद्देश्य

पीछे की ओर झुकने वाले आसनों के अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप इस आसनों को करने तथा इन्हें प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

प्रक्रिया

योग कक्षा की तैयारी: योग कक्षा साफ और हवादार होनी चाहिए और वहां आसपास कोई वस्तु या फर्नीचर नहीं होना चाहिए।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

1. भुजंगासन

विधि

- जमीन पर सीधा लेट जाएँ और अपना मुँह नीचे जमीन की ओर रखें।
- दोनों पाँव मिलाकर रखें और हथेली जमीन पर कंधों के पास रखें।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका



चित्र 24.1: भुजंगासन

- श्वास भरते हुए, हथेली से जमीन पर दबाव डालते हुए, नाभि से ऊपर का भाग को जहां तक संभव हो उठाएं।
- अपनी गर्दन और कमर पीछे की ओर ले जाएं।
- श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आएं।

सावधानियाँ

- हृदयरोग, हर्निया व उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति इन्हें न करें या विशेषज्ञ के परामर्श से करें।
- कमरदर्द में ये लाभदायक होते हैं किन्तु इन्हें विशेषज्ञ के साथ ही करें।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।

लाभ

- यह आसन हमारे शरीर की अकड़क को दूर करता है और हमें ताजगी प्रदान करता है।
- इससे पेट की मासपेशियों में खिंचाव होता है और मजबूती आती है।
- यह हमारे मेरुदंड के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है।
- इसका प्रभाव हमारे मणिपुर चक्र पर पड़ता है और यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
- यह हमारे भय को दूर करता है।
- इससे पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है और इससे पेट की चर्बी कम होती है।



टिप्पणियाँ

2. शलभासन



चित्र 24.2: शलभासन

विधि

- पेट के बल, जमीन पर लेट जाएं और अपना माथा जमीन से लगाएँ।
- दोनों हाथ धड़ के साथ और जंघाओं के नीचे रखें।
- दोनों पाँव मिला लें।
- श्वास भरते हुए धीरे-धीरे दायाँ पाँव उठाएँ और श्वास बाहर निकालते हुए वापस जमीन पर ले आयें।
- इसी प्रकार बाएं पाँव से करें (एकपादशलभासन)
- बाद में यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करें। (द्विपादशलभासन)

लाभ

- यह आसन कमर और मेरुदंड को लचीला बनाता है और छाती चौड़ी होती है।
- इससे भूख बढ़ती है और पेट के कई रोग जैसे गैस, अम्लता, भूख न लगना, अपच, पेट में गड़गड़ाहट होना आदि दूर होते हैं।
- इस आसन के नियमित अभ्यास से नाभि अपनी जगह रहती है।
- इससे पेट, जंघा और पैरों की मांस-पेशियां सशक्त होती हैं।
- इससे जलोदर रोग (Dropsy) ठीक हो जाता है और भगंदर (fistula) रोग में भी लाभ होता है।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

3. धनुरासन



चित्र 24.3: धनुरासन

विधि

- पेट के बल लेट जाएं;
- सिर धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ें;
- धीरे-धीरे अब अपने शरीर को धनुष की आकृति में तानें;
- जितना आसानी से धनुषकार हो सकते हैं, होने का प्रयास करें।

लाभ

- कमर दर्द, सरवाइकल, 'चवदकलसपजपे (स्पॉन्डिलाइट्स) में लाभ मिलता है;
- पेट के रोग दूर होते हैं;
- मोटापा दूर करता है। मेरुदण्ड को सुदृढ़ एवं लचीली बनाता है।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन:

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार 'हाँ' अथवा 'नहीं' लिखिए।

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
पेट की मासपेशियों में खिंचाव मेरुदंड पर प्रभाव शरीर में मजबूती का अहसास कमर दर्द या पीठ की मासपेशियों में आराम का अनुभव बजन पर प्रभाव बहिर्मुखी विचारों का अनुभव				

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

परिणाम

.....
.....

टिप्पणी

.....
.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

25

आगे की ओर झुकने वाले आसन

उद्देश्य

पश्चिमोत्तान आसन को पूरा करने के पश्चात आप इस आसन को करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

पश्चिमोत्तान आसन



चित्र 25.1: पश्चिमोत्तान आसन



टिप्पणियाँ

विधि

- इस आसन के निरंतर अभ्यास से मेरुदंड लचीला होता है;
- रक्त संचार भली-भांति होता है;
- इसके अभ्यास के समय कमर व पिंडलियों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। जिसके शरीर का निचला हिस्सा भारी होता है उन्हें इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए।
- कमर पतली तथा सुडौल होती है;
- यह आसन चर्मरोग व शारीरिक दुर्गन्ध को दूर करता है;
- चेहरा कांतिमान एवं जठराग्नि प्रदीप्त होती है;
- इसके अभ्यास से पेट के कीड़े (कृमि) मर जाते हैं;
- रक्त की शुद्धि होती है।

सावधानियाँ

- स्लीपडिस्क, साइटिका या किसी भी प्रकार के कमरदर्द की समस्या में इन्हें विशेषज्ञ के परामर्श से किया जाना चाहिए।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।

लाभ

- यह आसन हमारे शरीर की अकड़क को दूर करता है और हमें ताजगी प्रदान करता है।
- पीठ को शिथिल करते हैं और अच्छा व स्वस्थ बने रहने में सहयोग करते हैं।
- यह हमारे मेरुदंड के पोषण के लिए उपयोगी है।
- यह हमारे अहम को संतुलित करता है।
- इससे पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है और इससे पेट की चर्बी कम होती है।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
पीठ की मासपेशियों में खिंचाव				
मेरुदंड पर प्रभाव				
शरीर में मजबूती का अनुभव				
कमर दर्द या पीठ की मासपेशियों में आराम का अनुभव				
वजन पर प्रभाव				
विनम्र विचारों का सृजन				

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

26

टिप्पणियाँ



सिर के बल किए जाने वाले आसन

उद्देश्य

सर्वांगासन करने के पश्चात आप इसे करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

सर्वांगासन

विधि

- कमर के बल, फर्श पर सीधा लेट जाएं।
- श्वास भरते हुए धीरे-धीरे दोनों पैर एक साथ उठाएं।
- इसी में धीरे-धीरे कूल्हे और कमर उठाने की भी चेष्टा करें, जब तक कि पाँव बिल्कुल सीधे न हो जाएं।
- कमर दोनों हाथों से पकड़ कर रखें।
- श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे पैर वापस नीचे ले आएं।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका



चित्र 26.1: सर्वांगासन

सावधानियाँ

- इस आसन को करने के पश्चात इनके विपरीत स्थिति वाले आसन अवश्यक करें।
- “लैट कुशन या मैट को फोल्ड करके सिर के नीचे रखें।
- उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमज़ोर आंखों वाले व्यक्ति इन आसनों को न करें।
- जब रक्त की शुद्धता के विषय में संशय हो तो इन आसनों को विशेषज्ञ के परामर्श से करें।
- मासिकधर्म की स्थिति में ये आसन वर्जित हैं।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।

लाभ

- सिर में स्वीच्छ रक्त और प्राण का संचार होता है।
- आंतरिक अंगों का शिथलीकरण (आराम) होता है और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।
- यह हमारे तंत्रिका तंत्र, चेहरे और बालों के लिए लाभदायक है।

प्रायोगिक पुस्तिका

- इस स्थिति में कार्बनडाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिस्पर अधिकतम विनियम होता है।
- श्वसन तंत्र के रोगों के उपचार में उपयोगी है।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन:

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार 'हाँ' अथवा 'नहीं' लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	संप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
सिर में रक्त का संचार				
श्वसन पर प्रभाव				
मेरुदंड पर प्रभाव				
चेतना में ताजगी का अनुभव				
वजन पर प्रभाव				
विनम्र विचारों का सृजन				

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

27

मेरुदंड मोड़कर किए जाने वाले आसन

उद्देश्य

अर्धमत्सेन्द्रासन को पूरा करने के पश्चात आप इस आसन को करने तथा इसे प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

1. अर्धमत्सेन्द्रासन

विधि

- सर्वप्रथम सामने पैर फैलाकर बैठ जाइए। इसके पश्चात बायें पैर को घुटने से मोड़ते हुए दायीं तरफ से लाते हुए नितम्बों के पास स्थित करें;
- फिर दायें पैर को बायें घुटने के ऊपर से लाते हुए घुटने के पास रखें;
- ध्यान रहे कि पंजे घुटने से आगे न जाएं;
- बायें हाथ को कंधों से घुमाते हुए दाएं पैर के ऊपर से इस प्रकार से लायें कि दायें पैर का अंगूठा पकड़ लें;

- फिर दायें हाथ को पीछे से घुमाते हुए नाभि को स्पर्श करने का प्रयत्न करें;
- ठीक इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी करें।



चित्र 27.1: अर्धमत्सेन्द्रासन

सावधानियाँ

- अल्सर, हर्निया, पीठ के गंभीर रोगों वाले व्यक्ति इन आसनों का न करें।
- गर्भावस्था के दौरान इन आसनों को न करें।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।

लाभ

- मेरुदंड की अकड़न दूर होती है।
- स्पाइनल नर्व को स्वस्थ व सक्षम रखने में सहायक हैं।
- यह भावनात्मक या मानसिक स्तर पर गांठों को सुलझाने में सहायक है।
- इनसे आंतरिक अंगों की मालिश होती है और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

2. चक्रासन



चित्र 27.2: चक्रासन

विधि

- जमीन पर पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को नितम्बों के साथ सटाकर जमीन पर रखें।
- फिर दोनों हाथों की दोनों हथेलियों को कंधों के पीछे रखें।
- शरीर का बीच का हिस्सा (कमर को) ऊपर उठा दें।
- शरीर का पूरा भार दोनों हाथों और दोनों पैरों पर समान रूप से पड़ेगा।
- थोड़ी देर इसी स्थिति में रहकर वापस सीधा लेट जाएं।

नोट : शरीर को ऊपर उठाते समय गर्दन को ढीला छोड़ें अन्यथा गर्दन में मोच आने का डर रहेगा। आसन में स्थित होने पर भी गर्दन को ढीला छोड़कर रखें जिससे कि वह नीचे की ओर झूलती रहे।

लाभ

- इस आसन को करने से मनुष्य का यौवन बना रह सकता है।
- इसका सीधा प्रभाव मेरुदंड पर पड़ता है। जिससे शरीर में इतना लचीलापन आता है कि शरीर रबड़ के समान हो जाता है।
- नाभि -मंडल भी स्वतः ही अपने स्थान पर आ जाता है।
- शरीर के अंदर 72864 नाड़ियों में स्थिरता आती है।
- कमर सुंदर तथा आकर्षक बनती है।

नोट : इस आसन का अभ्यास धीरे-धीरे करना चाहिए।



टिप्पणियाँ

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन:

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	संप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
मेरुदंड में रक्त का संचार				
श्वसन पर प्रभाव				
मेरुदंड पर प्रभाव				
चेतना में ताजगी का अनुभव				
वजन पर प्रभाव				
आंतरिक आनन्द का सृजन				

परिणाम

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

28

संतुलन के आसन

उद्देश्य

मयूरासन को पूरा करने के पश्चात आप इस आसन को करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

मयूरासन



चित्र 28.1: मयूरासन



टिप्पणियाँ

विधि

- दोनों एड़ी पंजे मिलाकर दोनों घुटनों को फैलाकर घुटनों को जमीन पर रखते हुए एड़ी पर बैठ जाएं।
- फिर दोनों हाथों के बीच चार अंगुल का अंतर रखते हुए हथेलियों को जमीन पर घुटनों के पास स्थित करें।
- दोनों कोहनियों को आपस में मिलाते हुए नाभि स्थान पर रखें।
- फिर थोड़ा आगे झुकते हुए दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठा दें।

नोट: इस अवस्था में संपूर्ण शरीर का भार पेट पर रहेगा। धीरे धीरे शरीर का संतुलन रखते हुए दोनों पैरों को सीधा करें तथा सामने की ओर देखें।

सावधानियाँ

- जिन्हें वेरिकोस वेन की समस्या है वो इन आसनों को न करें।
- इन आसनों के अभ्यास के दौरान हमारी दृष्टि एक बिंदु पर स्थिर होनी चाहिए।
- इन आसनों को नरम सतह पर नहीं करना चाहिए।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।

लाभ

- इस आसन के निरंतर अभ्यास से अपच, कब्ज व वायु विकार की शिकायत दूर हो जाती है।
- पेट के आंतरिक अवयवों की अच्छी मसाज हो जाती है।
- भूख तेज हो जाती है।
- अधिक गरिष्ठ अन्न को भी आसानी से पचा लेने की क्षमता आ जाती है।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
एकाग्रता का अनुभव				
श्वसन पर प्रभाव				
मेरुदंड पर प्रभाव				
चेतना में ताजगी का अनुभव				
व्यक्तित्व में स्थिरता				
आंतरिक आनन्द का सृजन				

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

29



टिप्पणियाँ

उच्च आसन समूह

उद्देश्य

कुकुटासन को पूरा करने के पश्चात आप इसे करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

कुकुटासन

विधि

- सर्वप्रथम पद्मासन लगा लें। तत्पश्चात दोनों हाथों को जंघाओं और दोनों पांव की पिंडलियों के बीच से इतना बाहर निकाल लें कि कोहनी का हिस्सा बाहर आ जाए।
- दोनों हाथों को जमीन पर लगा दें और हाथों के बल, सारे शरीर को उठा लें। यथासंभव अभ्यास करें।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका



चित्र 29.1: कुक्कुटासन

सावधानियाँ

- इस आसनों को करने के पूर्व मध्यम वर्गीय आसन समूह का अभ्यास होना चाहिए।
- विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करें।
- आसन को लगाने में और वापस आने में जल्दबाजी न करें।
- अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।
- यह आसन को एक स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही कर सकता है।

लाभ

- इसका शारीरिक लाभ के अतिरिक्त भावात्मक और आध्यात्मिक लाभ भी होता है।
- यह हमारी एकाग्रता और स्मरणशक्ति को बढ़ाता है और हमारी चेतना का विस्तार करता है।
- यह हमें मजबूती प्रदान करता है।

अवलोकन

आसन के प्रभाव का अवलोकन:

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त आसन कीजिए और उसके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रभाव	सप्ताह 1	संप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
एकाग्रता का अनुभव				
श्वसन पर प्रभाव				
मेरुदंड पर प्रभाव				
चेतना में ताजगी का अनुभव				
आतंरिक सजगता का अनुभव				
चक्रों पर प्रभाव				

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

परिणाम

.....
.....

टिप्पणी

.....
.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

30

प्राणायाम के पूर्व किए जाने वाले अभ्यास

उद्देश्य

प्राणायाम के पूर्व किए जाने वाले अभ्यास को करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन आदि।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

अभ्यास को करने की विधि

- किसी भी ध्यान वाले आसन यथा सुखासन, पदमासन, सिद्धासन में बैठें।
- धीरे-धीरे सुखपूर्वक दोनों नासिका से समान रूप से श्वास लें।
- श्वास लेने के साथ-साथ पेट को धीरे-धीरे फुलाते जाएं।
- पेट फुलाकर मन में 06 तक गिनती गिनने तक, श्वास अंदर रोके रखें।
- अब धीरे-धीरे समान-भाव से श्वास छोड़ते जाएं तथा पेट को सिकोड़ते जायें।
- यदि आप चाहें तो श्वास को 06 गिनती गिनने तक बाहर भी रोक सकते हैं।
- इसी क्रम को तीन मिनट से पांच मिनट तक सरलतापूर्वक कीजिए।



टिप्पणियाँ

सावधानियाँ

- अभ्यास में जल्दबाजी न करें।
- अगर अभ्यास के दौरान किसी प्रकार की पीड़ा या बेचैनी का अनुभव हो तो अभ्यास बंद कर दें।

लाभ

- यह हमें प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार करता है।
- हमारे शरीर को आराम की स्थिति में लाकर मन को शांत करता है।
- श्वसन तंत्र को शिथिल करता है।
- हमारे श्वास-प्रश्वास के लिए लाभदायक है।

अवलोकन

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त अभ्यास कीजिए और प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	संप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
एकाग्रता का अनुभव				
श्वसन पर प्रभाव				
शारीरिक शिथिलता का अनुभव				
चेतना पर अनुभव				
आंतरिक सजगता का अनुभव				

परिणाम

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

31

नाड़ी-शोधन प्राणायाम

उद्देश्य

नाड़ी-शोधन प्राणायाम को पूरा करने के पश्चात आप इसको करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन आदि।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

नाड़ी शोधन प्राणायाम



चित्र 31.1: नाड़ी शोधन प्राणायाम



टिप्पणियाँ

स्थिति

- पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं;
- मेरुदण्ड को सीधा करें;
- आँखें कोमलता से बंद करें;
- बायां हाथ बायें घुटने पर रखें;
- दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली बायें नासिका रन्ध्र पर तथा अगूठा दाहिने नासिका रन्ध्र पर रखें।

अभ्यास को करने की विधि

- बायें नासिका रन्ध्र से 08 गिनती तक मन में गिनते हुए श्वास भरें।
- मन में 32 गिनती गिनने तक श्वास अंदर रोकें।
- बायें नासिका रन्ध्र को बंद करें और दायें नासिका रन्ध्र से 16 गिनती मन में गिनते हुए तक श्वास बाहर छोड़ें।
- अब दाहिनी नासिका रन्ध्र से 08 गिनने तक श्वास लें।
- फिर 32 गिनती गिनने तक श्वास अंदर रोकें। इसे अन्तः कुम्भक कहते हैं।
- अब बायें नासिका रन्ध्र से 16 गिनती गिनने तक श्वास छोड़ें।

सावधानियाँ

- हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मिर्गी की समस्या वाले लोग कुम्भक के साथ अभ्यास न करें।
- अभ्यास में जल्दबाजी न करें।
- अगर अभ्यास के दौरान किसी प्रकार की पीड़ा या बेचैनी का अनुभव हो तो अभ्यास बंद कर दें।
- श्वास लेने व छोड़ने के लिए जोर न लगाएं।

लाभ

- यह आपके श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है।
- हाइपरटेंशन, पार्किन्सन, मधुमेय, अस्थमा आदि रोगों के उपचार में लाभदायक है।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- यह मानसिक थकान को दूर करता है।
- शरीर में प्राण के संचार में सहायक होता है।
- नाड़ियों को शुद्ध करता है।

अवलोकन

आसनों के प्रभाव का अवलोकन:

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त प्राणायाम कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
एकाग्रता का अनुभव				
श्वसन पर प्रभाव				
शारीरिक शिथिलता का अनुभव				
चेतना पर प्रभाव				
आंतरिक सजगता का अनुभव				

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

32

टिप्पणियाँ



शीतली प्राणायाम

उद्देश्य

इस शीतली प्राणायाम को पूरा करने के पश्चात आप इसको करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन आदि।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

स्थिति

- पद्मासन या सुखासन में बैठें;
- पीठ सीधा रखते हुए शरीर को ढीला रखें;
- जिह्वा को बाहर निकालकर नाली की तरह बना लें;
- खड़े होकर भी कर सकते हैं।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका



चित्र 32.1: शीतली प्राणायाम

विधि

- शीतकार (सीईईई) की आवाज़ करते हुए नली से वायु को अंदर खींचें।
- जब तक सुखपूर्वक श्वास को रोक सकें, रोके रखें।
- अब दोनों नासिका रन्ध्रों से धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकालें।
- प्रतिदिन 15-30 बार इसका अभ्यास करें।

सावधानियाँ

- अभ्यास निम्न रक्तचाप, श्वसन संबंधी रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या वाले लोगों को नहीं करना चाहिए।
- अभ्यास करने में जल्दाबाजी न करें।
- अगर अभ्यास के दौरान किसी प्रकार की पीड़ा या बेचैनी का अनुभव हो तो अभ्यास बंद कर दें।
- इसे शीतऋतु में न करें।

लाभ

- यह हमारे शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है और ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत लाभदायक है।

प्रायोगिक पुस्तिका

- यह रक्तचाप और उदर अम्लता को कम करने में सहायक है।
- शरीर में प्राण के संचार में सहायक होता है।
- यह हमारे मानसिक और भावनात्मक उत्तेजनाओं को शांत करता है।

अवलोकन

प्राणायाम के प्रभाव का अवलोकन:

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त प्राणायाम कीजिए और उसके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	संप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
एकाग्रता का अनुभव				
श्वसन पर प्रभाव				
शारीरिक शीतलता का अनुभव				
चेतना पर प्रभाव				
आंतरिक सजगता का अनुभव				

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

33

भ्रामरी प्राणायाम

उद्देश्य

इस भ्रामरी प्राणायाम को पूरा करने के पश्चात आप इसे करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

प्रक्रिया

योग कक्षा की तैयारी: योग कक्षा साफ और हवादार होनी चाहिए।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

भ्रामरी प्राणायाम

स्थिति

- पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन में बैठें;
- मेरुदण्ड सीधा रखें;

- आँखें कोमलता से बंद रखें;
- दोनों हाथों की तर्जनी से दोनों कान बंद कर लें।



चित्र 33.1: भ्रामरी प्राणायाम

अभ्यास को करने की विधि

- दोनों नासिका रन्ध्रों से लंबा-गहरा पूरक करें।
- कान बंद रखते हुए श्वास छोड़ते जाएँ और भौंरे जैसा गुंजन ध्वनि करते जाएँ।
- पुनः श्वास भरें और गुंजन करें। इस क्रम को 5, 10, 15 बार तक कर सकते हैं।
- अंत में दोनों नासिकारन्ध्रों से पूरक करें, यथाशक्ति अन्तःकुम्भक करें तथा धीरे-धीरे रेचक करें।

सावधानियाँ

- जिन्हें कान का संक्रमण हो, वे भ्रामरी प्राणायाम न करें।
- जो अंतःमुखी स्वभाव के हैं वे उज्जयी प्राणायाम न करें।
- इस प्राणायाम को करने में जल्दबाजी न करें।
- अगर अभ्यास के दौरान किसी प्रकार की पीड़ा या बेचैनी का अनुभव हो तो अभ्यास बंद कर दें।



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

लाभ

- जिन्हें नींद न आने की समस्या है उनके लिए यह प्राणायाम लाभकारी है।
- यह हमारे शरीर को शिथिल और मन को शांत करता है।
- यह कान, नाक, गले की बीमारियों में लाभदायक है।
- यह उच्च रक्तचाप और उदर अम्लता को कम करने में सहायक है।

अवलोकन

प्राणायाम के प्रभाव का अवलोकन

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त प्राणायाम कीजिए और उसके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
एकाग्रता का अनुभव				
श्वसन पर प्रभाव				
शारीरिक शिथिलता का अनुभव				
चेतना पर प्रभाव				
आंतरिक सजगता का अनुभव				
मानसपटल पर प्रभाव				

परिणाम

.....
.....

टिप्पणी

.....
.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

34

टिप्पणियाँ



भस्त्रिका प्राणायाम

उद्देश्य

भस्त्रिका प्राणायाम को पूरा करने के पश्चात आप इसे करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन आदि।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

भस्त्रिका प्राणायाम



चित्र 33.1: भस्त्रिका प्राणायाम

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

स्थिति

- पद्मासन में बैठ जाएं;
- सिर, ग्रीवा तथा शरीर को एक सीध में रखें;
- मुङ्ह को बंद कर लें।

अभ्यास को करने की विधि

- लोहार की धौकनी के समान नासिका से 10-15 बार जल्दी-जल्दी श्वास लें तथा छोड़ें।
- श्वास छोड़ने के साथ-साथ पेट को अंदर सिकोड़ते रहें।
- अभ्यास के समय फुफकारने की सी ध्वनि करें।
- श्वास लेने व छोड़ने के क्रम को तीव्र बनायें रखें।
- तीव्रगति से लेना-छोड़ना करते-करते अंतिम रेचक के बाद यथाशक्ति लंबा-गहरा श्वास लें।
- सुखपूर्वक श्वास छोड़ें। यह एक आवृत्ति भस्त्रिका है। इसी क्रम को तीन आवृत्ति तक कर सकते हैं।

सावधानियाँ

- हृदय रोग, उच्च रक्तचाप उच्च अम्लता, हर्निया, अलसर जैसी समस्याओं में इसका अभ्यास न करें।
- अभ्यास के दौरान यदि चक्कर, अधिक पसीना आए तो इसका तात्पर्य है कि अभ्यास सही ढंग से नहीं हो रहा है और अभ्यास बंद कर देना चाहिए।
- अधिक तापमान की स्थिति में इसे न करें।
- अभ्यास के दौरान चेहरे की पेशियों को शिथिल बनाए रखें।
- इसे करने में जल्दबाजी न करें।
- इसे अपनी क्षमता के अनुसार करें।

लाभ

- यह हमारे शरीर के विषाक्त तत्वों को जला देता है।
- पेट की चर्बी को कम करता है।

प्रायोगिक पुस्तिका

- कफ रोग के उपचार में सहायक है।
- चयापचय की क्रिया को सुचारू बनाता है।
- दमा व फैफड़े के रोगी के लिए लाभदायक है।

अवलोकन

प्राणायाम के प्रभाव का अवलोकन

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त प्राणायाम कीजिए और उसके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	संप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
ऊर्जा के स्तर में वृद्धि				
श्वसन पर प्रभाव				
पाचन तंत्र पर प्रभाव				
मनशक्ति पर प्रभाव				
मानसपटल पर प्रभाव				

परिणाम

टिप्पणी

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

35

मुद्रा (हस्तमुद्रा)

उद्देश्य

मुख्य हस्त मुद्राओं के अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप हस्त मुद्रा लगाने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

अभ्यास को करने की विधि

मुद्रा

- किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें।
- अपनी श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करें।
- मन शांत रखें।



टिप्पणियाँ

1. ज्ञान मुद्रा

- अब ज्ञान मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी अंगूली के अग्रभाग को आपस में मिला लें।
- इस प्रकार कुछ समय बैठें।



ज्ञान मुद्रा

2. वायु मुद्रा : तर्जनी अंगूली को अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से दबाएं। इस प्रकार कुछ समय बैठें।

लाभ : इस मुद्रा से सभी प्रकार के वायु रोग, गठिया, कम्पन, लकवा, वायुशूल एवं रेंगने वाला दर्द निश्चय ही ठीक होते हैं।



वायु मुद्रा

3. सूर्य मुद्रा : अनामिका को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से दबाएं। इस प्रकार कुछ समय बैठें।

लाभ : मोटापा, भारीपन दूर करता है।

नोट : अनामिका और अंगुष्ठ दोनों ही तेज का विशेष विद्युत प्रवाह करते हैं। यौगिक दृष्टि से ललाट पर द्विदल कमल का आज्ञाचक्र स्थित है। उस पर अनामिका और अंगुष्ठ से एक विशेष विधि और भावना द्वारा तिलक करके कोई भी स्त्री अथवा पुरुष अपनी अदृश्य शक्ति को दूसरे में पहुँचकर उसकी शक्ति द्विगुणित कर सकता है।



सूर्य मुद्रा

4. लिंग मुद्रा : दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर फंसाकर बायें हाथ के अंगूठे को सीधा रखें। इस प्रकार कुछ समय बैठें।

लाभ : सर्दी के रोग नजला जुकाम आदि दूर होते हैं।



लिंग मुद्रा

5. पृथ्वी मुद्रा : अनामिका और अंगुष्ठ के अग्र भाग को मिलायें। इस प्रकार कुछ समय बैठें।

लाभ : दुबले पतले व्यक्ति के लिए एवं कान्ति और तेज की कमी में लाभ देता है। संकुचित विचारों में परिवर्तन होता है।



पृथ्वी मुद्रा

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

6. **प्राण मुद्रा :** कनिष्ठ एवं अनामिका दोनों को मोड़कर अंगूठा से स्पर्श करें। इस प्रकार कुछ समय बैठें।

लाभ : शरीर शारीरिक-मानसिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी बीमारी आक्रमण नहीं कर सकती। रक्त संचार उन्नत होकर रक्त नलिकाओं की रुकावट को दूर करता है। तन-मन में स्फूर्ति, आशा एवं उत्साह प्रदान करता है। नेत्र दोष दूर होते हैं।



प्राण मुद्रा

7. **अपान मुद्रा:** मध्यमा एवं अनामिका को एक साथ मिला कर एवं मोड़कर अंगूठा से स्पर्श करें। इस प्रकार कुछ समय बैठें।

लाभ : उदर की वायु को कम कर वहां के दर्द एवं अन्य उपद्रव को दूर करता है।



अपान मुद्रा

8. **शून्य मुद्रा :** मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगूठा से दबायें। इस प्रकार कुछ समय बैठें।

लाभ : कान के दर्द में लाभ मिलता है। निरन्तर अभ्यास से कान के रोग से बचाव, बहरा है तो सुनाई देगा। (जन्म से गूंगा-बहरा है तो असर नहीं होगा)।



शून्य मुद्रा

9. **हृदय मुद्रा :** तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगुठे की गद्दी पर लगा दे और तब छोटी अंगुली को छोड़कर बाकी दोनों अंगुलियों को अंगूठा से छुवा दें। इस प्रकार कुछ समय बैठें।

लाभ : यह मुद्रा दिल का दौरा रोकने में इन्जेक्शन की भाँति काम करती है। नियमित अभ्यास से हृदय रोग ठीक हो सकता है।



हृदय मुद्रा

10. **वरुण मुद्रा :** सबसे छोटी अंगुली को अंगुष्ठ के अग्र भाग से मिलाएं। इस प्रकार कुछ समय बैठें।

लाभ : इसके अभ्यास से शरीर में जल तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाले सभी रोग दूर हो जाते हैं। त्वचा एवं रक्त विकास दूर होते हैं।



वरुण मुद्रा



टिप्पणियाँ

सावधानियाँ

- मुद्राओं के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है।
- नेत्रों को बंद रखें।
- इन्हें करने में जल्दबाजी न करें।

अवलोकन

मुद्राओं के प्रभाव का अवलोकन

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त मुद्राओं में से दो-दो मुद्राएं कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	संप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
ऊर्जा के स्तर में वृद्धि				
श्वसन पर प्रभाव				
आंतरिक सजगता में वृद्धि				
मनशक्ति पर प्रभाव				
मानसपटल पर प्रभाव				

परिणाम

.....
.....

टिप्पणी

.....
.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

36

मुद्रा : विपरीत करणी मुद्रा

उद्देश्य

विपरीत करणी मुद्रा को करने के पश्चात आप कायामुद्रा इसे करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।



चित्र 36.1: विपरीत करणी मुद्रा



टिप्पणियाँ

अभ्यास करने की विधि

सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। पैर सीधे एवं मिले हुए रहेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को बगल में रखेंगे। शरीर शिथिल छोड़ देंगे। फिर श्वास भरते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़े बिना एक साथ ऊपर उठायेंगे। फिर नितम्बों को ऊपर उठायेंगे। कमर से थोड़ा मुड़े हुए पैरों को सिर की ओर झुकाएं रहेंगे। पैरों को आंखों की सीध में रहेंगे। कुम्भक लगाकर रखेंगे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य अवस्था में आयेंगे।

सावधानियाँ

- घुटने की समस्या वाले व्यक्ति इन आसनों को न करें या विशेषज्ञ की निगरानी में करें।
- इन्हें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।
- साइटिका व स्लीपिडिस्क वाले व्यक्ति इस आसन को न करें।
- कब्ज या अस्वस्थ होने की स्थिति में तब इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए।

लाभ

- यह अभ्यास वृद्धावस्था को दूर करता है।
- पाचन संस्थान को दुरुस्त करता है।
- थायराइड की क्रियाशीलता में संतुलन आता है।
- मस्तिष्क में रक्त संचार ठीक प्रकार से होने लगता है।
- यह शरीर को विपरीत करने का अभ्यास है।
- उच्च रक्तचाप, हृदय रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए।

अवलोकन

मुद्रा के प्रभाव का अवलोकन :

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त मुद्रा कीजिए और उनके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणीयाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
मानसपटल पर प्रभाव				
मेरुदंड पर प्रभाव				
अपने पैरों और उदर पेशियों पर प्रभाव				

परिणाम

.....
.....

टिप्पणी

.....
.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

37



टिप्पणियाँ

उड्डियन बंध

उद्देश्य

उड्डियन बंध के अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप इसको करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।


उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन आदि।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

उड्डियन बंध



चित्र 37.1: उड्डियन बंध

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

अभ्यास करने की विधि

किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन आदि में सिर व मेरुदंड सीधा करके बैठते हैं। हथेलियाँ घुटने के ऊपर रखते हैं। आंखें बंद कर पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। नासिका से धीरे-धीरे गहरी श्वास लेकर फिर श्वास को छोड़ते हैं। फेफड़ों को संपूर्ण रूप से खाली करने का प्रयास करते हैं। श्वास को बाहर रोककर अर्थात् बिना श्वास लिए ही हाथ सीधे करके कंधों को ऊपर उठाते हैं साथ ही जालन्धर बन्ध लगाते हैं। पेट की मांसपेशियों को संकुचित करके नाभि को भीतर ऊपर की ओर उठाते हैं। इस स्थिति में जब तक सहजता अनुभव करें तब तक रहते हैं। फिर इसके बाद पेट की मांसपेशियों को ढीलाकर, कोहनियों से मोड़ते हैं। कंधों को सामान्य करके जालन्धर बंध खोलते हैं, फिर धीरे-धीरे श्वास लेते हैं। श्वास-प्रश्वास को सामान्य करते हैं। जब श्वास-प्रश्वास सामान्य हो जाए तो इस प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं।

सावधानियाँ

- उच्च रक्तचाप, हृदयरोग की शिकायत होने पर इसे विशेषज्ञ के परामर्श से करें।
- मुद्राओं के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है।
- नेत्रों को बंद रखें।
- इन्हें करने में जल्दबाजी न करें।
- इन्हें अपनी क्षमता के अनुसार करें।
- इन्हें करते समय श्वास में जोर न लगाएं।

लाभ

- इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है।
- यह जैविक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
- इससे उदर के अवसाद दूर होते हैं।
- उद्धियान बंध पेट के रोगों को दूर करता है।
- ये ध्यान को अधिक प्रभावशाली बनाता है।
- यह अंतःस्नावी तंत्र को नियंत्रित करता है।
- यह हमारे चक्रों को जागृत करने में सहायक है।



टिप्पणियाँ

अवलोकन

उड़िडयान बंध के प्रभाव का अवलोकन :

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त बंध कीजिए और उसके प्रभाव का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
ऊर्जा के स्तर में वृद्धि				
श्वसन पर प्रभाव				
आंतरिक सजगता में वृद्धि				
मानसपटल पर प्रभाव				
आध्यात्मिक चेतना का अनुभव				

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

38

मंत्रोच्चारण

उद्देश्य

मंत्रोच्चारण अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप मंत्र जाप करने तथा प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार), कुशन आदि।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

अभ्यास करने की विधि

प्रथम अभ्यास

इस अवस्था में अपनी एकाग्रता को बाहरी जगत से खींचकर मन के कार्यकलापों पर केन्द्रित किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा मन क्या सोचता है तथा अवचेतन में से उठने वाले विचारों तथा दृश्यों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया कैसी है? इसके अभ्यास से भय तथा तनाव दूर होते हैं। हम भूतकाल के अनुभवों से मुक्त हो जाते हैं तथा दमित इच्छाओं के विस्फोट को देखते हैं। इस अभ्यास को तब तक करना चाहिए जब तक आपका मन पर्याप्त रूप से शांत तथा परेशानियों से मुक्त नहीं हो जाता।



टिप्पणियाँ



चित्र 38.1: मंत्रोच्चारण

द्वितीय अभ्यास

इस अवस्था में मन में अपने आप उठने वाले विचारों को देखते हैं। जो विचार अधिक शक्तिशाली होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और फिर उन्हें हटा दिया जाता है। इस अभ्यास में व्यक्ति को स्वतः: उठने वाली विचार तरंगों की प्रक्रिया के प्रति सजग रहना चाहिए। स्वेच्छापूर्वक महत्वपूर्ण विचारों को सामने लाकर देखना तथा हटाना चाहिए। यदि आप इस अभ्यास को सफलतापूर्वक कर लेंगे तो आपका मन अवचेतन की अतल गहराइयों में उतरने में सक्षम होगा।

तृतीय अभ्यास

इस अभ्यास में मन पर्याप्त रूप से शांत होना चाहिए। विचार तो इस अवस्था में भी उठेंगे परन्तु वे इतने सशक्त नहीं होंगे कि आपके भीतर भावनात्मक उथल-पुथल उत्पन्न कर सकें। इस अवस्था में उठने वाले विचारों को दबाना उचित नहीं है। इस अभ्यास से आपका मन निर्विचार तथा प्रत्याहार की अवस्था में पहुँच सकता है।

चतुर्थ अभ्यास

अन्तमौन का अभ्यास पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन अथवा शवासन में किया जाता है। इसे आराम से कुर्सी पर बैठकर या लेटकर भी कर सकते हैं। अन्तमौन के प्रारंभिक अभ्यास कहीं भी और कभी भी किए जा सकते हैं। अरुचिकर वातावरण में तथा कोलाहल के बीच मन को शान्त तथा स्थिर रखने के लिए अन्तमौन का अभ्यास किया जा सकता है।

सावधानियाँ

- शारीरिक स्थिरता कायम रखें।
- आंखें बंद रहेंगी।
- अभ्यास व्यवधान रहित होना चाहिए।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

लाभ

- इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं।
- यह जैविक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
- इससे मानसिक अवसाद दूर होते हैं।
- ये ध्यान को अधिक प्रभावशाली बनाता है।
- यह हमारे चक्रों को जागृत करने में सहायक है।
- इसमें उच्च स्तरीय चेतना का अनुभव प्राप्त होता है।

अवलोकन

मंत्रोच्चारण के प्रभावों का अवलोकन :

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त मंत्रोच्चारण कीजिए और उनके प्रभावों का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
श्वसन पर प्रभाव				
मन पर प्रभाव				
आंतरिक सजगता में वृद्धि				
आध्यात्मिक चेतना का अनुभव				

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

39

टिप्पणियाँ



योगनिद्रा

उद्देश्य

योगनिद्रा अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप स्वयं योगनिद्रा करने और दूसरों को कराने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार) तथा ओढ़ने के लिए पतला चादर आदि।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

अभ्यास करने की विधि

1. शवासन में गहरी श्वास लीजिए व उसके साथ-साथ पूरे शरीर में शान्ति का अनुभव कीजिए। श्वास छोड़ते समय शरीर में शिथिलता का अनुभव कीजिए।
2. जैसे-जैसे शरीर के अलग-अलग अंगों का नाम लिया जाए, अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों पर घुमाइये। ध्यान रहे कि शरीर में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता या तनाव ना हो।
3. अपने ध्यान को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाइए, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवीं, पंजा, तलुआ, एढ़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ आदि अंगों पर क्रम से चेतना को घुमाइए।

विषय – 4

प्रायोगिक पुस्तिका

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ



चित्र 39.1: योगनिद्रा

4. इसी प्रकार बायें पैर के साथ कीजिए। इसके बाद दायें हाथ तथा बायें हाथ के हिस्सों पर भी अपनी चेतना को ले जाइए।
5. हाथ-पैर के बाद अपनी चेतना को धड़ के हिस्सों पर ले जाइए तथा इसके बाद संपूर्ण मुख मंडल पर चेतना को घुमाइए। इसे देह दर्शन अथवा न्यास की क्रिया भी कहते हैं।
6. शरीर दर्शन के उपरांत अपने प्राण प्रवाह को रग-रग में अनुभव कीजिए तथा शरीर के कमजोर व रोगग्रस्त हिस्सों पर प्राण प्रवाह के स्पन्दन को अनुभव कीजिए तथा मन को सुझाव दीजिए कि रूग्ण अंग स्वस्थ हो रहा है।
7. इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों पर एक से अधिक बार चेतना को घुमाइये, इससे शरीर को अधिक से अधिक विश्राम तथा शिथिलता मिलेगी।
8. मानसिक रूप से श्वास के प्रति सचेत रहिए। उसे उल्टी गिनती में 54 से 0 (शून्य) तक गणना कीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं श्वास ले रहा हूँ। 54 मैं जानता हूँ कि मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। 53 इस प्रकार 54 से 0 तक गणना कीजिए। यदि बीच में श्वास गिनने में भूल हो जाये तो पुनः 54 से ही गिनती प्रारंभ कीजिए। सोइये नहीं गणना जारी रखिए।
9. अपनी मन की आँखों से प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखिए। जैसे आप ऊँचे पर्वत, गिरते हुए झरने को देखते हैं। समुद्र में उठने वाली लहरों को देखते हैं। प्रातःकाल में उगते हुए सूरज को देखें। किसी दिव्य मंदिर के दर्शन कीजिए। आप जिस पूजा विधान को मानते हैं उसके रमणीय स्थल तथा होने वाली प्रार्थना में मानसिक रूप से सम्मिलित हो जाइए। आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद में नमाज के दृश्य को देखिए। आप सिख हैं तो गुरुद्वारे में अपनी अरदास कीजिए। ईसाई हैं तो चर्च में प्रार्थना कीजिए। आप जो दृश्य स्वीकार करते हैं उसमें भावनात्मक रूप से सम्मिलित रहिए।



10. इन सब दृश्यों में से गुजरते हुए आप पुनः शावासन में पड़े हुए अपने शरीर को देखिए। तीव्रता से शरीर के अंगों में पुनः क्रम से अपनी चेतना को घुमाइये। अब फिर से अपने शरीर में प्राण प्रवाह का अनुभव कीजिए और संपूर्ण शरीर को चैतन्य कर लीजिए।
11. अब आप अनुभव कीजिए कि आपका शरीर फूल के समान हल्का हो चुका है। मेरे चारों ओर सुगन्धि फैली हुई है। मैं अब दिव्य तरंगों से अभिभूत हो चुका हूँ। मैं पूर्ण शान्त हूँ। मैं आनन्दित हूँ।

अब अंत में दाहिने करवट जाइए और उठकर बैठ जाइए। अभी आँखें नहीं खोलेंगी। पीठ सीधा रखते हुए हाथ जोड़कर अपने ईष्ट की प्रार्थना कीजिए और अपने को नई चेतना के साथ शुभ कर्मों के लिए तैयार रखिए।

1. योग निद्रा के अभ्यास को किसी सक्षम योग शिक्षक के निर्देशन में ही करना चाहिए।
2. योग निद्रा का अभ्यास करते समय लगातार सजग रहना चाहिए।
3. सोना नहीं चाहिए।

सावधानियाँ

- झटके से ना उठें।
- शारीरिक स्थिरता बनाए रखें।
- आँखें बंद रखें।
- अभ्यास के दौरान कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

लाभ

- इससे शारीरिक मानसिक और भावनात्मक तनाव दूर होते हैं।
- इससे शरीर को पूर्ण आराम मिलता है और सभी आंतरिक प्रणालियों पर नियंत्रण होता है।
- योगनिद्रा के अभ्यास से क्रियात्मक क्षमताओं में वृद्धि होती है।
- इस अभ्यास से हम अपनी बुरी आदतों को और अन्य किसी प्रकार के भय को दूर कर सकते हैं।
- यह हमें धारणा और ध्यान के लिए तैयार करता है।
- यह हमारे चक्रों को जागृत करने में सहायक है।
- इसमें उच्च स्तरीय चेतना का अनुभव प्राप्त होता है।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

अवलोकन

योग निंद्रा के प्रभाव का अवलोकन :

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त अभ्यास कीजिए और उसके प्रभावों का अवलोकन कीजिए;
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
शरीर में प्रभाव				
श्वसन पर प्रभाव				
मानसिक शांति और स्थिरता				
आंतरिक सजगता में प्रभाव				
मानस पटल पर प्रभाव				
आध्यात्मिक चेतना का अनुभव				
हमारे शरीर और मन में सकारात्मक प्रभाव				

परिणाम

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

40



टिप्पणियाँ

धारणा अभ्यास

उद्देश्य

धारणा अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप स्वयं धारणा अभ्यास करने और दूसरों को कराने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार)।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

अभ्यास को करने की विधि

- किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें।
- अपनी इवास को नियंत्रित करें।
- मन को शांत रखें।
- अब मन में किसी विषय को धारण करने का संकल्प करें।
- कुछ समय तक उस विषय पर एकाग्र रहें।

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

सावधानियाँ

- झटके से ना उठें।
- शारीरिक स्थिरता बनाए रखें।
- आँखें बंद रखें।
- अभ्यास के दौरान कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

लाभ

- इससे शारीरिक मानसिक और भावनात्मक तनाव दूर होते हैं।
- यह शारीर को पूर्ण आराम की स्थिति में ले जाता है और सभी आंतरिक प्रणालियों को नियंत्रित करता है।
- यह हमें ध्यान के लिए तैयार करता है।
- यह हमारे चक्रों को जागृत करने में सहायक है।
- इसमें उच्च स्तरीय चेतना का अनुभव प्राप्त हो सकता है।
- यह मानसिक उत्सर्जन में सहायक है।

अवलोकन

धारणा के प्रभाव का अवलोकन

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त धारणा का अभ्यास कीजिए और उसके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
श्वसन पर प्रभाव				
मानसिक शांति और स्थिरता				
आंतरिक सजगता में वृद्धि				
मानस पटल पर प्रभाव				
आध्यात्मिक चेतना का अनुभव				
हमारे शरीर और मन में सकारात्मकता का प्रभाव				

परिणाम

टिप्पणी

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

41

ध्यान साधना

उद्देश्य

अजपा-जप अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप स्वयं ध्यान लगाने में सक्षम होंगे।

उपकरण/आवश्यक सामग्री

योग मैट (अभ्यासियों की संख्या के अनुसार)।

अभ्यासियों की तैयारी

- आरामदायक ढीले, हल्के, सूती कपड़े पहनिए।
- अभ्यास प्रारम्भ करने से पहले पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट सभी आभूषण आदि सामान निकालकर रख दीजिए।

अभ्यास को करने की विधि

अजपा-जप

अजपा-जप के अभ्यास की प्रारम्भिक अवस्था में श्वास को कंठ और नाभि के बीच देखते हैं। साधक प्राण शक्ति का प्रवाह मूल स्थान से भृकुटि (बिंदी का स्थान) तथा भृकुटि से मूल स्थान के बीच अनुभव करता है। उच्च अभ्यास में श्वास सामान्य से कुछ अधिक लंबी तथा धीमी रहती है। अजपा-जप में प्राण प्रवाह के साथ कोई मंत्र भी प्रयुक्त हो सकता है। कुछ ‘सोंह’ तथा कुछ ‘ऊँ’ नाद के रूप में सुनते हैं। किसी और मंत्र के रूप में भी इसे सुनते हैं। वास्तव में कोई भी मंत्र अजपा साधना में लिया जा सकता है। परन्तु ‘सोंह’ का व्यापक रूप से प्रयोग होता है, क्योंकि श्वास-प्रश्वास की ध्वनि का लय इससे मिलता-जुलता है। इसमें मंत्र को श्वास के साथ लयबद्ध किया जाता है। जब आप श्वास लेते हैं तो उसकी ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनिये। यह ‘सों’ जैसी होती है और श्वास छोड़ते समय जो ध्वनि होती है वह ‘हं’ जैसी लय में प्रतीत



टिप्पणियाँ

सावधानियाँ

- झटके से ना उठें।
- शारीरिक स्थिरता बनाए रखें।
- आंखें बंद रखें।
- अभ्यास के दौरान कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

लाभ

- इससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव दूर होते हैं।
- यह शरीर को पूर्ण आगम की स्थिति में ले जाता है और सभी आंतरिक प्रणालियों को नियंत्रित करता है।
- यह हमारे चक्रों को जागृत करने में सहायक है।
- यह मानसिक उत्सर्जन में सहायक है।
- इसमें उच्च स्तरीय चेतना का अनुभव प्राप्त होता है।

अवलोकन

ध्यान के प्रभाव का अवलोकन :

- 4 सप्ताह तक उपर्युक्त अजपा-जप कीजिए और उसके प्रभाव का अवलोकन कीजिए।
- प्रभावों के अनुसार ‘हाँ’ अथवा ‘नहीं’ लिखिए।

प्रभाव	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4
श्वसन पर प्रभाव				
मानसिक शांति और स्थिरता				
आंतरिक सजगता में वृद्धि				
मानस पटल पर प्रभाव				
आध्यात्मिक चेतना का अनुभव				
हमारे शरीर और मन में सकारात्मकता का प्रभाव				
इष्ट दर्शन				

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

परिणाम

.....

.....

.....

टिप्पणी

.....

.....

.....

(प्रशिक्षक के हस्ताक्षर)



टिप्पणियाँ

आवश्यक निर्देश

प्रायोगिक परीक्षा के दौरान नीचे दी जा रही सूची से चार स्पॉट परीक्षार्थी को पहचानने और संक्षिप्त टिप्पणी (लगभग 4–5 वाक्य) लिखने के लिए दिये जाएंगे :

1. श्रीमद्भगवद्गीता
2. हठयोग प्रदीपिका
3. घेरण्ड सहिता
4. पतंजलि योग सूत्र ग्रन्थ
5. गुरुकुल शिक्षा पद्धति का चित्र
6. मुमुक्षुत्व का चित्र
7. कोशिका संरचना का चित्र
8. कंकाल तंत्र का मॉडल/पोस्टर
9. पाचन तंत्र अथवा किसी अंग का मॉडल/पोस्टर
10. परिसंचरण तंत्र अथवा किसी अंग का मॉडल/पोस्टर
11. उत्सर्जन तंत्र अथवा किसी अंग का मॉडल/पोस्टर
12. जनन तंत्र अथवा किसी अंग का मॉडल/पोस्टर
13. श्वसन तंत्र अथवा किसी अंग का मॉडल/पोस्टर
14. तंत्रिका तंत्र अथवा किसी अंग का मॉडल/पोस्टर
15. खाद्य पदार्थों तथा उनके पोषक तत्वों का चार्ट/पोस्टर
16. सात्त्विक आहार पोस्टर
17. राजसिक आहार पोस्टर
18. तामसिक आहार पोस्टर
19. षट्कर्म चार्ट/पोस्टर

विषय – 4

प्रायोगिक योग अभ्यास एवं
प्रशिक्षण



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

20. यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं के चार्ट/पोस्टर
21. योगासन के चार्ट/पोस्टर
22. प्राणायाम के चार्ट/पोस्टर
23. मुद्रा-बंध के चार्ट/पोस्टर
24. योग निद्रा चार्ट/पोस्टर
25. मेडीटेशन चार्ट/पोस्टर
26. चक्र के चार्ट/पोस्टर

मुक्त व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम
पाठ्यक्रम कोड 827

योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम

प्रायोगिक विषय

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास (माइक्रो-मैक्रो शिक्षण-प्रशिक्षण)



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ एक स्वायत्त संस्थान)

ए-24-25, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर - 62, नोएडा -201309 (उ.प्र.)

वेबसाइट: www.nios.ac.in, टॉल फ़िर नंबर 18001809393

विषय सूची

1.	योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम पाठ्यक्रम परिचय एवं उद्देश्य	1
2.	रोजगार के अवसर एवं प्रवेश योग्यता	3
3.	पाठ्यक्रम अवधि, अध्ययन एवं अनुदेश योजना	4
4.	पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्चा	5
5.	निर्देश का माध्यम, प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क	19
6.	मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए योजना	20
7.	प्रशिक्षण केंद्र हेतु आवश्यक दिशा निर्देश	22
8.	योग शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को प्रशिक्षण कौशल देने हेतु आवश्यक निर्देश	27
9.	प्रथम योग कार्यशाला हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश	30
10.	द्वितीय योग कार्यशाला हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश	31
11.	प्रशिक्षार्थियों में कौशल विकसित करने एवं गुणात्मक शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु मापन	33
12.	प्रशिक्षार्थियों में गुणात्मक शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास का मूल्यांकन	36
13.	शिक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देश	38
14.	प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका	39
15.	प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका में सूक्ष्म और बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए प्लान	40
16.	सत्रीय कार्य	45



पाठ्यक्रम परिचय एवं उद्देश्य

- पाठ्यक्रम शीर्षक : योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीवाईएस)
- जॉब रोल : योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालयों, अस्पतालों, योग वेलनेस केन्द्रों तथा संबन्धित स्वास्थ्य विभागों में योग अनुदेशक/शिक्षक, सहायक चिकित्सक के रूप में
- स्तर : डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- पाठ्यक्रम अवधि : 2 वर्ष

परिचय

भारतीय संस्कृति में योग का बहुत महत्व है। प्राचीनकाल से ही योग, मनुष्य की जीवन शैली का एक अंग रहा है। योग, मन एवं शरीर के बीच सासामंजस्य स्थापित करता है। यह अनुशासन का वह विज्ञान है, जो शरीर, मन व आत्मशक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। आज स्वस्थ एवं चुस्त-दुरुस्त रहने की दृष्टि से, योग विश्व भर में लोकप्रिय हो रहा है। अतः समाज में योग शिक्षा की विषेशरूप से मांग है।

‘योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम’ योग विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। योग के क्षेत्र में रुचि रखने वाले वे सभी लोग, इस पाठ्यक्रम में भाग ले सकते हैं, जो योग शिक्षण-प्रशिक्षण तथा योग चिकित्सा में कार्य करने के इच्छुक हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को विकसित किया गया है। यह कार्यक्रम, जहां योग दर्शन, यौगिक संस्कृति तथा मानवीय मूल्य, मानव शरीर, शुद्धि, यौगिक आहार, यौगिक अभ्यास, योग और जीवन, व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग आदि पर गहन ज्ञान का प्रकाश डालता है, वहां यौगिक-प्रशिक्षण और जीवन शैली संबन्धित विकारों के यौगिक प्रबंधन पर कौशल एवं दक्षता प्रदान करता है।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थीयों को प्रशिक्षित करना है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात्, प्रशिक्षु सक्षम होंगे –

- मानव शरीर विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की मूलभूत जानकारी रखने में;
- योग सिद्धांतों तथा योग क्रिया विज्ञान को समझा पाने में;
- स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं यौगिक आहार पर प्रकाश डालने में;
- यौगिक संस्कृति की अवधारणाओं को जानने और मानवीय मूल्यों की विवेचना करने में;
- योग के एकीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोगों को लागू करने में;
- योग कक्षाएं संचालित करने तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में;
- शिक्षार्थीयों को योग शिक्षा देने में;
- मानव शरीर पर यौगिक प्रभाव की व्याख्या करने में;
- विशेष रूप से जीवन शैली संबंधित विकारों के यौगिक प्रबंधन पर कौशल प्राप्त करने एवं दक्षता हासिल करने में।



रोजगार के अवसर एवं प्रवेश योग्यता

रोजगार के अवसर

सफल अभ्यर्थी प्रशिक्षण के पश्चात, निम्नांकित संस्थानों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे;

- आयुष वेलनेस केंद्र
- योग संस्थान,
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र
- विभिन्न विद्यालय-महाविद्यालय,
- कॉर्पोरेट जगत आदि में रोजगार
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
- योग प्रशिक्षण केंद्र,
- संबन्धित चिकित्सालय,
- स्वास्थ्य क्लब आदि,

प्रवेश योग्यता

- **शैक्षिक योग्यता :** किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12 वीं कक्षा पास या समकक्ष वे सभी अभ्यर्थी, जो एनआईओएस का योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा कर चुके हैं, वे अभ्यर्थी भी इस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (सैद्धांतिक पेपर - 6, 7 व 8 और प्रैक्टिकल पेपर - 9 व 10) में सीधे एडमीशन ले सकते हैं और पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात, दोनों मिलाकर डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं।
- न्यूनतम उम्रः प्रवेश के समय उम्र 18 वर्ष या अधिक

लक्ष्य समूह

सभी भारतीय तथा विदेशी नागरिक, जो उपर्युक्त पात्रता की शर्ते पूरी करते हों।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

3

पाठ्यक्रम अवधि, अध्ययन एवं अनुदेश योजना

पाठ्यक्रम अवधि: दो वर्ष

पीसीपी/प्रशिक्षण : कुल आवश्यक संपर्क घंटे – 1280 घंटे

- प्रथम वर्ष: $10 \text{ माह} \times 8 \text{ दिन} (\text{एक माह में}) \times 5 \text{ घंटे} = 400 \text{ घंटे}$
- द्वितीय वर्ष: $10 \text{ माह} \times 8 \text{ दिन} (\text{एक माह में}) \times 5 \text{ घंटे} = 400 \text{ घंटे}$
- अवधि के दौरान 10-10 दिनों की 06 कार्यशालाएं (अनिवार्य) अर्थात् प्रत्येक कार्यशाला 10 दिन $\times 08 \text{ घंटे} = 80 \text{ घंटे} \times 06 = 480 \text{ घंटे}$

अध्ययन योजना

- सिद्धांत – 30%
- प्रशिक्षण – 50%
- शिक्षार्थी पोर्टफोलियो – 20%

अनुदेश योजना

- स्व-निर्देशित मुद्रित सामग्री
- एवीआई/अध्ययन केन्द्रों पर सम्पर्क कक्षाओं एवं व्यावहारिक-प्रशिक्षण की सुविधा;
- श्रव्य-दृश्य सामग्री

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास

4



पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्चा

पाठ्यक्रम में कुल दस विषय/पेपर हैं, जिसमें सिद्धांत (थोरी) के छः और व्यावहारिक प्रशिक्षण के चार विषय/पेपर शामिल हैं;

क्र. सं.	विषय/पेपर संख्या	विषय/पेपर का नाम	कोड संख्या
प्रथम वर्ष के सिद्धांतिक विषय/पेपर			
1.	प्रथम विषय/पेपर	योग दर्शनशास्त्र एवं क्रिया विज्ञान (Yoga Philosophy and Physiology)	823
2	द्वितीय विषय/पेपर	मानव शरीर रचना, शारीरिक शुद्धि और यौगिक आहार (Human Body] Cleansing and Yogic Diet)	824
3	तृतीय विषय/पेपर	व्यावहारिक योग विज्ञान (Applied Yogic Science)	825
प्रथम वर्ष के प्रायोगिक विषय/पेपर			
4	चतुर्थ विषय/पेपर	प्रायोगिक योग अभ्यास और प्रशिक्षण (Yogic practices and Training)	826
5	पंचम विषय/पेपर	योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास (माइक्रो/मैक्रो-टीचिंग) (Yoga Teaching Skill Development)	827

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

द्वितीय वर्ष के सिद्धांतिक विषय/पेपर

1	प्रथम विषय/पेपर	योग और जीवन (Yoga and life)	828
2	द्वितीय विषय/पेपर	व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग (Applied Psychology and Yoga)	829
3	तृतीय विषय/पेपर	स्वास्थ्य प्रबंधन एवं योग चिकित्सा (Health Management and Yoga Therapy)	830

द्वितीय वर्ष के प्रायोगिक विषय/पेपर

4	चतुर्थ विषय/पेपर	मानव शरीर पर यौगिक प्रभाव (Yogic Effect On Human Body)	831
5	पंचम विषय/पेपर	योग चिकित्सा (Yoga Therapy)	832

प्रथम वर्ष के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्या (सिद्धांतिक व प्रायोगिक विषय/पेपर)

सैद्धान्तिक विषय -1: योग दर्शनशास्त्र और क्रिया विज्ञान

1. योग और योगिक ग्रंथ

- योग-एक परिचय
- अर्थ और परिभाषा
- योग का उद्भव, इतिहास एवं विकास
- योग दर्शन (योग के दर्शनशास्त्र का परिचय)
- मुख्य यौगिक ग्रंथों का सामान्य परिचय
- योग की प्रमुख परम्पराएँ; ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग और हठ योग
- योग की उपयोगिता एवं महत्व

2. अष्टांग योग

- अष्टांग योग का परिचय
- यम



टिप्पणियाँ

- नियम
- आसन
- प्राणायाम
- प्रत्याहार
- धारणा
- ध्यान
- समाधि
- अष्टांग योग की उपयोगिता एवं महत्व

3. यौगिक संस्कृति और मूल्य शिक्षा

- यौगिक संस्कृति
- पुरुषार्थः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
- चार आश्रमः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास
- साधन चतुष्टयः विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और मुमुक्षुत्व
- भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्य
- आधुनिक काल में मूल्यों का क्षय
- आधुनिक जीवन के संदर्भ में प्राचीन भारतीय मूल्यों की प्रासंगिकता

सैद्धान्तिक विषय - 2: मानव शरीर, यौगिक आहार और शारीरिक शुद्धि

4. मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान

- मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान; परिचय
- मानव शरीर, कोशिका, ऊतक एवं अंग
- मानव शरीर का संगठन; अंग तथा संस्थान
- मानव शरीर में संस्थानों (प्रणालियों) का संक्षिप्त परिचय

5. यौगिक आहार

- भोजन, आवश्यकता और महत्व

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- आहार, पोषण और स्वास्थ्य में संबंध
- यौगिक आहार की अवधारणा
 - सात्त्विक,
 - राजसिक,
 - तामसिक
- अम्लीय और क्षारीय आहार (20:80 अनुपात)
- आहार संबंधी अच्छी आदतें
- मिताहार; कब और कितना आहार लें
- आयु, रोग, मौसम और समय के अनुसार यौगिक आहार
- चिकित्सा के रूप में खाद्य पदार्थ और विभिन्न बीमारियों के उपचार में भोजन का महत्व।

6. षट्कर्म (शारीरिक शुद्धि)

- षट्कर्म की अवधारणा
- हठ योग में शुद्धि क्रियाएँ
- धौति - अन्तधोति, दन्तधोति, हृदधोति एवं मूलशोधन
- बस्ती
- नेति
- त्राटक
- नौली
- कपालभाती
- षट्कर्म की उपयोगिता एवं महत्व

सैद्धान्तिक विषय -3 : व्यावहारिक योग विज्ञान

- #### 7. योगाभ्यास करने से पूर्व-निर्देश, तैयारी और सावधानियाँ
- योगाभ्यास करने से पूर्व की जाने वाली तैयारियाँ
 - योगाभ्यास के पूर्व आवश्यक निर्देश



टिप्पणियाँ

- साफ, सफाई, स्वच्छता और आवश्यक सावधानियाँ
- आपातकालीन स्थिति में प्रबंधन और प्राथमिक उपचार

8. यौगिक सूक्ष्म क्रियाएँ (व्यायाम)

- यौगिक सूक्ष्म क्रियाएँ (व्यायाम) और इनका महत्व
- यौगिक क्रियाओं से पूर्व की जाने वाली तैयारी और सावधानियाँ
- प्रार्थना और यौगिक क्रियाओं के अभ्यास
- पवनमुक्त आसान सीरीज -1
 - हस्त संधि संचालन के अभ्यास
 - पाद संधि संचालन के अभ्यास
 - ग्रीवा संचालन के अभ्यास
- पवनमुक्त आसान सीरीज -2
 - उदर संचालन के अभ्यास; उत्तानपादासन, पाद संचालन, पवन मुक्तासन आदि
- पवनमुक्त आसान सीरीज -3
 - शक्ति बंध के अभ्यास; चक्की चालन, नौका चलासन, रज्जूकर्षण आदि
- विशेष अभ्यास
- विश्रामात्मक आसन और ध्यानात्मक आसन

9. योग आसन

- योग आसन, महत्व एवं उपयोगिता
- अभ्यास से पूर्व तैयारी और सावधानियाँ
- सूर्यनमस्कार
- विभिन्न योग आसन, क्रिया-विधि, लाभ एवं सावधानियाँ

10. प्राणायाम, मुद्रा- बंध और ध्यान साधना

- प्राणायाम, प्राण का स्वरूप, प्राणवाही नाड़ियाँ, क्रिया-विधि एवं महत्वपूर्ण निर्देश
- हठयोग में वर्णित प्राणायाम

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- प्राणायामों के अभ्यास से पूर्व तैयारी और सावधानियाँ
- मुद्रा एवं बंध; परिचय, क्रिया विधि, लाभ एवं सावधानियाँ
- ध्यान साधना; मंत्र, आजपा साधना, अंतरमौन एवं स्वदर्शन
- चक्र
- योग निद्रा

11. योग द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन (सभी के लिए योग)

- समग्र स्वास्थ्य के आयाम
- बच्चों के किशोरों के लिए योग अभ्यास
- युवाओं के लिए योग अभ्यास
- महिलाओं के लिए योग अभ्यास
- बुजुर्गों के लिए योग अभ्यास

व्यावहारिक विषय - 4: प्रायोगिक योग अभ्यास

- भक्ति योग, कर्म योग आदि पर अभ्यास
- यौगिक आहार
- षटकर्म
- यौगिक सूक्ष्म सूक्ष्म क्रियाएं (व्यायाम)
- सूर्य-नमस्कार
- विभिन्न योग आसन
- प्राणायाम
- मुद्रा एवं बंध
- ध्यान साधना
- योग निद्रा
- मंत्र एवं चेटिंग
- स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग
- योग केंद्रों की विजिट



टिप्पणियाँ

व्यावहारिक विषय - 5: योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास (माइक्रो/मैक्रो-टीचिंग)

- पाठ्यक्रम परिचय एवं संचालन
 - प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
 - 10-10 दिन की तीन योग कार्यशालाओं का आयोजन
 - प्रथम योग कार्यशाला में योग अभ्यास तथा सैद्धान्तिक कक्षाएँ
 - (i) प्रशिक्षार्थियों से प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका तैयार कराई जाएँ।
 - द्वितीय योग कार्यशाला में योग अभ्यास तथा सैद्धान्तिक कक्षाओं के लिए सूक्ष्म शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास
- प्रशिक्षार्थियों में मुख्यतः निम्नांकित कौशल विकसित किए जाएँ और सूक्ष्म शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए पाठ्य-योजना (Lesson Plan) तैयार कराया जाए -
- (i) स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण
 - (ii) प्रदर्शन के सिद्धांत एवं गुणात्मक शिक्षण
 - (iii) अवलोकन, सहायता और सुधार
 - (iv) अनुशासन, समय-पालन तथा शिक्षार्थियों से व्यवहार
 - (v) शिक्षण-प्रशिक्षण शैली
 - (vi) शिक्षकों के गुण
 - (vii) आवाज प्रक्षेपण,
 - (viii) शिक्षार्थियों की प्रगति पर प्रोत्साहन, देखभाल और मार्गदर्शन
 - (ix) कक्षा योजना और संरचना
 - (x) कक्षा का आयोजन
 - (xi) सीखने की छात्र की प्रक्रिया
 - (xii) सरेखण और हाथों से समायोजन
 - (xiii) सुरक्षा, संरक्षा और सावधानी
 - (xiv) कक्षा तथा योगाभ्यास के दौरान आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन
 - (xv) प्राथमिक उपचार
 - (xvi) योग की जीवन शैली और योग शिक्षक की नैतिकता
 - (xvii) योग शिक्षण (अध्यापन)
 - (xviii) प्रशिक्षण के अनुदेश

विषय – ५

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- तृतीय योग कार्यशाला में योग अध्यास तथा सैद्धान्तिक कक्षाओं के लिए बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास
- प्रशिक्षार्थियों के बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण की पाठ्य-योजना (Lesson Plan) को चेक किया जाए, साथ ही निम्नांकित कौशल विकास का अवलोकन शिक्षक द्वारा कक्षा के दौरान किया जाएः-
- (i) स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण
 - (ii) प्रदर्शन के सिद्धांत एवं गुणात्मक शिक्षण
 - (iii) अवलोकन, सहायता और सुधार
 - (iv) अनुशासन, समय-पालन तथा शिक्षार्थियों से व्यवहार
 - (v) शिक्षण-प्रशिक्षण शैली
 - (vi) शिक्षकों के गुण
 - (vii) आवाज प्रक्षेपण,
 - (viii) शिक्षार्थियों की प्रगति पर प्रोत्साहन, देखभाल और मार्गदर्शन
 - (ix) कक्षा योजना और संरचना
 - (x) कक्षा का आयोजन
 - (xi) सीखने की छात्र की प्रक्रिया
 - (xii) सरेखण और हाथों से समायोजन
 - (xiii) सुरक्षा, संरक्षा और सावधानी
 - (xiv) कक्षा तथा योगाभ्यास के दौरान आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन
 - (xv) प्राथमिक उपचार
 - (xvi) योग की जीवन शैली और योग शिक्षक की नैतिकता
 - (xvii) योग शिक्षण (अध्यापन)
 - (xviii) प्रशिक्षण के अनुदेश



टिप्पणियाँ

द्वितीय वर्ष के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्चा (सिद्धांतिक व प्रायोगिक विषय/पेपर)

सैद्धान्तिक विषय - 6: योग और जीवन

1. योग का अस्तित्व

- वैदिक काल में योग का स्वरूप एवं अस्तित्व
- उपनिषद् काल में योग का स्वरूप एवं अस्तित्व
- दर्शन काल में योग का स्वरूप एवं अस्तित्व
- आधुनिक काल में योग का स्वरूप एवं अस्तित्व
- योग में वर्णित ईश्वर का स्वरूप

2. मुख्य उपनिषद् श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार यौगिक जीवन

- श्रीमद्भगवद्गीता में योग
- ज्ञान योग
- भक्ति योग
- कर्म योग

3. पातांजल योग दर्शन

- भारतीय परम्परा में योग का स्वरूप
- योग सूत्र के प्रणेता का परिचय
- योग सूत्र एक उत्तम योग ग्रंथ
- योग सूत्र के अनुसार, योग परिभाषा की विवेचना

4. हठ योग एवं प्रमुख ग्रंथ

- हठयोग का अर्थ, परिभाषा तथा सामान्य परिचय
- चक्र, कुण्डलिनी एवं नाड़ी
- हठयोग के अंग – षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि ।
- हठयोग अभ्यास के लाभ
- अन्य प्रमुख परम्पराएँ एवं ग्रंथ

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

5. योग एवं स्वास्थ्य

- स्वास्थ्य
- स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण
- स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक
- साफ, सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ परस्पर सम्बंध
- स्वास्थ्य रक्षा के छः नियम
- स्वस्थ-वृत्त
- दिनचर्या एवं रात्रिचर्या
- ऋतुचर्या
- योग द्वारा समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति

सैद्धान्तिक विषय - 7: व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग

6. व्यावहारिक मनोविज्ञान

- परिचय, अर्थ एवं परिभाषा
- व्यावहारिक मनोविज्ञान का इतिहास एवं विकास
- व्यावहारिक मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र

7. व्यक्तित्व

- व्यक्तित्व
- व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा
- व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले कारक

8. मनोवैज्ञानिक समस्याएँ एवं यौगिक प्रबंधन

- स्वास्थ्य संबंधी मनोवैज्ञानिक समस्याएँ
 - तनाव; लक्षण, कारण एवं यौगिक प्रबंधन
 - चिंता; लक्षण, कारण एवं यौगिक प्रबंधन
 - अवसाद; लक्षण, कारण एवं यौगिक प्रबंधन



टिप्पणियाँ

9. व्यसन

- व्यसन
- प्रकृति, लक्षण, कारक एवं मादक पदार्थों का व्यसन
- समाज में व्यसन की स्थिति
- मादक पदार्थों का दुष्प्रभाव
- व्यसन मुक्ति के लिए यौगिक प्रबंधन

सैद्धान्तिक विषय - 8: स्वास्थ्य प्रबंधन एवं योग चिकित्सा

10. यौगिक स्वास्थ्य प्रबंधन

- बाल्यावस्था में यौगिक प्रबंधन (शारीरिक समग्र विकास – शारीरिक और मानसिक)
- किशोरावस्था में यौगिक प्रबंधन
- युवावस्था में यौगिक प्रबंधन
- प्रोढावस्था में यौगिक प्रबंधन
- महिलाओं के लिए यौगिक प्रबंधन
- वृद्धावस्था में यौगिक प्रबंधन
- खिलाड़ियों के लिए यौगिक प्रबंधन
- सुरक्षाबल के लिए यौगिक प्रबंधन
- फिटनेस के लिए योगाभ्यास क्रम
- पर्यटकों के लिए यौगिक प्रबंधन

11. तनाव (स्ट्रेस) में यौगिक प्रबंधन

- छात्रों के लिए तनाव (स्ट्रेस) में यौगिक प्रबंधन
- सामान्यजन एवं परिवार जनों के लिए तनाव (स्ट्रेस) में यौगिक प्रबंधन
- कॉर्पोरेट एवं सेवा सेक्टर में यौगिक प्रबंधन

12. श्वसन एवं हृदय (कोर्डियोवेस्कुलर) संबंधी बीमारियाँ एवं यौगिक चिकित्सा

- श्वसन विकार – साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाईटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि में यौगिक चिकित्सा।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- हृदय (कोर्डियोवेस्कुलर) संबंधी बीमारियाँ – कोरोनरी आर्टिरी डीजीज (सीएडी), अंजाइना, रक्तचाप, इस्केमिक हृदय रोग (आईएचडी), वैरिकाज शिरा, आदि में यौगिक चिकित्सा।

13. पाचन एवं मूत्र-जनन संबंधी बीमारियाँ एवं यौगिक चिकित्सा

- पाचन तंत्र विकार – अपच, कब्ज, एसीडीटी, आईबीएस, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, गुदा रोग आदि में यौगिक चिकित्सा।
- मूत्र तंत्र विकार – नेफ्राइटिस, मूत्रदाह (यूटीआई), किडनी स्टोन, मूत्र रोग आदि में यौगिक चिकित्सा।
- प्रजनन संबंधी बीमारियों में यौगिक चिकित्सा।

14. मस्कुलो-स्केलेटल सिस्टम संबंधी बीमारियाँ एवं यौगिक चिकित्सा

- मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न आदि में यौगिक चिकित्सा।
- अर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द, कटिस्नायुशूल और स्लिप डिस्क आदि में यौगिक चिकित्सा।

15. तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियाँ एवं यौगिक चिकित्सा

- माइग्रेन, वर्टिगो, अनिद्रा, आत्मकेंद्रित, पक्षाधात, पार्किंसन्स, अल्जाइमर आदि में यौगिक चिकित्सा।

16. जीवन शैली संबंधी बीमारियाँ एवं यौगिक चिकित्सा

- तनाव (स्ट्रेस), मोटापा, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड संबंधी समस्या, नेत्र, त्वचा संबंधी विकार आदि में यौगिक चिकित्सा।

व्यावहारिक विषय-9: मानव शरीर पर यौगिक प्रभाव

- प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- 10 दिन की एक योग कार्यशाला का आयोजन
 - योग कार्यशाला में विभिन्न योग अभ्यासों (सूची संलग्न) के माध्यम से शरीर पर पड़ने वाले यौगिक प्रभाव का अनुभव कराया जाए तथा सैद्धान्तिक कक्षाएँ ली जाएँ -
 1. षट्कर्म क्रियाओं (नेति, कुंजल, शंख प्रक्षालन, त्राटक, कपाल भाति आदि) का यौगिक प्रभाव
 2. सूक्ष्म व्यायाम का यौगिक प्रभाव



टिप्पणियाँ

3. सूर्यनमस्कार का यौगिक प्रभाव
 4. योग आसनों का यौगिक प्रभाव
 5. प्राणायामों का यौगिक प्रभाव
 6. मुद्राओं का यौगिक प्रभाव
 7. बंधों का यौगिक प्रभाव
 8. ध्यान साधना का यौगिक प्रभाव
 9. योग निद्रा का यौगिक प्रभाव
 10. मंत्र उच्चारण का यौगिक प्रभाव
- प्रशिक्षार्थियों से प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका तैयार कराई जाएं।

व्यावहारिक विषय-10: योग चिकित्सा

- प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
- 10-10 दिन की दो योग कार्यशालाओं का आयोजन
 - एक योग कार्यशाला में विभिन्न योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित केन्द्रों पर विभिन्न विकारों तथा रोगों (सूची संलग्न) की यौगिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाए-
 1. संधि संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 2. अस्थि संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 3. पेशीय संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 4. पाचन संबंधित विकारों (अपच, कब्ज व ऐसिडिटी आदि) के लिए यौगिक चिकित्सा
 5. श्वनसन संबंधित विकारों (अस्माकि एवं ब्रोकाइटिस आदि) में यौगिक चिकित्सा
 6. हृदय संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 7. अंतःस्रावी (हॉमोनल) व चपापचय विकारों में यौगिक चिकित्सा
 8. तंत्रिका तंत्र संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा
 9. मूत्र-जननांग तंत्र संबंधित विकारों में यौगिक चिकित्सा

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

10. प्रजनन तंत्र के लिए यौगिक चिकित्सा
11. जीवन शैली संबंधी बीमारियों में यौगिक चिकित्सा
12. महिलाओं से संबंधित रोग के लिए यौगिक चिकित्सा
13. चिंता एवं अवसाद की स्थिति में यौगिक चिकित्सा
14. अवसाद की स्थिति में यौगिक चिकित्सा
15. व्यसन मुक्ति के लिए यौगिक चिकित्सा

द्वितीय योग कार्यशाला में विभिन्न योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित केन्द्रों पर विभिन्न विकारों तथा रोगों की यौगिक चिकित्सा कराई जाए। प्रशिक्षणार्थी द्वारा इस इन्टर्नशिप का प्रमाणपत्र, संबंधित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से प्राप्त किया जाए।



निर्देश का माध्यम, प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क

निर्देश का माध्यम

पाठ्यसामग्री हिंदी में उपलब्ध है, जिसे शीघ्र ही अंग्रेजी में उलब्ध कराया जाएगा।

प्रवेश प्रक्रिया

- अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश के माध्यम से सीधे भी प्रवेश ले सकता है और मन पसंद प्रशिक्षण केंद्र का चयन कर सकता है।
- प्रवेश वर्ष भर खुला है परंतु प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून व 31 दिसम्बर निर्धारित है।

पाठ्यक्रम शुल्क

पाठ्यक्रम का शुल्क 15,000 रुपये है जिसमें प्रवेश, पाठ्यसामग्री, और प्रथम बार का परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है। विदेशी नागरिकों के लिए यह शुल्क 700 डॉलर है। जो अभ्यर्थी पहले से एनआईओएस का योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (495-499) कर चुके हैं, वे शेष शुल्क 5000 रुपए मात्र जमा करेंगे।

व्यावसायिक अध्ययन केंद्र आवासीय व्यवस्था, भोजन और अन्य विविध सुविधाओं के लिए, यदि चाहे तो सीमित शुल्क, सुविधा अनुसार अलग से ले सकते हैं।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

6

मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए योजना

मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए योजना

- परीक्षा में बैठने के लिए, परीक्षार्थी परीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। पाठ्यक्रम के दोनों घटकों (सिद्धांत और व्यावहारिक) का मूल्यांकन किया जाएगा।
- उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को एनआईओएस द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

क्र. सं. योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम के विषय/पेपर	कोड संख्या	अधिकतम अंक व समय		कुल अंक
		अधिकतम अंक	समय (घण्टे में)	
प्रथम वर्ष (सैद्धांतिक)				
1. योग दर्शनशास्त्र एवं क्रिया विज्ञान (Yoga Philosophy and Physiology)	823	50	3	50
2. मानव शरीर रचना, शारीरिक शुद्धि और यौगिक आहार (Human Body Cleansing and Yogic Diet)	824	50	3	50
3. व्यावहारिक योग विज्ञान (Applied Yogic Science)	825	50	3	50
प्रथम वर्ष (प्रायोगिक)				
4. प्रायोगिक योग अभ्यास (योगासन, प्राणायाम आदि) (Yogic practices)	826	200	3	200
5. योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास (माइक्रो/मैक्रो-टीचिंग) (Yoga Teaching Skill Development)	827	150	3	150
कुल योग				500

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

द्वितीय वर्ष (सैद्धांतिक)					
1. योग और जीवन (Yoga and life)	828	50	3	50	
2. व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग (Applied Psychology and Yoga)	829	50	3	50	
3. स्वास्थ्य प्रबंधन एवं योग चिकित्सा (Health Management and Yoga Therapy)	830	50	3	50	
द्वितीय वर्ष (प्रायोगिक)					
4. मानव शरीर पर यौगिक प्रभाव (Yogic Effect On Human Body)	831	150	3	150	
5. योग चिकित्सा (Yoga Therapy)	832	200	3	200	
कुल योग				500	

उत्तीर्णता मापदंड

- सिद्धान्त और व्यावहारिक दोनों ही घटकों में परीक्षार्थी को 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

7

प्रशिक्षण केंद्र हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों को, योग में प्रशिक्षित करना है। राष्ट्रीय स्तर पर विकसित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास में प्रतिष्ठित योग संस्थानों, विश्वविद्यालयों, और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का विशेष सहयोग रहा है। पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्चा देश भर में एक जैसी अर्थात् समान हो, संदर्भित प्राचीन ग्रन्थों के साथ परम्परागत योग हो और आधुनिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए विषय विशेषज्ञों ने इस पाठ्यक्रम को विकसित किया है।

एनआईओएस का यह प्रयास है कि, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, अपने प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से एक अद्वितीय प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जाए ताकि प्रशिक्षण के दौरान, सभी आवश्यक कौशल प्रशिक्षार्थियों को प्रदान किए जा सकें और प्रशिक्षित अभ्यर्थी देश-विदेश में एक समान अर्थात् एकरूपता के साथ योग सिखाने बेहतर, योगाभ्यास कराने और चिकित्सा करने में प्रभावी रूप से सक्षम हो।

एनआईओएस के सभी प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते हुए निम्नांकित दिशा-निर्देशों का भी पालन करेंगे:

1. व्यक्तिगत सम्पर्क कक्षाएं (PCPs)

- प्रत्येक सप्ताह में शनिवार – रविवार को व्यक्तिगत सम्पर्क कक्षाएं (PCPs) प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित की जाएंगी।
- पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक भाग प्रशिक्षणार्थी स्व-अध्ययन के माध्यम से पूरा करेंगे किन्तु उनके संदेह, समस्या और कठिन विषयों का निराकरण, प्रशिक्षण केंद्र पर व्यक्तिगत सम्पर्क कक्षाओं के दौरान किया जाएगा।



टिप्पणियाँ

- सैद्धांतिक विषयों के लिए आवश्यक लेक्चर व्यक्तिगत सम्पर्क कक्षाओं में कराए जाएंगे।
- उपर्युक्त के साथ ही पाठ्यक्रम में निर्धारित यौगिक अभ्यास की प्रेक्टिस कराएंगे, ताकि शिक्षार्थी अपनी होने वाली 10 दिन की कार्यशाला के लिए पूर्ण तैयार हो सकें।

2. 10-10 दिन की 3 कार्यशालाएं

- कार्यक्रम में दो प्रकार का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण आयोजन किया जाना है:

(i) योग अभ्यास

विषय-4 के प्रमुख निम्नांकित प्रायोगिक योग अभ्यास जिन्हें सिखा कर शिक्षार्थी को सूक्ष्म व वृहद् प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाय।

- भक्ति योग, कर्म योग आदि पर अभ्यास
- यौगिक आहार
- षटकर्म
- यौगिक सूक्ष्म सूक्ष्म क्रियाएं (व्यायाम)
- सूर्य-नमस्कार
- विभिन्न योग आसन
- प्राणायाम
- मुद्रा एवं बंध
- ध्यान साधना
- योग निद्रा
- मंत्र एवं चेंटिंग
- स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग
- योग केंद्रों की विजिट

(ii) योग अभ्यास प्रशिक्षण

शिक्षार्थी द्वारा दूसरों को सिखाने के लिए अर्थात् सूक्ष्म व वृहद् प्रशिक्षणः

- सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु शनिवार एवं रविवार में व्यक्तिगत संपर्क कक्षाओं (पीसीपी) का प्रावधान रखा गया है।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- प्रशिक्षण केंद्र निर्धारित प्रशिक्षण शिड्ड्यूल के अनुसार प्रथम वर्ष में 400 घंटे अर्थात् $10 \text{ माह} \times 8 \text{ दिन} (\text{एक माह में}) \times 5 \text{ घंटे की पीसीपी क्लास आयोजित करेंगे।$ इस अवधि के दौरान 10-10 दिनों की 03 कार्यशालाएं अर्थात् प्रत्येक कार्यशाला $10 \text{ दिन} \times 08 \text{ घंटे} = 80 \text{ घंटे} \times 03 = 240 \text{ घंटे}$, अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी।
- इसमें शिक्षार्थी की 70% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- उपस्थिति कम होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- प्रत्येक 2 महीने के अंतराल पर कार्यशाला आयोजित होंगी, जिसमें शिक्षार्थी अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।
- जो प्रशिक्षार्थी (भारतीय व विदेशी नागरिक) एक माह आवासीय प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वे पूरे महीने लगातार प्रशिक्षण केंद्र पर रहकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति में वे प्रशिक्षार्थी केवल एनआईओएस के उन्हीं मान्य प्रशिक्षण केन्द्रों का चुनाव करेंगे, जिनमें आवासीय प्रशिक्षण के लिए सभी आवश्यक संसाधन व सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र, एनआईओएस द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क के अतिरिक्त, सुविधा अनुसार उपयुक्त शुल्क अलग से ले सकते हैं।
- विदेशी नागरिक सुविधानुसार एक माह के सीधे आवासीय प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं या फिर 10-10 दिन की 3 कार्यशालाएं भी कर सकते हैं।
- यह बांछनीय है कि, प्रशिक्षण के उपरांत संस्थान एक महीने की इंटर्नशिप के लिए किसी योग संस्थान में रेफर करेंगे। इंटर्नशिप का सर्टीफिकेट प्रशिक्षण केंद्र व संबन्धित संस्थान प्रदान करेंगे।
- प्रथम योग कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षार्थी को पूर्ण यौगिक अभ्यास सिखा कर, आवश्यक कौशल प्रदान करना है।
- दूसरी कार्यशाला में शिक्षार्थियों को पहले सूक्ष्म शिक्षण-प्रशिक्षण सिखाया जाएगा और उन्हें अगली कार्यशाला के लिए पारंगत किया जाएगा।
- तीसरी कार्यशाला में बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण का अभ्यास कराया जाएगा। इसमें एवीआई प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षार्थी के अभ्यास के लिए, अपनी जिम्मेदारी से केंद्र आवंटित करेगा और उनका अवलोकन करेगा।
- इस दौरान शिक्षार्थी जिस संस्था, योग केंद्र, विद्यालय आदि में ये बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण करेंगे, वह संस्था इन शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करती हुई प्रशंसा पत्र प्रदान करेगी।



टिप्पणियाँ

3. कार्यशाला की तिथियों व समय की पूर्व सूचना व जानकारी

- शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व व्यक्तिगत सम्पर्क कक्षाओं (PCPs), और कार्यशालाओं का शिड्यूल (तिथियों व समय) की सूचना शिक्षार्थियों को दी जाय।
- उक्त शिड्यूल (तिथियों व समय) की सूचना व्यावसायिक शिक्षा विभाग, रा.मु.बि.शि.सं. को भी दी जाय।

4. प्रशिक्षण केंद्र द्वारा शिक्षार्थियों को दी जाने वाली 'योग किट' व अन्य आवश्यक जानकारी

- प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षार्थियों को 'योग अभ्यास किट' उपलब्ध करायेगा जिसमें निम्नांकित सामग्री उपलब्ध होगी:
 - योग मैट (आसन),
 - नेति लोटा,
 - सूत्र नेति व रबर नेति
 - दंड धौति
 - वस्त्र धौति
 - एक टी-शर्ट व लोअर आदि शामिल हैं।
- उक्त योग किट के लिए प्रशिक्षण केन्द्र शिक्षार्थियों से अधिकतम 1200/- रूपए शुल्कक ले सकता है।

5. कार्यशाला के दौरान प्रतिदिन यौगिक आहार (नाश्तार तथा दोपहर का भोजन) की व्यवस्था

- शिक्षार्थियों को कार्यशाला के दौरान प्रतिदिन यौगिक आहार (नाश्ताप तथा दोपहर का भोजन) की व्यवस्था प्रशिक्षण केंद्र द्वारा की जाएगी।
- प्रशिक्षण केंद्र इस व्यवस्था के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी से प्रतिदिन का 125/- रूपए अधिकतम शुल्कद ले सकता है।
- शिक्षार्थियों को नाश्ते व दोपहर के भोजन में सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाए।
- नाश्तार में - दलिया, उपमा, पोहा, फल, जूस, दूध, अंकुरित आहार - चना, मूँग, आदि में से प्रतिदिन मेनु के अनुसार व्यवस्था की जा सकती है।
- दोपहर के भोजन में भी इसी प्रकार दाल-चावल, सब्जीय, दही, चपाती, सलाद, मिश्रित खिचड़ी, छाछ, कढ़ी-चावल, सांबर-चावल आदि में से प्रतिदिन मेनु के अनुसार व्यवस्था की जा सकती है।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

6. शिक्षार्थियों का मूल्यांकन

(अ) आंतरिक मूल्यांकन

- प्रशिक्षण केंद्र प्रत्येक कार्यशाला के उपरांत एक आंतरिक मूल्यांकन तथा शिक्षार्थियों के अनुभव की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे भविष्य में सुधार किया जा सके और प्रायोगिक परीक्षा में सहायता मिल सके।
- प्रत्येक कार्यशाला के उपरांत शिक्षार्थियों से प्रायोगिक सत्रीय कार्य जमा करवाएं।
- प्रत्येक शिक्षार्थी की कार्यशाला की रिपोर्ट, प्रायोगिक सत्रीय कार्य आदि का लेखा-जोखा का रिकार्ड रखना आवश्यक है।
- शिक्षण कक्षाएं, कार्यशालाएं तथा आंतरिक मूल्यांकन आदि सभी प्रक्रियाओं का समुचित आयोजन व निपटान का उत्तदायित्वथ प्रशिक्षण केन्द्रका है।
- प्रशिक्षण केन्द्रकिसी भी संबंधित जानकारी और समस्याम समाधान के लिए कार्यक्रम समन्वयक व संबन्धित विभाग, एनआईओएस से संपर्क कर सकता है।
- कार्यशाला तथा कक्षाओं में शिक्षार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड, प्रशिक्षण केंद्र पर रखा जाएगा जो परीक्षा से पहले कार्यक्रम समन्वयक, संबन्धित विभाग, एनआईओएस को उपलब्ध कराया जाएगा।
- मूल्यांकन से संबंधित जानकारी व प्रक्रिया के लिए एनआईओएस द्वारा उपलब्धग व्यामवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए व्यावहारिक परीक्षा के दिशा निर्देश का अवलोकन किया जा सकता है।

(ब) बाह्य मूल्यांकन

- जैसा कि मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए योजना के अंतर्गत स्पष्ट किया जा चुका है कि पाठ्यक्रम के दोनों घटकों (सिद्धांत और व्यावहारिक) का मूल्यांकन किया जाएगा।
- एनआईओएस द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर सैद्धांतिक परीक्षाएं आयोजित होगीं जहाँ तीनों सैद्धांतिक विषयों की परीक्षाएं होगीं।
- प्रायोगिक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र पर कराई जाएगी। जिसमें नियमानुसार प्रशिक्षण केंद्र के विषय विशेषज्ञ और किसी अन्य योग संस्थान से दूसरे विषय विशेषज्ञ बाह्य परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा लेंगे।



योग शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को प्रशिक्षण कौशल देने हेतु आवश्यक निर्देश

शिक्षक शिक्षार्थी को समझाएँगे कि -

अभ्यास के लिए हमारा स्थान परिवेश पहनावा भी महत्वपूर्ण है। हमें योग कक्षा की तैयारी और इसके साथ ही ध्यालन देने योग्य; बातों को समझने की जरूरत है।

1. योग कक्षा की तैयारी कैसे करें

- स्थासन :** योगाभ्यास खुले हुए हवादार कमरे में करना चाहिए साथ ही यह भी ध्यारन रखना चाहिए कि वहां आसपास ज्यारदा शोरगुल न हो। अभ्यास स्थेल में या आसपास किसी प्रकार प्रदूषण या दुर्गंध नहीं होनी चाहिए।
- स्वच्छता :** योग कक्षा का साफ-स्वच्छ होना अति आवश्यक है। ऐसा वर्णन मिलता है कि योग करने के स्थान को पहले गोबर से लीपा जाता था जिससे चींटी, कीड़े-मकौड़े का प्रकोप नहीं होता है। तात्पार्य यह है कि अभ्या स स्थाल स्वच्छक और निर्मल होना चाहिए। हम कपूर या किसी सुगंधित धूप का प्रयोग कर सकते हैं ताकि अभ्यास के दौरान चींटी या कीड़े-मकौड़े विषय पैदा न करें। बेहतर है कि योगाभ्यास स्थल पर या आस-पास कोई फर्नीचर न हो।
- वस्त्र (पहनावा) :** अभ्यास करते समय ढीले, हल्के व आरामदायक वस्त्र पहनना उचित माना गया है। नायलोन या कृत्रिम वस्त्र योगाभ्यास के लिए अनुकूल नहीं माने गये हैं। अतः प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित योग परिधान पहनें। पेट के पास कोई टाइट वस्त्र या बेल्ट नहीं होना चाहिए।
- अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व चश्मा, घड़ी व आभूषण उतार कर रखें।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- मोबाइल फोन को ध्वं नि रहित अर्थात् साइलेंट मोड पर रखें।
- अभ्यास के दौरान सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग न करें।
- योग मैट : आजकल रबड़ मैट का प्रचलन है ये उर्जारोधन गुण से युक्त है परंतु प्राकृतिक सामग्री से बने मैट या खादी से निर्मित दरी का उपयोग बेहतर माना जाता है। प्राकृतिक सामग्री से निर्मित कंबल, भी अभ्यास के लिए लिया जा सकता है। यह शरीर और पृथक्की के बीच उर्जारोधक का काम करता है। स्पांज वाले मैट या ज्या दा गददेदार आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्यों कि यह मेरुदंड और संतुलन के लिए हितकर नहीं है। योग मैट का उपयोग योगाभ्यास के लिए ही सीमित होना चाहिए उसपर बैठकर खाना पीना नहीं चाहिए।

2. योग अभ्यास कैसे कराएंगे

व्यावहारिक कक्षा की तैयारी

समय – एक घंटा

शिक्षक निम्नांकित तरीके से शिक्षार्थियों को योगाभ्यास कराएंगे:

- प्रार्थना व मंत्रोच्चारण 5 मिनट
- सूक्ष्मन व्यायाम 15 मिनट
- आसन 20 मिनट
 - ताड़ासन - 10 चक्र
 - त्रियक ताड़ासन - 10 चक्र
 - कटिचक्रआसन - 10 चक्र
 - त्रिकोणासन - 5 चक्र
 - सूर्यनमस्कार - 3
 - चक्र शावासन
 - उत्ताननपादासन - 3+3 चक्र
 - अर्धहलासन
 - सवा ° गासन
 - हलासन



टिप्पणियाँ

- सेतुबंध आसन – 3 चक्र
- चक्रासन
- शवासन – विश्राम 1 मिनट
- मकरासन – विश्राम 1 मिनट
- भुजंगासन – 3 चक्र
- धनुरासन – 3 चक्र
- अर्ध-शलभासन – 4 चक्र
- शलभासन – 4 चक्र
- मकरासन – विश्राम 1 मिनट
- शशांक आसन – 5 चक्र
- प्राणायाम – 10 मिनट
 - नाड़ीशोधन – 10 से 15 चक्र
 - भ्रामरी – 10 चक्र
 - मुद्रा-बंध – 5 मिनट
 - ध्याड़न व शांतिपाठ – 10 मिनट

विशेष निर्देश

- शिक्षक अगले अभ्यास के दौरान शेष आसनों व प्राणायामों को इसी प्रकार के क्रम में रखें।
- एक साथ सभी यौगिक अभ्यास कराने की चेष्टा न करें।
- योग अभ्यासी की क्षमता के अनुसार योग कराएं।
- धीरे- धीरे उनका स्टेमुना बढ़ाने का प्रयास करें।
- यदि कोई बीमार अभ्यासी है तो उस शारीरिक स्थिति ब रोग जानकार ही उचित अभ्यास कराएं, अन्यथा न कराएं।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

9

प्रथम योग कार्यशाला हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

प्रथम योग कार्यशाला में योग अभ्यास तथा सैद्धान्तिक कक्षाएँ

- (i) प्रयोगिक अभ्यास कराकर, कौशल विकसित किए जाय
 - भक्ति योग, कर्म योग आदि पर अभ्यास
 - यौगिक आहार
 - षटकर्म
 - यौगिक सूक्ष्म सूक्ष्म क्रियाएं (व्यायाम)
 - सूर्य-नमस्कार
 - विभिन्न योग आसन
 - एडवांस आसन
 - प्राणायाम
 - मुद्रा एवं बंध
 - ध्यान साधना
 - योग निद्रा
 - मंत्र एवं चेंटिंग
 - स्वास्थ्य संवर्धन के लिए योग
 - योग केंद्रों की विजिट
- (ii) प्रशिक्षार्थीयों से प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका तैयार कराई जाए।

10



द्वितीय योग कार्यशाला हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

द्वितीय योग कार्यशाला में योग अभ्यास तथा सैद्धान्तिक कक्षाओं के लिए सूक्ष्म शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल विकास

- प्रशिक्षार्थियों से पहले सूक्ष्म शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए पाठ्य-योजना (Lesson Plan) तैयार कराया जाए।
- प्रशिक्षार्थियों की कक्षा में, एक-एक प्रशिक्षार्थी को योग शिक्षक बनाकर, उनके साथियों के मध्य में ही, शिक्षण-प्रशिक्षण कराया जाए।
- शिक्षण-प्रशिक्षण के दौरान योग शिक्षक के साथ-साथ, कक्षा के सभी प्रशिक्षार्थी सूक्ष्म मूल्यांकन करेंगे।
- मूल्यांकन कर रहे योग शिक्षक समय समय पर प्रशिक्षार्थी को ठीक करेंगे।
- प्रशिक्षार्थियों में मुख्यतः निम्नांकित कौशल विकसित किए जाएं;
 - (i) स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण
 - (ii) प्रदर्शन के सिद्धांत एवं गुणात्मक शिक्षण
 - (iii) अवलोकन, सहायता और सुधार
 - (iv) अनुशासन, समय-पालन तथा शिक्षार्थियों से व्यवहार
 - (v) शिक्षण-प्रशिक्षण शैली
 - (vi) शिक्षकों के गुण

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

- (vii) आवाज प्रक्षेपण,
- (viii) शिक्षार्थियों की प्रगति पर प्रोत्साहन, देखभाल और मार्गदर्शन
- (ix) कक्षा योजना और संरचना
- (x) कक्षा का आयोजन
- (xi) सीखने की छात्र की प्रक्रिया
- (xii) सरेखण और हाथों से समायोजन
- (xiii) सुरक्षा, संरक्षा और सावधानी
- (xiv) कक्षा तथा योगाभ्यास के दौरान आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन
- (xv) प्राथमिक उपचार
- (xvi) योग की जीवन शैली और योग शिक्षक की नैतिकता
- (xvii) योग शिक्षण (अध्यापन)
- (xviii) प्रशिक्षण के अनुदेश



प्रशिक्षार्थियों में कौशल विकसित करने एवं गुणात्मक शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु मापन

प्रशिक्षार्थियों में कौशल विकसित करने एवं गुणात्मक शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु मापन

- गुणात्मक शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षार्थियों में मुख्यतः निम्नांकित कौशल विकसित करने का कार्य किया जाए;

(i) स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण

- योग का वातावरण स्वस्थ एवं स्वच्छ हो।
- कक्षा साफ सुथरी हो।
- योग अभ्यास के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

(ii) प्रदर्शन के सिद्धांत एवं गुणात्मक शिक्षण

- शिक्षण का प्रदर्शन बेहतर हो।
- हिचकिचाहट न हो।
- बोर्ड पर लेखन साफ-सुथरा, सीधी लाइन आदि में कुशलता हो।
- समझाने में हाथों के संकेत व मुख पर उपयुक्त भाव हो।
- शिक्षण सामग्री का अनुप्रयोग हो।

(iii) अवलोकन, सहायता और सुधार

- शिक्षण के दौरान बिन्दु सं. (ii) को ध्यान में रखते हुए अवलोकन किया जाय।
- आवश्यकतानुसार सहायता की जाय
- उचित सुधार कराया जाय।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

(iv) अनुशासन, समय-पालन तथा शिक्षार्थियों से व्यवहार

- कक्षा के समय पूर्ण अनुशासन हो।
- समय का पालन हो।
- शिक्षार्थियों से ऐसा व्यवहार कि आपको एक अदर्श योग शिक्षक के रूप में देखें जैसे- मृदुभाषा, धैर्य के साथ उनकी समस्याओं को सुनना एवं संतोषजनक जबाब देना। उनकी रुचि को ध्यान में रखना।

(v) शिक्षण-प्रशिक्षण शैली

- शिक्षण के समय गतिवान रहें। एक स्थान पर स्थिर न हों।
- शिक्षार्थियों पर इस प्रकार नजर रखें कि एक आँख व्हाइट बोर्ड पर हो तो दूसरी शिक्षार्थियों पर।
- अन्तिम शिक्षार्थी पर भी आपकी नजर समान बनी रहनी चाहिए।

(vi) शिक्षकों के गुण

- अनुशासन, मर्यादा और शिक्षक के व्यक्तित्व में रहना
- सौम्यता, मृदुभाषी, स्वावलम्बन, राष्ट्रभक्ति, यम-नियम का पालन आदि।

(vii) आवाज प्रक्षेपण

- आवाज न बहुत धीमी और न बहुत तेज, सामान्य होनी चाहिए।
- शिक्षण में किसी बिन्दु को फोकस करने, जोर डालने, विशेष रूप से समझाने में आवाज का पिच आवश्यकतानुसार ऊपर-नीचे होते रहना चाहिए।
- वाक्यों को स्पष्ट रूप से बोलना।
- शब्दों का चयन सुन्दर व उपयुक्त हो।

(viii) शिक्षार्थियों की प्रगति पर प्रोत्साहन, देखभाल और मार्गदर्शन

- शिक्षण के समय गतिवान रहें। एक स्थान पर स्थिर न हों।
- शिक्षार्थियों पर इस प्रकार नजर रखें कि एक आँख व्हाइट बोर्ड पर हो तो दूसरी शिक्षार्थियों पर।
- अन्तिम शिक्षार्थी पर भी आपकी नजर समान बनी रहनी चाहिए।
- प्रगति पर प्रोत्साहन (जैसे-शावास, बहुत अच्छा, बहुत सुन्दर आदि) शब्दों का अनुप्रयोग अवश्य करें।
- छोटी-छोटी समस्या दें, समाधान के लिए बोलें, देखें और मार्गदर्शन करें।



टिप्पणियाँ

(ix) कक्षा योजना और संरचना

- कक्षा में बैठने की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें कि शिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।

(x) कक्षा का आयोजन

- कक्षा के आयोजन हेतु उपयुक्त तिथि व समय सुनिश्चित करें।

(xi) सीखने की छात्र की प्रक्रिया

- इस प्रकार शिक्षण हो कि शिक्षार्थी स्वयं रुचि लेने लगें।

(xii) सीखण और हाथों से समायोजन

- समझाने व सिखाने की प्रक्रिया सहज, सरल व स्पष्ट हो।

(xiii) सुरक्षा, संरक्षा और सावधानी

- योग कक्षा आयोजन में हर संभव सुरक्षा, संरक्षा और सावधानी हो।

(xiv) कक्षा तथा योगाभ्यास के दौरान आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन

- आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन की क्षमता होना आवश्यक है। आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार के साथ-साथ अस्पतालों के साथ सम्पर्क बनाएं रखना उत्तम है।

(xv) प्राथमिक उपचार

- प्राथमिक उपचार की किट हमेशा मौजूद होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करना भी आना चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए।

(xvi) योग की जीवन शैली और योग शिक्षक की नैतिकता

- योगमय जीवनशैली होनी चाहिए और योग शिक्षक की नैतिकता होनी चाहिए।

(xvii) योग शिक्षण (अध्यापन)

- योग शिक्षण के लिए योगमय जीवनशैली बनायी जाय।

(xviii) प्रशिक्षण के अनुदेश

- प्रशिक्षण के लिए अभ्यासी की क्षमता, शरीर, संकल्प आदि को देखकर अनुदेश देने चाहिए।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

12

प्रशिक्षार्थियों में गुणात्मक शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास का मूल्यांकन

- प्रशिक्षार्थियों में गुणात्मक शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास का मूल्यांकन प्रशिक्षार्थियों में गुणात्मक शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु तृतीय कार्यशाला में कौशल विकास का मूल्यांकन किया जाए;
 - (i) स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण
 - (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
 - (ii) प्रदर्शन के सिद्धांत एवं गुणात्मक शिक्षण
 - (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
 - (iii) अवलोकन, सहायता और सुधार
 - (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
 - (iv) अनुशासन, समय-पालन तथा शिक्षार्थियों से व्यवहार
 - (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
 - (v) शिक्षण-प्रशिक्षण शैली
 - (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
 - (vi) शिक्षकों के गुण
 - (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
 - (vii) आवाज प्रक्षेपण
 - (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
 - (viii) शिक्षार्थियों की प्रगति पर प्रोत्साहन, देखभाल और मार्गदर्शन
 - (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

- (ix) कक्षा योजना और संचना (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
- (x) कक्षा का आयोजन (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
- (xi) सीखने की छात्र की प्रक्रिया (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
- (xii) सरेखण और हाथों से समायोजन (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
- (xiii) सुरक्षा, संरक्षा और सावधानी (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
- (xiv) कक्षा तथा योगाभ्यास के दौरान आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
- (xv) प्राथमिक उपचार (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
- (xvi) योग की जीवन शैली और योग शिक्षक की नैतिकता (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
- (xvii) योग शिक्षण (अध्यापन) (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)
- (xviii) प्रशिक्षण के अनुदेश (उत्तम/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब)

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

13

शिक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देश

शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश इस प्रकार हैं -

- शिक्षार्थी कार्यशाला के आयोजन, समय, तिथि आदि की जानकारी के लिए अपने केंद्र से संपर्क करें।
- पाठ्यक्रम या संबंधित समस्या के लिए केंद्र से जानकारी प्राप्त करें।
- शिक्षार्थी प्रत्येक कार्यशाला का रिकॉर्ड अपनी नोटबुक में अंकित करें।
- प्रत्येक कार्यशाला के प्रतिदिन के कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य है।
- शिक्षार्थियों को कार्यशाला में प्रतिदिन अपनी योग किट लेकर आना अनिवार्य है।
- शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करें।
- कक्षाओं व कार्यशालाओं के दौरान अनुशासन में रहें और अनुशासन में सहायता करें।
- अनुशासनहीनता में लिप्त होने पर कार्यक्रम संयोजक/कार्यशाला समन्वयक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
- शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम या कार्यशाला से संबंधित कोई भी असुविधा हो तो वह केंद्र समन्वयक से संपर्क कर सकता है।



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका

शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा आवश्यक निर्देश दिये जाएं कि :

- सभी शिक्षार्थी सूक्ष्म और बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए प्रायोगिक पुस्तिका में पाठ योजना (Lesson Plan) तैयार करें।
- सूक्ष्म शिक्षण-प्रशिक्षण कक्षा में सहपाठियों के साथ कराया जाए।
- बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए आसपास के विद्यालयों, विभिन्न संस्थानों, और योग केंप लगाकर कराया जाए, ताकि प्रशिक्षित शिक्षार्थी अपनी योग कराने की कौशल कला में दक्ष हों और उनके अंदर एक योग प्रशिक्षक की क्षमता हो।
- पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी प्रैक्टिकल नोट बुक तैयार करें।

उदाहरण के लिए शिक्षार्थी अपनी प्रैक्टिकल नोट बुक में, दैनिक व्यावहारिक अभ्यास का विवरण, इस प्रकार अंकित कर सकते हैं:

विवरण

अभ्यास का नाम	यौगिक अभ्यास (वर्ग)	चक्र	शरीर पर सूक्ष्म प्रभाव
ताड़ासन	खड़े होने वाले आसन	10 चक्र	<ul style="list-style-type: none"> • मेरुदंड और उदर मांसपेशियों में खिंचाव • उर्जा स्तर में वृद्धि
भ्रामरी	प्राणायाम	10 चक्र	<ul style="list-style-type: none"> • मानस पटल में शांति • स्थिरता • अंतर्मुखी भाव

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

15

प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका में सूक्ष्म और बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए प्लान

प्रशिक्षणार्थिओं को दो प्रकार से शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाएगा:

1. सूक्ष्म शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम
 2. बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम
1. सूक्ष्म शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षणार्थी अपनी कक्षा के साथियों के साथ प्रशिक्षण करेंगे।
 2. बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी अन्य यौगिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों आदि में अपने शिक्षक की निगरानी में उक्त कार्यक्रम सम्पन्न करेंगे जहां वे उसका व्यावहारिक मूल्यांकन भी करेंगे।

अपनी प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका में सैद्धांतिक व व्यावहारिक शिक्षण हेतु सूक्ष्म और बृहद शिक्षण-प्रशिक्षण का प्लान बना सकते हैं।

सैद्धांतिक शिक्षण के लिए

प्रशिक्षणार्थी सैद्धांतिक शिक्षण के लिए उपविषय चुनकर अपना शिक्षण प्लान तैयार कर सकते हैं। जैसे आप ‘योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम’ में यौगिक संस्कृति और मूल्य शिक्षा पर शिक्षण करना चाहते हैं तो निम्नांकित विधि से शिक्षण प्लान तैयार कर सकते हैं:

दिनांक:

विषय - ‘योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम’

समय - 30 मिनट

उपविषय - यौगिक संस्कृति और मूल्यक शिक्षा

1. प्रदर्शन का माध्यम मौखिक

2. शिक्षण सामग्री: चार्ट, लैकक/ब्लैडर्ड बोर्ड, पीपीटी आदि

3. आगमन व परस्पर अभिवादन : स्वयं के परिचय के साथ विषय व उपविषय पर संक्षिप्त परिचय देते हुए

1 मिनट

- नमस्कार! आज योग की कक्षा में, मैं हूँ आपके साथ - अपना नाम बताते हुए, योग शिक्षक।
- शिक्षार्थियों, 'योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम' के अंतर्गत हमारा आज का विषय है - 'योग दर्शन' और इस विषय के अंतर्गत आज हम उपविषय - यौगिक संस्कृति और मूल्य शिक्षा पर चर्चा करेंगे। आज हम यह समझेंगे कि 'भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए दर्शन है।'

4. उद्देश्य :

- 1 मिनट

- संस्कृति शब्द का अर्थ समझा सकेंगे;
- यौगिक संस्कृति की अवधारणा को बता सकेंगे और उसके लक्ष्य पर, कि यौगिक संस्कृति का लक्ष्य मानव जीवन को संपूर्णता प्राप्त करना है, पर प्रकाश डाल सकेंगे;
- भारतीय संस्कृति में वर्णित पुरुषार्थ - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उल्लेख कर सकेंगे;
- भारतीय संस्कृति में संपूर्ण जीवनकाल को व्यवस्थित करने के लिए वर्णित आश्रम व्यक्वस्थो को समझा सकेंगे;
- भारतीय शास्त्रों में परमपुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हेतु साधन चतुष्टसय - विवेक, वैराग्य, षट्संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व का वर्णन कर सकेंगे;
- जीवन मूल्यों की स्थापना करने हेतु समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।

5. विषय वस्तु का शिक्षण:

- 20 मिनट

विषय वस्तु पर उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रथम दो बिन्दुओं पर चर्चा करते हैं और रोचक बनाते हुए संस्कृति शब्द का अर्थ, यौगिक संस्कृति की अवधारणा और उसके लक्ष्य को समझाने का प्रयास करते हैं।



योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणीयाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

6. सारांश :

- 3 मिनट

विषय वस्तु के अनुसार जो शिक्षण किया गया उसका संक्षिप्तीकरण करते हैं।

7. पाठ्यसंबंधित प्रश्नोत्तरी :

- 5 मिनट

शिक्षण को कितना प्रभावी बना सके और विषय वस्तु को शिक्षार्थी कितना समझ सके या जांचने के लिए कक्षा में 5-6 प्रश्न पूछते हैं। शिक्षार्थी के सही उत्तर देने पर शाब्दास, बहुत अच्छा आदि शब्द प्रयोग कर उत्साहित अवश्य करें। जो शिक्षार्थी ठीक से उत्तर नहीं दे सके उन्हें हतोत्साहित न करें, अपितु एक बार पुनः समझाने का प्रयास करें।।

8. टिप्पणी : कितने प्रश्नों के उत्तर शिक्षार्थीयों ने ठीक से दिये।

.....
.....

(यदि 6 प्रश्नों में से 4-5 प्रश्नों के उत्तर शिक्षार्थीयों ने ठीक से दिये। शिक्षण बहुत प्रभावी रहा।)

प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर

नाम
.....

नामांकन संख्या
.....

शिक्षक के हस्ताक्षर

व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए

प्रशिक्षणार्थी प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए उपविषय चुनकर अपना शिक्षण प्लान तैयार कर सकते हैं। जैसे आप ‘योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम’ में सूर्यनमस्कार पर प्रशिक्षण करना चाहते हैं तो निम्नांकित विधि से शिक्षण प्लान तैयार कर सकते हैं:

सूर्यनमस्कार पर शिक्षण-प्रशिक्षण प्लान

दिनांक:

विषय - ‘योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम’

समय - 30 मिनट

उपविषय - सूर्यनमस्कार

1. प्रदर्शन का माध्यम: मौखिक/डेमो

2. शिक्षण सामग्री: चार्ट, ब्लै/क/व्हाइट बोर्ड, पीपीटी आदि

3. आगमन व परस्पर अभिवादन : स्वयं के परिचय के साथ विषय व उपविषय पर संक्षिप्त परिचय देते हुए

- 1 मिनट

नमस्कार!

- आज योग की कक्षा में, मैं हूँ आपके साथ योग शिक्षक अपना नाम ,
- हमारा आज का विषय है – ‘योग विज्ञान में डिप्लोमा कार्यक्रम’ और इस विषय के अंतर्गत आज हम उपविषय – सूर्य-नमस्कार पर चर्चा करेंगे। हम सूर्य-नमस्कार करने की विधि सीखेंगे, और दूसरों को कराने का कौशल प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही इसके महत्व, लाभ व सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे।

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ



4. विधि एवं निर्देश:

- प्रत्येक स्टेप (Step) समझाएँ और प्रदर्शन (Demo) करके दिखाएँ।
- परस्पर संवादात्मक बनाएँ।
- शिक्षार्थियों से कराएं।
- प्रत्येक स्थिति को जाँचे और सही करें।

विषय – 5

योग शिक्षण-प्रशिक्षण कौशल
विकास



टिप्पणियाँ

प्रायोगिक पुस्तिका

5. **दिशा-निर्देश:** पुस्तिका में घर से करके लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दें।
6. **लाभ:** सूर्यनमस्कार के महत्व और लाभों पर प्रकाश डालें।
7. **सावधानियाँ:** आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करें।
8. टिप्पणी लिखें। कितने शिक्षार्थी सही ढंग से प्रत्येक स्टेप को कर सके।

(यदि 50% शिक्षार्थी सही ढंग से प्रत्येक स्टेप (Step) को कर पाए हैं तो आपका प्रशिक्षण प्रभावी रहा।)

प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर

नाम
.....

नामांकन संख्या
.....

शिक्षक के हस्ताक्षर

.....

16



टिप्पणियाँ

सत्रीय कार्य

निम्नांकित में से किसी एक विषय पर रिपोर्ट तैयार कर सत्रीय कार्य पूरकर प्रशिक्षण केंद्र पर जमा करें।

1. किशोरावस्था में उपयोगी योगाभ्यास, उनका महत्व तथा उनको अभ्यास कराने के अनुभव का विवरण।
2. खेल खेल में छोटे बच्चों को योगाभ्यास कराने का विवरण तथा महत्व।
3. तनाव प्रबंधन (Stress Management) के लिए योगाभ्यास तथा उनके महत्व का विवरण।
4. महिलाओं के लिए उपयोगी योगाभ्यास, उनका महत्व तथा उनको अभ्यास कराने का विवरण।
5. बुजुर्गों के लिए उपयोगी योगाभ्यास, उनका महत्व तथा उनको योग कराने का विवरण।
6. खेलों में योग के महत्व को समझाते हुए खिलाड़ियों के साथ योगाभ्यास का विवरण।
7. किसी पार्क में योगाभ्यास कराने का अनुभव।
8. किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में योगाभ्यास कराने का अनुभव।
9. किसी शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय में योगाभ्यास कराने का अनुभव।
10. किसी सरकारी संस्थान में योगाभ्यास कराने का अनुभव।